



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102020-222881
CG-DL-E-31102020-222881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3461]
No. 3461]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2020/ कार्तिक 8, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2020/KARTIKA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3925(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1445(अ), तारीख 11 मई, 2020 व का.आ. 1713(अ), तारीख 2 जून, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के पटियाला जिले में नए दिल्ली - अमृतसर - कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-5 के कि.मी. 135.2 से कि.मी.163.8 (पातड़ा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 मई, 2020 व 7 जून, 2020" को "अजीत(पंजाबी)" और "टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के पटियाला जिले में नए दिल्ली - अमृतसर - कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-5 के कि.मी. 135.2 से कि.मी.163.8 (पातड़ा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: पटियाला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पातड़ा					
गांव का नाम: बनवाला					
1	12//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	गुरदर्शन सिंह पुत्र शमशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
2	12//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3288	गुरदर्शन सिंह पुत्र शमशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
3	12//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.258	गुरदर्शन सिंह पुत्र शमशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
4	12//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.129	गुरदर्शन सिंह पुत्र शमशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
5	12//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062306	गुरदर्शन सिंह पुत्र शमशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
6	13//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.2757	लाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह ()
7	13//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.2984	13//21/1 (5-2) लाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह 13//21/2 (0-16) विक्रमदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह 1/2 हिस्सा गुरदर्शन सिंह पुत्र शमशेर सिंह 1/2 हिस्सा ()
8	131	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (पही)	0.0051	मुस्तरका मल्कान हसाब रसद रकबा खेवट ()
9	136	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0506	मुस्तरका मल्कान हसाब रसद रकबा खेवट ()

10	146	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0303	मुस्तर्का मलकान हसब रसद रकवा कहतत ()
11	18//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	प्सन्दीप कौर पुत्री जसप्रीत सिंह 20/98 हिस्सा हरमेश सिंह पुत्र भारु सिंह 20/98 हिस्सा प्रशीनी विधवा भारु सिंह 40/98 हिस्सा सुखविंदर कौर विधवा व जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 18/98 हिस्सा प् ()
12	18//1/2	निजी	गैर मुमकिन,सिंचित (चाही)	0.086	लाल सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह ()
13	18//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	18//10/2 (5-2) सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा 18//10/1 (2-10) अमरजीत सिंह पुत्र अर्जन सिंह 44/50 सुखविंद कौर विधवा गुरजीत सिंह 3/50 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 3/50 हिस्सा ()
14	18//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	11/1 (0-8) सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/4हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/4 हिस्सा लाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह 1/2 हिस्सा 11/2 (7-4) सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा ()
15	18//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा ()
16	18//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1973	सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा ()
17	18//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	लाल सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह ()
18	18//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3566	20/1 (6-19) सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा 20/2 (0-2) सुखविंदर कौर विधवा व जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र ()

					जोगिंद्र सिंह 1/2 हिस्सा लाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 1/2 हिस्सा ()
19	18//21/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	जसविन्दर कौर विधवा व परमजीत पुत्र व करमजीत कौर पुत्री बलविन्दर सिंह बी. बी. ()
20	18//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	जसविन्दर कौर विधवा व परमजीत पुत्र व करमजीत कौर पुत्री बलविन्दर सिंह बी. बी. ()
21	18//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	सुखविंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा जसप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह 1/2 हिस्सा ()
22	19//15	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (टटियाँ)	0.0228	नगर पंचायत देह ()
23	19//5	सरकारी(पंजाब मंडी बोर्ड)	गैर मुमकिन	0.1821	पंजाब मंडी बोर्ड ()
24	19//6	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (अनाज मंडी)	0.1012	नगर पंचायत देह ()
25	27//1	निजी	गैर मुमकिन,सिंचित (चाही)	0.2074	जसविन्दर कौर विधवा व परमजीत सिंह पुत्र व करमजीत कौर पुत्री बलविन्दर सिंह बी. बी. ()
26	27//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1163	परमजीत सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह मिस्त्री ()
27	27//11/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0379	परमजीत सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह मिस्त्री ()
28	27//11/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	पिन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा,बलजीत कौर विधवा नवकिरणदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()

29	27//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	पिसन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरनदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()
30	27//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	पिसन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरनदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()
31	27//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 291/1844 धरमिन्दर सिंह करमजीत सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी.बी. 114/211 हिस्सा बलजीत कौर विधवा नवकरनदीप सिंह पुत्र शमसेर सिंह 97/844 हिस्सा मिस्त्री ()
32	27//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 291/1844 धरमिन्दर सिंह करमजीत सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी.बी. 114/211 हिस्सा बलजीत कौर विधवा नवकरनदीप सिंह पुत्र शमसेर सिंह 97/844 हिस्सा मिस्त्री ()
33	27//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	पिसन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त

					सिंह वी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरणदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा ष् (0)
34	27//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	पिसन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह वी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरणदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा ष् (0)
35	27//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.349	विक्रमदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह (0)
36	27//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	पिसन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह वी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरणदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा ष् (0)
37	27//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.3136	पिसन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह वी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर

					विधवा नवकिरनदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()
38	27//23/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	प्सिन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरनदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()
39	27//23/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.172	शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 291/1844 धरमिन्दर सिंह करमजीत सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी.बी. 114/211 हिस्सा बलजीत कौर विधवा नवकरनदीप सिंह पुत्र शमसेर सिंह 97/344 हिस्सा मिस्त्री ()
40	27//26	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	प्सिन्दरजीत कौर विधवा करनजीत सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरनदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()
41	27//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	हरभजन सिंह पुत्र हरदेव ंसिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
42	27//9/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	विक्रमदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
43	27//9/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2074	प्सिन्दरजीत कौर विधवा करनजीत

					सिंह पुत्र बीरबल सिंह 363/2/3/3381 हिस्सा, मेहरबान सिंह पुत्र करनजीत सिंह 727/1/3/3381 हिस्सा, करमजीत सिंह धरमिंदर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 352/1455 हिस्सा, बलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 335/3381 हिस्सा, बलजीत कौर विधवा नवकिरणदीप सिंह 224/3/4/3381 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 674/1/4/3381 हिस्सा प् ()
44	35//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.086	12/2 सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री ()
45	35//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री ()
46	35//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री ()
47	35//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.1391	1.(35//17/1) (0-13)सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री 2. (35//17/2) (2-2) कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र उत्तम चन्द मिस्त्री ()
48	35//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	1.(35//17/1)सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री 2. (35//17/2) कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र उत्तम चन्द मिस्त्री ()
49	35//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र उत्तम चन्द मिस्त्री ()
50	35//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2377	1. (35//2/2) गुरभेज गुरभेज सिंह अमृतपाल सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह पुत्र अजीत सिंह 1/4 हिस्सा हरभजन सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 1/4 हिस्सा बलवीर सिंह गुरमेल सिंह मेजर सिंह पुत्र करनैल

					सिंह वीणवीण 1/2 हिस्सा ()
51	35//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	प्रीतमदास पुत्र एसार सिंह मिस्त्री ()
52	35//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.2175	24/1 कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र उत्तम चन्द मिस्त्री ()
53	35//3/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	गुरभेज गुरभेज सिंह अमृतपाल सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह पुत्र अजीत सिंह 1@4 हिस्सा हरभजन सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 1@4 हिस्सा बलवीर सिंह गुरमेल सिंह मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह बी.बी. 1@2 हिस्सा ()
54	35//3/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	1. (35//2/2/2) हरनेक सिंह पुत्र लाल सिंह 9/514 हिस्सा कुलवन्त सिंह जगजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह बी. बी. 158/514 हिस्सा मनप्रीत सिंह पुत्र सेवा सिंह 347 /1028 हिस्सा माघ सिंह पुत्र लाल सिंह 347/1028 2. (35//3/2/1) शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 291/1844 कर्मजीत सिंह धरमिन्दर सिंह पुत्र सुखवन्त सिंह बी. बी. 114/211 हिस्सा बलजीत कौर विधवा नवकरनदीप सिंह पुत्र शमशेर सिंह 97/344 हिस्सा मिस्त्री ()
55	35//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री ()
56	35//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3187	सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह मोहन सिंह कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र शाम सिंह मिस्त्री ()
57	35//8/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	बलवीर सिंह मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 314/1002 हिस्सा, हरभजन सिंह पुत्र अजीत सिंह 177/668 हिस्सा गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह 157/1002 हिस्सा अमृतपाल सिंह गुरभेज सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह 177/688 ()
58	35//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	बलवीर सिंह मेजर सिंह पुत्र करनैल

					सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 314/1002 हिस्सा, हरभजन सिंह पुत्र अजीत सिंह 177/668 हिस्सा गुरमैल सिंह पुत्र करनैल सिंह 157/1002 हिस्सा अमृतपाल सिंह गुरभेज सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह 177/688 ()
59	42//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
60	42//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
61	42//15	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.0405	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह

					207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
62	42//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
63	42//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.4021	मुखतिआर सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह पुत्र काहला सिंह ()
64	42//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
65	42//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	मुखतिआर सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह पुत्र काहला सिंह ()
66	42//25	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.2226	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा,

					दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा (दर 2/1/2/88) गुरदीप सिंह कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चंद 85/1/2/88 हिस्सा ()
67	42/3/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिस्सा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
68	42/3/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	गुरदीप सिंह पुत्र प्रकाश चन्द ()
69	42/4	निजी	सिंचित (चाही)	0.2883	गुरदीप सिंह पुत्र प्रकाश चन्द मिस्त्री ()
70	42/7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	1. (42/7/1) 2. (42/7/2) महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिस्सा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिस्सा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा ()
71	42/8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	1. (42/8/1) (42/8/2) महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिस्सा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह

					1/12 हिंसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकर सिंह 1/12 हिंसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिंसा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिंसा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिंसा ()
72	53//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.043	महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिंसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकर सिंह 1/12 हिंसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिंसा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिंसा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिंसा ()
73	54//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	कुलवीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र करतार सिंह ()
74	54//4/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0784	मुखतिआर सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह पुत्र काहला सिंह ()
75	54//4/2	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.1517	कुलवीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र करतार सिंह ()
76	54//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.306	पृ. 5/1 (2-12) गुरदीप सिंह कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चंद 2. 5/2 (3-9) कुलवीर सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह पृ ()
77	54//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.4628	पृ 6/1 (0-8) महिंदर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मला सिंह 896/2/3/3740 हिंसा, करतार कौर माता बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, अमरजीत कौर विधवा बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिंसा, ()

					अमनदीप सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र ठाकर सिंह 1/12 हिसा, मनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/12 हिसा, दयाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र मल्ला सिंह 832/2/3/3740 हिस्सा निशान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 207/1870 हिस्सा चरण सिंह पुत्र महिंदर सिंह 35/374 हिस्सा 6/2 (0-12) गुरदीप सिंह कश्मीर सिंह पुत्र प्रकाश चंद 6/3 (8- 3) कुलवीर सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह प् (0)
78	54/7	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	कुलवीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र करतार सिंह (0)
79	59/1	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन (पही)	0.0228	प्रोविज़नल गवर्मेंट (0)
80	59min	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन पही, ड्रेन	0.0278	मुश्तरका मलकान हसाब रसद रकबा खेवट (0)
81	68	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन (टटियाँ)	0.0101	मुश्तरका मलकान हसब रसद रकबा कहवत (0)
82	74	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन(पही)	0.0051	मुश्तरका मलकान हसब रसद रकबा कहवत (0)
83	75	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन(रोड)	0.129	मुश्तरका मलकान हसब रसद रकबा [ksoV (0)
गांव का नाम: बरास					
84	107//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जगविंदर सिंह सन ऑफ़ राजवीर २०६५ २२७४ जसवीर कौर विडो राजवीर सिंह २०९ २२७४ (0)
85	107//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.1922	कुलविंदर सिंह सन महन्दर सिंह ५६४ १९७३ हिंसा जसवंत सिंह सन निशान सिंह ७५ १९७३ हिस्सा नीलम सिंगला वाइफ संजीव कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ पिंकी सिंगला वाइफ प्रदीप कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ३७६ १९७३ हिस्सा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ३०० १९७३ हिंसा संजीव कुमार १११ १९७३

					हिंसा व प्रदीप कुमार १४९ १९७३ हिंसा सन गिरधारी लाल गुरदीप सिंह हरमीत सिंह सन जोगिन्दर सिंह बा बा १३ १९७३ हिंसा गिरधारी लाल सन मोती लाल १२० १९३ हिंसा हमीर कौर वाइफ काकू सिंह १२० १९७३ ()
86	107//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.0759	सुपिंद्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह पुत्र बाबू सिंह ()
87	108//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	कुलविंदर सिंह सन महन्दर सिंह ५६४ १९७३ हिंसा जसवंत सिंह सन निशान सिंह ७५ १९७३ हिस्सा नीलम सिंगला वाइफ संजीव कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ पिंकी सिंगला वाइफ प्रदीप कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ३७६ १९७३ हिस्सा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ३०० १९७३ हिंसा संजीव कुमार १११ १९७३ हिंसा व प्रदीप कुमार १४९ १९७३ हिंसा सन गिरधारी लाल गुरदीप सिंह हरमीत सिंह सन जोगिन्दर सिंह बा बा १३ १९७३ हिंसा गिरधारी लाल सन मोती लाल १२० १९३ हिंसा हमीर कौर वाइफ काकू सिंह १२० १९७३ ()
88	108//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सुपिन्दर सिंह पुत्र समसेर सिंह पुत्र बाबू सिंह 4 ()
89	108//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3616	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 2065/2274 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 209/2274 ()
90	108//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 2065/2274 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 209/2274 ()
91	108//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.3288	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 2065/2274 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 209/2274 ()
92	108//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	कुलविंदर सिंह सन महन्दर सिंह ५६४ १९७३ हिंसा जसवंत सिंह सन

					निशान सिंह ७५ १९७३ हिस्सा नीलम सिंगला वाइफ संजीव कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ पिंकी सिंगला वाइफ प्रदीप कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ३७६ १९७३ हिस्सा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ३०० १९७३ हिंसा संजीव कुमार १११ १९७३ हिंसा व प्रदीप कुमार १४९ १९७३ हिंसा सन गिरधारी लाल गुरदीप सिंह हरमीत सिंह सन जोगिन्दर सिंह वा वा १३ १९७३ हिंसा गिरधारी लाल सन मोती लाल १२० १९३ हिंसा हमीर कौर वाइफ काकू सिंह १२० १९७३ ()
93	108//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 2065/2274 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 209/2274 ()
94	108//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 2065/2274 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 209/2274 ()
95	108//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 2065/2274 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 209/2274 ()
96	108//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.0379	जगविन्दर सिंह पुत्र रघवीर सिंह 100/420 जसवीर कौर विधवा रघवीर सिंह 320/420 ()
97	108//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	सुपिन्दर सिंह पुत्र समसेर सिंह पुत्र बाबू सिंह 4 ()
98	115//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	जगविंदर सिंह सन ऑफ राजवीर २०६५ २२७४ जसवीर कौर विधवा राजवीर सिंह २०९ २२७४ ()
99	115//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	परगट सिंह सन दलवीर सिंह सन जीत सिंह ()
100	115//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	गुरप्रीत कौर वाइफ गुरबख्शीश सिंह १४ १ २ ८७ हिंसा गुरबख्शीस सिंह सन गुरचरण सिंघ १४ १ २ ८७

					हिंसा गुरदेव कौर वाइफ गुरचरण सिंह ३८ १ २ ८७ हिंसा मगर सन जंगीर १९ १ २ ८७ हिंसा ()
101	115//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	मगर सिंह सन जंगीर सिंह सन सांता सिंह ()
102	115//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	कृष्ण सलाल सन खजांची राम ()
103	115//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1189	कृष्ण लाल पुत्र खजांची राम ()
104	115//19/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0556	ग्राम पंचायत ()
105	115//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	जगविंदर सिंह सन ऑफ़ राजवीर २०६५ २२७४ जसवीर कौर विधवा राजवीर सिंह २०९ २२७४ ()
106	115//23/1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1846	सुरजीत सिंह सन आत्मा सिंह जगतार सिंह सन आत्मा सिंह ()
107	115//23/1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	परगट सिंह सन दलवीर सिंह सन जीत सिंह ()
108	115//23/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	कृष्ण सलाल सन खजांची राम ()
109	115//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.2327	कृष्ण लाल पुत्र खजांची राम ()
110	115//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	गुरप्रीत कौर वाइफ गुरबख्शीश सन गुरचरण सिंह २८२ १३०९ हिंसा गुरबख्शीश सिंह सन गुरचरण सिंघ २८२ १३०९ हिंसा गुरदेव कौर वाइफ गुरचरण सिंह सन गुरबख्शी सिंह ७४५ १३०९ ()
111	115//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	गुरप्रीत कौर वाइफ गुरबख्शीश सन गुरचरण सिंह २८२ १३०९ हिंसा गुरबख्शीश सिंह सन गुरचरण सिंघ २८२ १३०९ हिंसा गुरदेव कौर वाइफ गुरचरण सिंह सन गुरबख्शी सिंह ७४५ १३०९ ()
112	115//8/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1796	गुरप्रीत कौर वाइफ गुरबख्शीश सन गुरचरण सिंह २८२ १३०९ हिंसा गुरबख्शीश सिंह सन गुरचरण

					सिंघर ८२ १३०९ हिंसा गुरदेव कौर वाइफ गुरचरण सिंह सन गुरबक्श सिंह ७४५ १३०९ ()
113	115//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3313	गुरप्रीत कौर पत्नी गुरबक्श सिंह पुत्र गुरचरण सिंह 282/1309 हिस्सा, गुरबक्श सिंह पुत्र गुरचरण सिंह 282/1309 हिस्सा, गुरदेव कौर पत्नी गुरचरण सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह 745/1309 ()
114	131//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसस जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४ १ २ १२७१८ हिस्सा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडब ६३८ १२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
115	131//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.3616	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसस जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४ १ २ १२७१८ हिस्सा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडब ६३८ १२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
116	131//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.177	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसस जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४

					१ २ १२७१८ हिस्सा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडब ६३८ १२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
117	131//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.2984	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह ()
118	131//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसस जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४ १ २ १२७१८ हिस्सा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडब ६३८ १२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
119	131//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.1543	जय सिंह पुत्र पुत्र सुखदेव सिंह ()
120	131//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.3945	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह सन धरम सिंह ()
121	131//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.2048	जसपाल सिंह अमरीक सिंह सन मेहमा वा वा २ ३ हिंसा जय सिंह सन सुखदेव सिंह १ ३ हिंसा ()
122	131//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3515	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसस जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४ १ २ १२७१८ हिस्सा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडब ६३८

					१२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
123	131//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसा जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४ १ २ १२७१८ हिंसा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडव ६३८ १२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
124	131//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	हरनेक सिंह सन जंग सिंह १७१० १२७१८ सिंह जय सिंह सन सुखदेव सिंह ६२५ १२७१८ हिंसा जगपाल सिंह सन मेहमा सिंह ५४७ १२७१८ हिंसा अमरीक सिंह सन मेहमा ३८४ १ २ १२७१८ हिंसा सतनाम सिंह सो ऑफ हरनेक ६४० १२७१८ हिंसा नहर सिंह सन बलडव ६३८ १२७१८ गुलज़ार सिंह सन बलदेव सिंह ११८० १ २ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर वाइफ धर्म सिंह सन नछतर सिंह ३१० १२७१८ हिंसा सुपिंदर सिंह भूपिंदर सिंह सन जय सिंह १४८८ १२७१८ हिंसा परमजीत कौर मदर वा ()
125	131//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	131//8/1 (1-9) जसपाल सिंह पुत्र महमा सिंह 1/3 हिंसा अमरीक सिंह पुत्र महमा सिंह 1/3 हिंसा जय सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र जंग सिंह 1/3 हिंसा 131//8/2 (0-13), जसपाल सिंह पुत्र महमा सिंह 1/2 हिंसा अमरीक सिंह पुत्र महमा सिंह 1/2 हिंसा ()

126	132//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	गुरमेल कौर विधवा ३७६ ३००५ हिंसा व जर्नल सिंह सतपाल सिंह सन सुखविंदर सिंह ११२८ ३००५ हिंसा कुलदीप सिंह सन छाजू सिंह ३६५ ३००५ हिस्सा छाजू सिंह सन हरचंद सिंह ६४० १ २ ३००५ हिस्सा यादविंदर सिंह निर्भे सिंह सन सुरजीत सिंह व व १२६ ३००५ हिस्सा सतनाम सिंह मनप्रीत सिंह सन निर्मल सिंह ३६१ ३००५ हिंसा राजिंदर कौर वाइफ लखविंदर सिंह सन गुरमीत सिंह १० १ २ ३००५ हिंसा ()
127	134//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0683	गुरमेल कौर विधवा ३७६ ३००५ हिंसा व जर्नल सिंह सतपाल सिंह सन सुखविंदर सिंह ११२८ ३००५ हिंसा कुलदीप सिंह सन छाजू सिंह ३६५ ३००५ हिस्सा छाजू सिंह सन हरचंद सिंह ६४० १ २ ३००५ हिस्सा यादविंदर सिंह निर्भे सिंह सन सुरजीत सिंह व व १२६ ३००५ हिस्सा सतनाम सिंह मनप्रीत सिंह सन निर्मल सिंह ३६१ ३००५ हिंसा राजिंदर कौर वाइफ लखविंदर सिंह सन गुरमीत सिंह १० १ २ ३००५ हिंसा ()
128	134//1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	महिंदर सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा जगिंदर सिंह ५३४ ३४७२ हिंसा नरिंदर सिंह ६९५ ३४७२ हिंसा हरपाल सिंह ८५५ ३४७२ हिंसा सुरजन सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा सन हाकम सिंह ()
129	134//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2352	महिंदर सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा जगिंदर सिंह ५३४ ३४७२ हिंसा नरिंदर सिंह ६९५ ३४७२ हिंसा हरपाल सिंह ८५५ ३४७२ हिंसा सुरजन सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा सन हाकम सिंह ()
130	134//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3616	महिंदर सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा जगिंदर सिंह ५३४ ३४७२ हिंसा नरिंदर सिंह ६९५ ३४७२ हिंसा हरपाल सिंह ८५५ ३४७२ हिंसा सुरजन सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा सन हाकम सिंह

					()
131	134//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	महिंदर सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा जगिंदर सिंह ५३४ ३४७२ हिंसा नरिंदर सिंह ६९५ ३४७२ हिंसा हरपाल सिंह ८५५ ३४७२ हिंसा सुरजन सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा सन हाकम सिंह ()
132	134//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	महिंदर सिंह जगिंदर सिंह नरिंदर सिंह हरपाल सिंह सुरजन सिंह सन हाकम सिंह बी बी ()
133	134//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.4021	20/1 (6-14) ए 20/2 (1-5) महेन्द्र सिंह हिंसा, जगिंदर सिंह हिंसा नरेन्द्र सिंह हरपाल सिंह हिंसा सुरजन सिंह हिंसा पुत्र हाकम सिंह ()
134	134//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	महिंदर सिंह जगिंदर सिंह नरिंदर सिंह हरपाल सिंह सुरजन सिंह सन हाकम सिंह बी बी ()
135	135//15/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	महेन्द्र सिंह 694/3472 हिंसा, जगिंदर सिंह 534/3472 हिंसा नरेन्द्र सिंह 695/3472 हरपाल सिंह 855/3472 हिंसा सुरजन सिंह 694/3472 हिंसा पुत्र हाकम सिंह ()
136	135//15/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0329	हाकम सिंह स सन रोशन सिंह ()
137	135//15/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	महिंदर सिंह जगिंदर सिंह नरिंदर सिंह हरपाल सिंह सुरजन सिंह सन हाकम सिंह बी बी ()
138	135//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	महिंदर सिंह जगिंदर सिंह नरिंदर सिंह हरपाल सिंह सुरजन सिंह सन हाकम सिंह बी बी ()
139	135//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	महिंदर सिंह जगिंदर सिंह नरिंदर सिंह हरपाल सिंह सुरजन सिंह सन हाकम सिंह बी बी ()
140	135//25/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	महिंदर सिंह जगिंदर सिंह नरिंदर सिंह हरपाल सिंह सुरजन सिंह सन हाकम सिंह बी बी ()

141	135//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0379	तरलोक शर्मा नवजोत शर्मा शाहिल सर्मा सन राम कुमार सन केसवा नन्द व ()
142	135//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.3819	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह सन धरम सिंह ()
143	135//6/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.086	महिंदर सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा जगिंदर सिंह ५३४ ३४७२ हिंसा नरिंदर सिंह ६९५ ३४७२ हिंसा हरपाल सिंह ८५५ ३४७२ हिंसा गुरजन सिंह ६९४ ३४७२ हिंसा सन हाकम सिंह ()
144	135//6/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0936	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह ()
145	147//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0632	रंजीत सिंह सन जगमेल सिंह १ ३ हिंसा रविंदर सिंह सन बलजीत सिंह १ ३ हिंसा गुरजाश सिंह सन हरजीत सिंह १ ३ हिंसा ()
146	156	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0986	ग्राम पंचायत ()
147	16//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2605	बलविंदर सिंह मंजीत सिंह लखविंदर सिंह सन शीशा सिंह व व ()
148	16//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3794	बलविंदर सिंह अमनजीत सिंह लखविंदर सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
149	16//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	बलविंदर सिंह अमनजीत सिंह लखविंदर सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
150	16//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2276	बलविंदर सिंह मंजीत सिंह लखविंदर सिंह सन शीशा सिंह व व ()
151	16//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3414	20/1 . (3-2) 20/2 . (3-13) बलविंदर सिंह अमनजीत सिंह लखविंदर सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
152	16//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	बलविंदर सिंह मंजीत सिंह लखविंदर सिंह सन शीशा सिंह व व ()

					()
153	16//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.3288	बलविंद्र सिंह अमनजीत सिंह लखविंद्र सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
154	16//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	बलविंद्र सिंह अमनजीत सिंह लखविंद्र सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
155	16//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	बलविंद्र सिंह अमनजीत सिंह लखविंद्र सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
156	166	सरकारी(पंजाब सरकार)	गैर मुमकिन(ड्रेन)	0.1644	मकबुजा मालकान पी डबलयु डी ()
157	17//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	बलविंदर सिंह मंजीत सिंह लखविंदर सिंह सन शीशा सिंह व व ()
158	172	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन रास्ता	0.1012	ग्राम पंचायत ()
159	174	सरकारी(प्रोवेशनल सरकार)	गैर मुमकिन (रजवाहा)	0.172	सरकारी पंचायत ()
160	31//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	बलविंदर सिंह मंजीत सिंह लखविंदर सिंह सन शीशा सिंह व व ()
161	31//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	बलविंद्र सिंह अमनजीत सिंह लखविंद्र सिंह पुत्र शीशा सिंह वीए वीए ()
162	31//12/1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	कश्मीर सिंह राजवीर सिंह सन महिल सिंह व महिल सिंह सन हरबंस सिंह व व २० ८० हिस्सा परमजीत कौर वाइफ धरम सिंह सन नछतर सिंह ६० ८० हिंसा ()
163	31//12/1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	कश्मीर सिंघराघवीर सिंह सन महिल सिंह व महिल सिंह सन हरबंस सिंह व व ()
164	31//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह सन धरम सिंह ()
165	31//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह सन धरम सिंह

					()
166	31//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह सन धरम सिंह ()
167	31//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह सन धरम सिंह ()
168	31//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	कश्मीर सिंह राजवीर सिंह सन महिला सिंह व महिला सिंह सन हरबंस सिंह व व २० ८० हिस्सा परमजीत कौर वाइफ धरम सिंह सन नछतर सिंह ६० ८० हिस्सा ()
169	31//2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	बलविंदर सिंह मंजीत सिंह लखविंदर सिंह सन शीशा सिंह व व ()
170	31//2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.172	जसवीर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र हरचंद सिंह ()
171	31//22/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0278	ग्राम पंचायत ()
172	31//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3692	ग्राम पंचायत ()
173	31//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	मेजर सिंह छाजू सिंह गुरमेल सिंह बाँट सिंह गुरपियर सिंह हरपाल सिंघण सन चानन सिंह व व ६ ७ हिंसा राम सिंह निर्मल सिंह सन बार सिंह १ ७ हिंसा ()
174	31//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	प्रमजीत सिंह पत्नी धर्म सिंह पुत्र कपुर सिंह ()
175	31//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह ()
176	31//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3541	जसवीर सिंह उर्फ सुखवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह ()
177	38//13	अन्य(गुरु ग्रंथ साहिब)	सिंचित (चाही)	0.0809	श्री गुरु ग्राम पंचायत ()
178	38//14	अन्य(ग्राम पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.4046	ग्राम पंचायत ()
179	38//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	नरिंदर सिंह बल जिन्दर सिंह सन

					मुख्तयार सिंह व व १ ४ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १ ८ हिस्सा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ८ हिस्सा ()
180	38//16	निजी	सिंचित (नाही)	0.2023	नरिंदर सिंह बल जिन्दर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व १ ४ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १ ८ हिस्सा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ८ हिस्सा ()
181	38//17	निजी	सिंचित (नाही)	0.3692	नरिंदर सिंह बल जिन्दर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व १ ४ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १ ८ हिस्सा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ८ हिस्सा ()
182	38//18	अन्य(गुरु ग्रंथ साहिब)	सिंचित (चाही)	0.0025	श्री गुरु ग्राम पंचायत ()
183	38//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.2529	बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १२७ १ २ ३४७ हिंसा बलजिंदर सिंह नरिंदर सिंह सो मुख्तयार सिंह ८७ ३४७ हिंसा जसदीप कौर वाइफ बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह ४६ ३४७ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह ४३ १ ४ ३४७ हिंसा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह ४३ १ ४ ३४७ हिंसा ()
184	38//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.3237	नरिंदर सिंह बल जिन्दर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व १ ४ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर सिंह सन रूढ सिंह १ ४ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १ ८ हिस्सा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ८ हिस्सा ()

185	38//3	अन्य(ग्राम पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3187	गाँव पंचायत ()
186	38//4/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	चरणजीत कौर वाइफ बाबू सिंह ९०० १३३१ १ २ हिंसा जगतार सिंह सन गंगा सिंह ५ १३३१ १ २ गुरमेल सिंह सन चानन सिंह ३९ १ २ १३३१ १ २ हिंसा मेजर सिंह सन चानन सिंह १४१ १ २ १३३१ १ २ हिंसा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह ४६ १ २ १३३१ १ २ हिंसा नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुख्तयार सिंह ९३ १३३१ १ २ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह ४६ १ २ १३३१ १ २ हिंसा चरणजीत कौर वाइफ बाबू सिंह ६० १३३१ १ २ हिंसा ()
187	38//4/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.0506	गाँव पंचायत ()
188	38//6/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	चरणजीत कौर वाइफ बाबू सिंह ९०० १३३१ १ २ हिंसा जगतार सिंह सन गंगा सिंह ५ १३३१ १ २ गुरमेल सिंह सन चानन सिंह ३९ १ २ १३३१ १ २ हिंसा मेजर सिंह सन चानन सिंह १४१ १ २ १३३१ १ २ हिंसा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह ४६ १ २ १३३१ १ २ हिंसा नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुख्तयार सिंह ९३ १३३१ १ २ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह ४६ १ २ १३३१ १ २ हिंसा चरणजीत कौर वाइफ बाबू सिंह ६० १३३१ १ २ हिंसा ()
189	38//7	अन्य(ग्राम पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3692	गाँव पंचायत ()
190	38//8	अन्य(गुरु ग्रंथ साहिब)	सिंचित (चाही)	0.2023	श्री गुरु ग्रन्थ साहिबश्री गुरु ग्राम पंचायत ()
191	388	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन(ड्रेन)	0.0278	ग्राम पंचायत ()
192	389	सरकारी(पंजाब सरकार)	गैर मुमकिन(ड्रेन)	0.0329	ग्राम पंचायत ()
193	422	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन(पही)	0.0481	ग्राम पंचायत ()
194	423	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0582	ग्राम पंचायत

					()
195	466	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0607	ग्राम पंचायत ()
196	467	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0051	ग्राम पंचायत ()
197	468	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन (पही)	0.0101	ग्राम पंचायत ()
198	55//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.2984	शेर सिंह १३९ १ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ वहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरवंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा ()
199	55//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	शेर सिंह १३९ १ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ वहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरवंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा ()
200	55//25/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0531	शेर सिंह १३९ १ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ वहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरवंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा ()
201	55//25/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास

					<p>१३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुवाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिंसा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिंसा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८०</p> <p>()</p>
202	55//26	निजी	गैर मुमकिन	0.0051	<p>शेर सिंह १३९ १ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरबंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा</p> <p>()</p>
203	55//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	<p>बलविंदर सिंह सन रूड सिंह २५५ ६९४ हिंसा नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व १७४ ६९४ हिंसा जसदीप कौर वाइफ बलविंदर सिंह ४६ ३४७ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १७३ १३८८ हिंसा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १७३ १३८८ हिंसा</p> <p>()</p>
204	55//5/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1669	<p>बलविंदर सिंह सन रूड सिंह १ ४ हिंसा नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुख्तयार सिंह १ ४ हिंसा जसदीप कौर वाइफ बलविंदर सिंह १ ४ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १ ८ हिंसा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ८ हिंसा</p>

					0
205	55//5/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	शेर सिंह १३९१ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरबंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा 0
206	55//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	शेर सिंह १३९१ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरबंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा 0
207	55//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	शेर सिंह १३९१ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरबंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा 0
208	56//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	नरिंदर सिंह बल जिन्दर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व १ ४ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूड सिंह १ ४ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर सिंह सन रूड सिंह १ ४ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह १ ८ हिंसा जगराज सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ८ हिंसा 0
209	56//1/2	निजी	गैर मुमकिन	0.0303	गंगा सिंह सो अजमेर सिंह ५ ४०४९२ हिंसा मंजीत सिंह सन गुरबचन सिंह ६६० ४०४९२ हिंसा वीर कौर वाइफ गुरबचन सिंह २४० ४०४९२ हिंसा गुरमेल सिंह सन

					<p>चानन सिंह ६४० ४०४९२ हिंसा मेजर सिंह सन चानन सिंह ५०२ ४०४९२ हिंसा रणजीत सिंह सन गुरबचन सिंह ६६० ४०४९२ हिंसा कुलदीप सिंह सन बाँट सिंह ११३ ८०९८४ हिंसा लखविंदर सिंह सन बाँट सिंह ११३ ८०९८४ हिंसा हरपाल सिंह सन चानन सिंह ५८० ४०४९२ हिंसा छाजू सिंह सन चानन सिंह १४२० ४०४९२ हिंसा बाँट सिंह सन चानन सिंह १४२६ ४०४९२ हिंसा गुरपेयर सिंह सन चानन सिंह २७ ७६४ हिंसा चरणजीत कौर दोउठेर वारु सिंह ९६० ४०४९२ हिंसा राम सिंह सन वारु सिंह ६५० ४०४९२ हिंसा निर्मल सिंह सन वारु सिंह ६५० ४०४९२ हिंसा हजूरा सिंह सन रेहमगिरि १ ४ हिंसा कर्नल सिंह जर्नल सिंह सन निरंजन सिंह वी वी १ ८ हिंसा भजन सन कला १ ८ हिंसा रूप चाँद सन हेमराज २७९ ११३६० हिंसा सतपाल सन हेमराज सिंह २७९ ११३६० हिंसा निर्मल सिंह सन गुरदयाल सिंह ८३ २२७२ हिंसा धन सिंह सन गुरदयाल सिंह ९३ ५६८० हिंसा महिंदर कौर दोउठेर छोटू सिंह २०३ ११३६० हिंसा तरसेम सिंह सन करतार सिंह ४०९ ५६८० रूढु मणि दोउठेर करतार सिंह ५१ ५६८० हिंसा मेजर सिंह सन महिंदर सिंह २७९ ११३६० हिंसा सुखजीत सिंह सन गुरजंट सिंह २७९ ११३६० हिंसा दलीप कौर विडो जोगिन्दर सिंह नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुखतयार सिंह ३७२ १०१२३० हिंसा सिमरनजीअत सिंह सन पलविंदर सिंह ९३ १०१२३० हिंसा ()</p>
210	56//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	<p>शेर सिंह १३९ १ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरवंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४०</p>

					४५४० हिंसा ()
211	56//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	शेर सिंह 139/1/2/4540 हिस्सा भुरा सिंह 1020/1/2/4540 हिस्सा खडक सिंह 1492/1, 2, 4540 हिस्सा व गुरदयाल कौर पत्नी भान संिह 326/4580 हिस्सा हरवंस कौर विधवा 572/1/2/4540 हिस्सा जसवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 346/4540 सोदागर सिंह पुत्र सुखजिंदर र सिंह पुत्र शेर सिंह 640/4540 हिस्सा ()
212	56//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	गुरपियार सिंह गुरमेल सिंह बलजीत सिंह गुरतेज सिंह पुत्र मरहा सिंह पुत्र प्रताप सिंह वीए वीए ()
213	56//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3819	शेर सिंह १३९१ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरवंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा शेर सिंह 139/1/2/4540 हिस्सा भुरा सिंह 1020/1/2/4540 हिस्सा खडक सिंह 1492/1, 2, 4540 हिस्सा व गुरदयाल कौर पत्नी भान संिह 326/4580 हिस्सा हरवंस कौर विधवा 572/1/2/4540 हिस्सा जसवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 346/4540 सोदागर सिंह पुत्र सुखजिंदर र सिंह पुत्र शेर सिंह 640/4540 हिस्सा ()
214	56//21/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	शेर सिंह १३९१ २ ४५४० हिंसा भूरा सिंह १०२० १ २ ४५४० हिंसा खडक सिंह १४९५ १ २ ४५४० हिंसा व गुरदयाल कौर वाइफ बहन सिंह ३२६ ४५८० हिंसा हरवंस कौर विधवा ५७२ १ २ ४५४० हिंसा जसवंत सिंह सन तारा सिंह ३४६ ४५४० हिंसा सुदागर सिंह सन सुखजिंदर सिंह सन शेर सिंह ६४० ४५४० हिंसा

					()
215	56//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	जोगिन्दर सिंह नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व ६२१ ३ ४ १४९९ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह २०७ १ ४ १४९९ हिंसा तारा सिंह सन नहर सिंह २५ १४९९ हिंसा हरदीप सिंह सन हरपाल सिंह १३ १४९९ हिंसा अमनदीप सिंह रणजीत सिंह सन कुलवंत सिंह व व ६२ १४९९ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूढ ११७ १४९९ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर संघ ७६ १४९९ हिंसा तेज कौर वाइफ बुध सिंह ३७७ १४९९ हिंसा ()
216	60//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3515	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुवाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिंसा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिंसा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()
217	60//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2048	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८

					<p>२४८० हिस्सा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुबाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिस्सा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिस्सा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()</p>
218	60//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	<p>दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिस्सा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुबाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिस्सा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिस्सा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८०</p>

					0
219	60//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	<p>दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोड़ा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुवाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिंसा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिंसा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० 0</p>
220	60//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0531	<p>दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोड़ा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुवाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिंसा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिंसा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ</p>

					नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()
221	60//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुबाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिंसा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिंसा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()
222	60//18/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1239	गुरप्यार सिंह पुत्र चनण सिंह ()
223	60//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2757	बाँट सिंह सन चानन सिंह ७०५ ८१७ हिंसा कुलदीप सिंह लखविंदर सिंह सन बाँट सिंह व व ११२ ८१७ हिंसा ()
224	60//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	जोगिन्दर सिंह नरिंदर सिंह बलजिंदर सिंह सन मुख्तयार सिंह व व ६२१ ३ ४ १४९९ हिंसा सिमरनजीत सिंह सन पलविंदर सिंह २०७ १ ४ १४९९ हिंसा तारा सिंह

					सन नहर सिंह २५ १४९९ हिंसा हरदीप सिंह सन हरपाल सिंह १३ १४९९ हिंसा अमनदीप सिंह रणजीत सिंह सन कुलवंत सिंह व व ६२ १४९९ हिंसा बलविंदर सिंह सन रूढ ११७ १४९९ हिंसा जगदीश कौर वाइफ बलविंदर संघ ७६ १४९९ हिंसा तेज कौर वाइफ बुध सिंह ३७७ १४९९ हिंसा ()
225	60//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	बाँट सिंह सन चानन सिंह ७०५ ८१७ हिंसा कुलदीप सिंह लखविंदर सिंह सन बाँट सिंह व व ११२ ८१७ हिंसा ()
226	60//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.2832	स्वर्ण सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ कला सिंह ७४३ २६४३ पार्ट बलवीर कौर विडो गिरदावर सिंह स/ओ अमर सिंह १ ६ पार्ट रंजीत सिंह स/ओ गुर्दवाल सिंह स/ओ अमर सिंह १ ६ पार्ट सोहन सिंह स/ओ अमर सिंह १ ६ पार्ट बलविंदर सिंह स/ओ करनैल सिंह स/ओ साधू सिंह १ १८ पार्ट हरजीत सिंह स/ओ करनैल सिंह स/ओ साधू सिंह १ १८ पार्ट आत्मा सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ जसवंत सिंह ४६ २६४३ पार्ट अमरीक सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ जसवंत सिंह ४६ २६४३ पार्ट रंजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ जसवंत सिंह ४६ २६४३ पार्ट मलकीत सिंह स/ओ हरजिंदर सिंह १ ३६ पार्ट गुरमीत कौर विडो हरजिंदर सिंह १ ३६ पार्ट ()
227	60//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.2934	गुरप्यार सिंह पुत्र चनण सिंह ()
228	60//26	निजी	गैर मुमकिन	0.0278	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोड़ा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८०

					सन भाग सिंह सुबाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिस्सा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिस्सा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()
229	60//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८ २४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिस्सा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुबाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिस्सा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिस्सा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()
230	61//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	दरसन सिंह ३८ १ २ २४८० हिंसा रणवीर सिंह १४० २४८० हिंसा कर्मजीत सिंह २८ १ २ २४८० हिंसा सन भरपूर सिंह जसवीर सिंह १३८

					<p>२४८० हिंसा जसविंदर सिंह ८५८ २४८० हिंसा सन दलीप सिंह नरेश कुमार ५३ २४८० हिंसा चरणदास १३५ २४८० हिंसा सन जगन्नाथ जोडा सिंह ३७ १ ३ २४८० हिंसा गुरपियर सिंह २१ १ ३ २४८० हिंसा सरवन सिंह २१ १ ३ २४८० सन भाग सिंह सुबाष सिंह सन जगन्नाथ ९४ २४८० हिंसा महंगा सिंह सन हजुरा सिंह ७४ २४८० हिंसा सलोचना डेवी वाइफ नरेश कुमार सन जगन्नाथ १६० २४८० हिंसा कमलजीत सिंह सन गुरजंट सिंह ९६ २४८० हिंसा सतिया डेवी वाइफ हेम राज सन रामप्रताप ७४ २४८० हिंसा अमरजीत कौर वाइफ नरदेव संघ सन गजन सिंह ४० २४८० हिंसा गुरवंत सिंह सन बलवीर सिंह २३१ २४८० हिंसा सुखपाल कौर वाइफ जसविंदर सिंह सन दलीप सिंह १४० २४८० हिंसा राजिंदर कौर वाइफ सतनाम सिंह सन जर्नल सिंह १०० २४८० ()</p>
231	81//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	<p>गुरजिंदरपाल सिंह सन बख्शीश सिंह १ २ हिंसा चरणजीत सिंह सन कुलविंदर सिंह १ २ हिंसा ()</p>
232	81//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	<p>गुरजीद्रपाल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह 1/2 हिंसा चरणजीत सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 1/2 हिंसा ()</p>
233	81//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	<p>स्वर्ण सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ कला सिंह ७४३ २६४३ पार्ट बलवीर कौर विडो गिरदावर सिंह स/ओ अमर सिंह १ ६ पार्ट रंजीत सिंह स/ओ गुर्दवाल सिंह स/ओ अमर सिंह १ ६ पार्ट सोहन सिंह स/ओ अमर सिंह १ ६ पार्ट बलविंदर सिंह स/ओ करनैल सिंह स/ओ साधू सिंह १ १८ पार्ट हरजीत सिंह स/ओ करनैल सिंह स/ओ साधू सिंह १ १८ पार्ट आत्मा सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ जसवंत सिंह ४६ २६४३ पार्ट अमरीक सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ जसवंत सिंह ४६ २६४३ पार्ट रंजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ जसवंत सिंह ४६ २६४३ पार्ट मलकीत सिंह स/ओ हरजिंदर</p>

					सिंह १ ३६ पार्ट गुरमीत कौर विडो हरजिंदर सिंह १ ३६ पार्ट ()
234	81//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	बलविंदर सिंह गुरजेज सिंह पुत्र प्रेम सिंह वीए वीए 2/3 हिस्सा सत्या देवी सुखदेव सिंह 1/3 हिस्सा ()
235	81//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.3591	गुरजीद्रपाल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह 1/2 हिस्सा चरणजीत सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 1/2 हिस्सा ()
236	81//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	गुरजिंदरपाल सिंह सन बख्शीश सिंह १ २ हिस्सा चरणजीत सिंह सन कुलविंदर सिंह १ २ हिस्सा ()
237	81//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	गुरप्यार सिंह पुत्र चनण सिंह ()
238	81//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	सिंदरपाल कौर पुत्री मग्गर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह ()
239	81//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	सिंदरपाल कौर दोउठेर मग्गर सिंह सन अर्जुन सिंह ()
240	81//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	बलविंदर सिंह गुरतेज सिंह सन प्रेम सिंह व व २ ३ हिंसा सतिया वाइफ सुखदेव सिंह १ ३ हिंसा ()
241	81//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	बलविंदर सिंह गुरजेज सिंह पुत्र प्रेम सिंह वीए वीए 2/3 हिस्सा सत्या देवी सुखदेव सिंह 1/3 हिस्सा ()
242	81//26	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	गुरजिंदरपाल सिंह सन बख्शीश सिंह १ २ हिस्सा चरणजीत सिंह सन कुलविंदर सिंह १ २ हिस्सा ()
243	81//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	गुरजिंदरपाल सिंह सन बख्शीश सिंह १ २ हिस्सा चरणजीत सिंह सन कुलविंदर सिंह १ २ हिस्सा ()
244	81//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	गुरजिंदरपाल सिंह सन बख्शीश सिंह १ २ हिस्सा चरणजीत सिंह सन कुलविंदर सिंह १ २ हिस्सा ()
245	81//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	गुरजिंदरपाल सिंह सन बख्शीश सिंह

					१ २ हिस्सा चरणजीत सिंह सन कुलविंदर सिंह १ २ हिस्सा ()
246	81//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	गुरजीद्रपाल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह 1/2 हिस्सा चरणजीत सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 1/2 हिस्सा ()
247	81//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	गुरपेयर सिंह सन चानन सिंह ()
248	86//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0278	मनदीप सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह 167/1721 हिस्सा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 17/1721 हिस्सा सुखविंदर सिंह जगतार पुत्र अर्जुन सिंह वीए वीए 334/1721 हिस्सा गुरचरण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 127/1721 हिस्सा लखविंदर सिंह पुत्र निशान सिंह 60/1721 हिस्सा बीजे जगतार सिंह पुत्र जसवंत सिंह 60/1721 हिस्सा राम नाथ बीजे कुमार हरीश कुमार पुत्र राजपाल वण वण 320/1721 हिस्सा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह वीए वीए 202/1721 हिस्सा हरपाल सिंह रणजीत सिंह पुत्र मोहर सिंह वीए वीए 434/1721 हिस्सा ()
249	86//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.129	मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा ()
250	86//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.263	कुलविंदर सिंह सन महन्दर सिंह ५६४ १९७३ हिंसा जसवंत सिंह सन निशान सिंह ७५ १९७३ हिस्सा

					<p>नीलम सिंगला वाइफ संजीव कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ पिंकी सिंगला वाइफ प्रदीप कुमार सन गिरधारी लाल ७२ १ २ १९७३ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ३७६ १९७३ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ३०० १९७३ हिंसा संजीव कुमार १११ १९७३ हिंसा व प्रदीप कुमार १४९ १९७३ हिंसा सन गिरधारी लाल गुरदीप सिंह हरमीत सिंह सन जोगिन्दर सिंह वा वा १३ १९७३ हिंसा गिरधारी लाल सन मोती लाल १२० १९३ हिंसा हमीर कौर वाइफ काकू सिंह १२० १९७३</p> <p>()</p>
251	87//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	<p>मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा</p> <p>()</p>
252	87//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3566	<p>मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत</p>

					सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा ()
253	87//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3819	१६ १ ५ ८ मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा १६ २ २ ३ जगविंदर सिंह सन रग्बी सिंह ८२ १ २ ६४५ हिंसा जसवीर कौर विडो राजवीर सिंह ४०२ १ २ ६४५ हिंसा प्रेम चाँद सन हंसराज १६० ६४५ हिंसा ()
254	87//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	८७ १७ १ मदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा ()
255	87//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.3136	जगविंदर सिंह सन राजवीर सिंह ८२ १ २ ६४५ हिंसा जसवीर कौर विडो राजवीर सिंह ४०२ १ २ ६४५ हिंसा प्रेम चाँद सन हंसराज १६० ६४५ हिंसा

					0
256	87//26	निजी	सिंचित (चाही)	0.0632	मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा 0
257	87//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	सिंदरपाल कौर दोउठेर मग्गर सिंह सन अर्जुन सिंह 0
258	87//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3768	मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा 0
259	87//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.1922	गिरधारी लाल सन मोती राम १ ४ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ३ ८ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ३ ८ 0
260	87//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3085	मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जन

					सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा ()
261	87/7	निजी	सिंचित (चाही)	0.263	मनदीप सिंह सन जोगिन्दर सिंह १६७ १७२१ हिंसा हरभजन कौर विधवा जसविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह १७ १७२१ हिंसा सुखविंदर सिंह जगतार सिंह सन अर्जुन सिंह व व ३३४ १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह सन अर्जुन सिंह १२७ १७२१ हिंसा लखविंदर सिंह सन निशान सिंह ६० १७२१ हिंसा जगतार सिंह सन जसवंत सिंह ६० १७२१ हिंसा राम नाथ विजे कुमार हरीश कुमार सन राजपाल व व ३२० १७२१ हिंसा गुरचरण सिंह जगतार सिंह सुखविंदर सिंह सन अर्जुन सिंह व व २०२ १७२१ हिंसा हरपाल सिंह रणजीत सिंह सन मोहर सिंह व व ४३४ १७२१ हिंसा ()
गांव का नाम: दुताल					
262	14/1	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3794	बलवीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा, सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह वी. वी. 97/1239 हिस्सा। अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह सिंह .97 1?2 ?1239 हिस्सा ()
263	14/10/2	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.2175	ग्राम पंचायत ()
264	14/11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	सुखविंदर सिंह पुत्र टहिल सिंह पुत्र

					सोहन सिंह ()
265	14//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.4021	सुखविंदर सिंह पुत्र टहिल सिंह पुत्र सोहन सिंह ()
266	14//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	13/1 (0-19) जसविन्दर सिंह उर्फ जसवन्त सिंह पुत्र टहल सिंह 13/2 (1-17) सुखविंदर सिंह पुत्र टहल सिंह ()
267	14//17	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.002529	मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र सोहन सिंह 712/1032 हिस्सा, दविन्दर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह 320/1032 हिस्सा। ()
268	14//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3288	मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र सोहन सिंह 712/1032 हिस्सा, दविन्दर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह 320/1032 हिस्सा। ()
269	14//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2883	मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र सोहन सिंह 712/1032 हिस्सा, दविन्दर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह 320/1032 हिस्सा। ()
270	14//2	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.1922	ग्राम पंचायत ()
271	14//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	दविन्दर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह ()
272	14//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	दविन्दर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह ()
273	14//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र सोहन सिंह 712/1032 हिस्सा, दविन्दर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र करनैल सिंह 320/1032 हिस्सा। ()
274	14//8/2	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.0076	नगर पंचायत ()
275	14//9/1	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.0152	ग्राम पंचायत ()
276	14//9/2	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3262	ग्राम पंचायत ()

277	140	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन(रोड)	0.0961	नगर पंचायत ()
278	15//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	बलबीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा सुखविंदर सिंह पुत्र बालका सिंह पुत्र हाकम सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा , सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह बां. बां. 9//1239 हिस्सा।अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 97/1/2 /1239 हिस्सा ()
279	171	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन पही	0.0835	नगर पंचायत ()
280	173	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0329	ग्राम पंचायत ()
281	182	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन पही	0.0228	नगर पंचायत ()
282	188	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0531	नगर पंचायत ()
283	189	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन(खाल)	0.0531	नगर पंचायत ()
284	191	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन(खाल)	0.0379	ग्राम पंचायत ()
285	2//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	सिकन्दर सिंह पुत्र निर्मल सिंह पुत्र बूता सिंह 1/2 हिस्सा, मान सिंह पुत्र निर्मल सिंह पुत्र बूता सिंह 15/34 हिस्सा, मन्जीत कौर पत्नी मेहल सिंह पुत्र सन्ता सिंह 1/17 हिस्सा ()
286	2//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3338	बलबीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा सुखविंदर सिंह पुत्र बालका सिंह पुत्र हाकम सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा , सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह बी. बी. 97/1239 हिस्सा।अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 97/1/2 /1239 हिस्सा ()

287	2//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2832	बलबीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा सुखविंदर सिंह पुत्र बालका सिंह पुत्र हाकम सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा, सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह बी. बी. 97/1239 हिस्सा। अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 97/1/2 /1239 हिस्सा ()
288	2//25/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	बलबीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा सुखविंदर सिंह पुत्र बालका सिंह पुत्र हाकम सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा, सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह बी. बी. 97/1239 हिस्सा। अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 97/1/2 /1239 हिस्सा ()
289	26//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.2327	उत्तर सिंह उर्फ अवतार सिंह, चमकौर सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह, सतपाल सिंह पुत्र जंजीर सिंह 3/4 हिस्सा, अमृतपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह उर्फ साब सिंह 1/4 हिस्सा, ()
290	26//15	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3262	नगर पंचायत ()
291	26//16	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3338	नगर पंचायत ()
292	26//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	उत्तर सिंह उर्फ अवतार सिंह, चमकौर सिंह उर्फ अंग्रेज सिंह, सतपाल सिंह पुत्र जंजीर सिंह 3/4 हिस्सा, अमृतपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह उर्फ साब सिंह 1/4 हिस्सा, ()
293	26//25	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.129	नगर पंचायत ()
294	26//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.2782	जसविन्दर सिंह उर्फ जसवन्त सिंह सोनतेहल सिंह पुत्र मोहन सिंह ()

295	26//4/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1922	जसविन्दर सिंह उर्फ जसवन्त सिंह सोनतेहल सिंह पुत्र मोहन सिंह ()
296	26//4/2	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.1265	ग्राम पंचायत ()
297	26//5	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.0025	नगर पंचायत ()
298	26//6	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.1416	नगर पंचायत ()
299	26//7	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.3996	नगर पंचायत ()
300	26//8	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.0733	नगर पंचायत ()
301	27//11	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.0253	नगर पंचायत ()
302	27//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.263	सुखिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/2 हिस्सा, समशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/2 हिस्सा, ()
303	27//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सुखिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/2 हिस्सा, समशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 1/2 हिस्सा, ()
304	27//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.1087	(27/22/4) गुरपिन्दर सिंह-सुरिन्दर सिंह पुत्र शमशेर सिंह बी. बी. 2. (27/22/1) गुरभिन्दर सिंह - सुरिन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह 20/47 हिस्सा, सुखदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह 20/47 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र जंगीर सिंह 7/47 हिस्सा, 3. (27/22/2) अवतार सिंह पुत्र जंगीर सिंह ()
305	3//11	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.1568	ग्राम पंचायत ()
306	3//20/1	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.1315	ग्राम पंचायत ()
307	3//20/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1644	बलबीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा सुखविंदर सिंह पुत्र बालका सिंह पुत्र हाकम

					सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा , सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह बी. बी. 97/1239 हिस्सा।अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 97/1/2 /1239 हिस्सा ()
308	3//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.3996	बलबीर सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 437/1/2/1239 हिस्सा, सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह 412/1239 हिस्सा, जोगिन्दर सिंह पुत्र बालका सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा सुखविंदर सिंह पुत्र बालका सिंह पुत्र हाकम सिंह 97/1/2/1239 हिस्सा , सुरजीत सिंह हरमन प्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह बी. बी. 97/1239 हिस्सा।अमरजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह 97/1/2 /1239 हिस्सा ()
309	3//22/1	अन्य(नगर पंचायत)	सिंचित (चाही)	0.043	ग्राम पंचायत ()
310	36//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.306	गुरपिन्दर सिंह, सुरिन्दर सिंह पुत्र सूचा सिंह बी. बी. ()
311	36//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	मलूक सिंह पुत्र करमा सिंह 1284/1/3/3384 हिस्सा, परगट सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 हिस्सा, कुलवन्त कौर विधवा करम सिंह 408/2/3/3384 हिस्सा, सुरजीत कौर विधवा मान सिंह 435 /2/3/3384 हिस्सा, सतपाल सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 ()
312	36//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	मलूक सिंह पुत्र करमा सिंह 1284/1/3/3384 हिस्सा, परगट सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 हिस्सा, कुलवन्त कौर विधवा करम सिंह 408/2/3/3384 हिस्सा, सुरजीत कौर विधवा मान सिंह 435 /2/3/3384 हिस्सा, सतपाल सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 ()
313	36//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.3212	मलूक सिंह पुत्र करमा सिंह 1284/1/3/3384 हिस्सा, परगट सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 हिस्सा, कुलवन्त कौर विधवा करम सिंह 408/2/3/3384 हिस्सा, ()

					सुरजीत कौर विधवा मान सिंह 435 /2/3/3384 हिस्सा, सतपाल सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 ()
314	36//14/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	मलूक सिंह पुत्र करमा सिंह 1284/1/3/3384 हिस्सा, परगट सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 हिस्सा, कुलवन्त कौर विधवा करम सिंह 408/2/3/3384 हिस्सा, सुरजीत कौर विधवा मान सिंह 435 /2/3/3384 हिस्सा, सतपाल सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 ()
315	36//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	गुरचरन सिंह पुत्र सौन सिंह पुत्र शेर सिंह ()
316	36//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	गुरचरन सिंह पुत्र सौन सिंह पुत्र शेर सिंह ()
317	36//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.2858	गुरचरन सिंह पुत्र सौन सिंह पुत्र शेर सिंह ()
318	36//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3541	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
319	36//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	गुरतेज सिंह - गुरभेज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र बहाल सिंह ()
320	36//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3414	गुरपिन्दर सिंह, सुरिन्दर सिंह पुत्र सूचा सिंह बी. बी. ()
321	36//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
322	36//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	गुरचरन सिंह पुत्र सौन सिंह पुत्र शेर सिंह ()
323	36//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	गुरचरन सिंह पुत्र सौन सिंह पुत्र शेर सिंह ()
324	36//3/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	गुरपिंदर सिंह सुरिंदर सिंह पुत्र सुच्चा सिंह बी.बी। ()

325	36//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1922	मलूक सिंह पुत्र करमा सिंह 1284/1/3/3384 हिस्सा, परगट सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 हिस्सा, कुलवन्त कौर विधवा करम सिंह 408/2/3/3384 हिस्सा, सुरजीत कौर विधवा मान सिंह 435 /2/3/3384 हिस्सा, सतपाल सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 ()
326	36//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3945	मलूक सिंह पुत्र करमा सिंह 1284/1/3/3384 हिस्सा, परगट सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 हिस्सा, कुलवन्त कौर विधवा करम सिंह 408/2/3/3384 हिस्सा, सुरजीत कौर विधवा मान सिंह 435 /2/3/3384 हिस्सा, सतपाल सिंह पुत्र मान सिंह 627/2/3/3384 ()
327	37//5/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सुखदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह 298/388 हिस्सा, दविन्दर कौर पत्नी सुखदेव सिंह 90/388 हिस्सा ()
328	49//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	गुरतेज सिंह - गुरभेज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र बहाल सिंह ()
329	49//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	गुरतेज सिंह - गुरभेज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र बहाल सिंह ()
330	49//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.2782	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
331	49//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.3591	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
332	49//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3869	गुरतेज सिंह - गुरभेज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र बहाल सिंह ()
333	49//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	गुरतेज सिंह - गुरभेज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र बहाल सिंह ()
334	50//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()

335	50//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
336	50//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
337	50//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.0733	चरनजीत कौर पत्नी बलकार सिंह ()
338	50//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सतपाल सिंह पुत्र मलूक सिंह 1/2 हिस्सा, मनजिंदर सिंह जतिन्दर सिंह पुत्र सतपाल सिंह बी.बी. 1/2 हिस्सा ()
339	50//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2908	चरनजीत कौर पत्नी बलकार सिंह ()
340	50//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
341	50//21	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.0986	21/2 दलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 1/2 हिस्सा, विक्रमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह 1/2 हिस्सा। ()
342	50//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.4021	चरनजीत कौर पत्नी बलकार सिंह ()
343	50//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	मन्जीत कौर पत्नी मेहल सिंह पुत्र सन्ता सिंह ()
344	56//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	सुखपाल सिंह, निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह बी.बी ()
345	56//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	सुखपाल सिंह, निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह बी.बी ()
346	57//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	दतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 13/30 हिस्सा, पुष्पिन्दर सिंह दतार सिंह 1/5 हिस्सा, शमशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 8359/60270 हिस्सा, सुखजिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह 8359/60270 हिस्सा, गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह 3133/20090 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र हरभजन

					सिंह 1/15 हिस्सा, ()
347	57//14/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	दतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 13/30 हिस्सा, पुष्पिन्दर सिंह दतार सिंह 1/5 हिस्सा, शमशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 8359/60270 हिस्सा, सुखजिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह 8359/60270 हिस्सा, गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह 3133/20090 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 1/15 हिस्सा, ()
348	57//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	सुखपाल सिंह. निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह वी.वी ()
349	57//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	सुखपाल सिंह. निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह वी.वी ()
350	57//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3111	सुखपाल सिंह. निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह वी.वी ()
351	57//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.2934	कुलवंत कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र निर्मल सिंह ()
352	57//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	कुलवंत कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र निर्मल सिंह ()
353	57//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2529	चरनजीत कौर पत्नी बलकार सिंह ()
354	57//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.0759	हरभजन सिंह 192/1/2/1582 हिस्सा, परगट सिंह 281/1/2/1582 हिस्सा, पुत्र सन्तोख सिंह, कपूर सिंह पुत्र दरबारा सिंह पुत्र सन्त सिंह 10/1582 हिस्सा, गुरदेव सिंह पुत्र निर्मल सिंह 964/1582 हिस्सा, सुखविन्दर कौर पुत्री जरनैल सिंह 101 /1582 हिस्सा बलवीर कौर पुत्री संतोख सिंह 101 /1582 हिस्सा ()
355	57//25/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2883	सुखपाल सिंह. निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह वी.वी

					()
356	57//25/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0936	जसवीर कौर विधवा बी, हरप्रीत सिंह पुत्र बी मनदीप कौर पुत्री चरनजीत सिंह बी. बी. ()
357	57//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	मन्जीत कौर पत्नी मेहल सिंह पुत्र सन्ता सिंह ()
358	57//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	दतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 13/30 हिस्सा, पुष्पिन्दर सिंह दतार सिंह 1/5 हिस्सा, शमशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 8359/60270 हिस्सा, सुखजिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह 8359/60270 हिस्सा, गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह 3133/20090 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 1/15 हिस्सा, ()
359	57//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	दतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 13/30 हिस्सा, पुष्पिन्दर सिंह दतार सिंह 1/5 हिस्सा, शमशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 8359/60270 हिस्सा, सुखजिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह 8359/60270 हिस्सा, गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह 3133/20090 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 1/15 हिस्सा, ()
360	57//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3591	दतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 13/30 हिस्सा, पुष्पिन्दर सिंह दतार सिंह 1/5 हिस्सा, शमशेर सिंह पुत्र अवतार सिंह 8359/60270 हिस्सा, सुखजिन्दर कौर विधवा हीरा सिंह 8359/60270 हिस्सा, गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह 3133/20090 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 1/15 हिस्सा, ()
361	57//8/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	मन्जीत कौर पत्नी मेहल सिंह पुत्र सन्ता सिंह ()
362	57//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	मन्जीत कौर पत्नी मेहल सिंह पुत्र सन्ता सिंह ()
363	74//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.2276	5/1 (2-10) जसवीर कौर विधवा व हरप्रीत सिंह पुत्र व मनदीप कौर पुत्री

					चरनजीत सिंह बी. बी. 5/2 (2-0) सुखविंदर पुत्र महिंदर ()
364	74//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	गुरदेव सिंह पुत्र निर्मल सिंह ()
365	75//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह पुत्र वसावा सिंह ()
366	75//10/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0759	सुखविंदर सिंह सुखपाल सिंह निशान सिंह पुत्र महिंदर सिंह बी बी ()
367	75//10/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2883	जसराज सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र अमरीक सिंह ()
368	75//11	निजी	गै.मु. सी. एल. यू. के अनुसार	0.1366	जसराज सिंह पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र अमरीक सिंह ()
369	75//12	निजी	गै.मु. सी. एल. यू. के अनुसार	0.3844	ठाकुर सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र सुदागर सिंह ()
370	75//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	महिंदर सिंह पुत्र ऑफ धरा सिंह पुत्र ऑफ वसावा सिंह ()
371	75//17/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	महिंदर सिंह पुत्र ऑफ धरा सिंह पुत्र ऑफ वसावा सिंह ()
372	75//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3313	महिंदर सिंह पुत्र ऑफ धरा सिंह पुत्र ऑफ वसावा सिंह ()
373	75//19	निजी	गै.मु. सी. एल. यू. के अनुसार	0.2757	ठाकुर सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र सुदागर सिंह ()
374	75//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	महिंदर सिंह पुत्र ऑफ धरा सिंह पुत्र ऑफ वसावा सिंह ()
375	75//20	निजी	गै.मु. सी. एल. यू. के अनुसार	0.0025	सुखराज कौर पत्नी ठाकुर सिंह पुत्र अमरीक सिंह ()
376	75//22	निजी	गै.मु. सी. एल. यू. के अनुसार	0.0455	ठाकुर सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र सुदागर सिंह ()
377	75//23/1	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.3439	महिंदर सिंह पुत्र ऑफ धरा सिंह पुत्र ऑफ वसावा सिंह

					()
378	75//23/2	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0202	नगर पंचायत ()
379	75//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.2757	सुखपाल सिंह. निशान सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह पुत्र धारा सिंह बी.बी ()
गांव का नाम: गलोली (207)					
380	104//5	निजी	कृषि	0.2984	रंजीत सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा बलदेव सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा जसपाल सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा गुरमीत सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा ()
381	104//6	निजी	कृषि	0.0835	रंजीत सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा बलदेव सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा जसपाल सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा गुरमीत सिंह सन बाइसन सिंह सन नाथा सिंह १ ४ हिस्सा ()
382	105//1	निजी	कृषि	0.3288	गुरमेज सिंह सन केसर सिंह १ २ हिस्सा जगजीत सिंह केवल जीत सींग सन जर्नल सिंह बी बी १ २ हिस्सा ()
383	105//10	निजी	कृषि	0.4021	गुरमेज सिंह सन केसर सिंह १ २ हिस्सा जगजीत सिंह केवल जीत सींग सन जर्नल सिंह बी बी १ २ हिस्सा ()
384	105//11	निजी	कृषि	0.2681	गुरमेज सिंह सन केसर सिंह १ २ हिस्सा जगजीत सिंह केवल जीत सींग सन जर्नल सिंह बी बी १ २ हिस्सा ()
385	105//12	निजी	कृषि	0.3187	डिनेश कुमारी वाइफ जयपाल चड्डा ()
386	105//19	निजी	कृषि	0.1442	ज्ञान सिंह सन तक सिंह १ १८ हिस्सा रंजीत कौर वाइफ हरचरण सिंह सन इंद्रा सिंह १ ४८ हिस्सा बलजीत सिंह सन सुखविंदर सींग १

६० हिस्सा वीरइंदरा कौर डॉटर
 महेंद्र सिंह ११ ४३२ हिस्सा ृपेंद्र
 कौर विधवा अमेन्द्र सिंह १ १०८
 हिंसा जयजीत सिंह सन अमेन्द्र सिंह
 १ १०८ हिस्सा अमर प्रताप सिंह
 सन अमेन्द्र सिंह १ १०८ हिस्सा
 जगपाल सिंह सन जुगेंद्र सिंह १
 १०८ हिस्सा राजवीरेंद्र सिंह सन
 जुगेंद्र सींग १ १०८ हिस्सा शमशेर
 कौर वाइफ इन्दर सींग १ ४८ हिस्सा
 रणजीत कौर वाइफ सुखविंदर सींग
 १ १२० हिस्सा कमलजीत कौर विडो
 गुरप्रीत सिंह १ ३६ हिस्सा अमर
 सिंह सन वसंत सिंह १ ५४ हिस्सा
 जगजीत सिंह सन केहर सिंह १ ९०
 हिस्सा चरणजीत सिंह सन केहर सिंह
 १ ९० हिस्सा गुरुचरण सिंह सन
 गुरुवाछ सिंह १ ३६ हिस्सा
 जसपाल सिंह सन जुगेंद्र सिंह १
 १०८ हिस्सा काका सिंह उर्फ बलदेव
 सिंह १ ३६ हिस्सा गरदेव कौर
 वाइफ शमशेर सिंह १ ९६ हिस्सा
 बलजिंदर कौर डॉटर शमशेर सिंह १
 १९२ हिस्सा पिरतपाल कौर वाइफ
 सुरजीत सिंह १ ९६ हिस्सा सुखवीर
 कौर डी ओ सुरजीत सिंह १ १९२
 हिस्सा हरवीर कौर डी ओ सुरजीत
 सिंह १ १९२ हिस्सा सुरेंद्र कौर डी
 ओ राजेंद्र सिंह १ ७२ हिस्सा
 बलविंदर कौर डी ओ राजेंद्र सिंह १
 ७२ हिस्सा सुखविंदर कौर डी ओ
 गुरुचरण सिंह १ ६० हिस्सा रणजीत
 सिंह सन केहर सिंह १ ९० हिस्सा
 बलजीत कौर डी ओ सुखवुंडेर सिंह १
 १२० हिस्सा बलवीर सिंह सन
 दसोदा सिंह १ ३६ हिस्सा भगवान
 सिंह सन डंसोडा सिंह १ १९२
 हिस्सा शीप कौर डी ओ दानसोदा
 सिंह १ ५७६ बिस्सा ामा जीत कौर
 डी ओ भगवान सिंह १ १२८ हिस्सा
 देवेंद्र कौर डी ओ भगवान सिंह १
 १२८ हिस्सा हरवंस कौर वाइफ
 प्रदुमन सिंह १ ६४ हिस्सा प्रेम कौर
 डी ओ गुरुचरण सिंह १ ३६ हिस्सा
 सुखविंदर कौर डी ओ गुरुचरण सिंह
 १ ३६ हिस्सा हरेंद्र कौर डी ओ
 गुरुचरण सिंह १ ३६ हिस्सा अजीत
 इन्दर सिंह सन हरदेव कौर १ ३६
 हिस्सा सुखपाल इन्दर कौर डी ओ
 जुगेंद्र सिंह १ ३६ हिस्सा जगदीश
 कौर डी ओ जुगेंद्र सिंह १ ३६ हिस्सा

					हाजेन्द्र कौर दौघ्तर जोगिन्दर सिंह १ ३६ हिस्सा चरणजीत सिंह सन इकबाल सिंह १ ५४ हिस्सा जोगिन्दर कौर विडो महिंदर सिंह १ १४४ हिस्सा चरणजीत कौर डी ओ इकबाल सिंह १ १२१६ हिस्सा शमशेर कौर वाइफ करनल उद्दे सिंह ८ ६७५ हिस्सा बजिंदरवीर सिंह उर्फ बजिंदरबाल सिंह ११ ६७५ हिस्सा सन कनाल उद्दे सिंह भगवान कौर वाइफ बलवंत सिंह १ ३६ हिस्सा बलवीर कौर डी ओ बलवंत सिंह १ ३६ हिस्सा हाकम कौर वाइफ जशमीर सिंह १ ३६ हिस्सा बलदेव कौर वाइफ सरदूल सिंह १ ३६ हिस्सा रासनिल सिंह सन कुलदीप सिंह १ १८ हिस्सा चरणजीत कौर वाइफ गुरचरण सिंह १ ३६ हिस्सा गुरबचन सिंह सन करतार सिंह १ ३६ हिस्सा ()
387	105//2	निजी	कृषि	0.0025	गुरमेज सिंह सन केसर सिंह १ २ हिस्सा जगजीत सिंह केवल जीत सींग सन जर्नल सिंह बी बी १ २ हिस्सा ()
388	105//20	निजी	कृषि	0.0556	ज्ञान सिंह सन तक सिंह १ १८ हिस्सा रंजीत कौर वाइफ हरचरण सिंह सन इंद्रा सिंह १ ४८ हिस्सा बलजीत सिंह सन सुखविंदर सींग १ ६० हिस्सा वीरइंदरा कौर डॉटर महेन्द्र सिंह ११ ४३२ हिस्सा ृपेंद्र कौर विधवा अमेन्द्र सिंह १ १०८ हिंसा जयजीत सिंह सन अमेन्द्र सिंह १ १०८ हिस्सा अमर प्रताप सिंह सन अमेन्द्र सिंह १ १०८ हिस्सा जगपाल सिंह सन जुगेंद्र सिंह १ १०८ हिस्सा राजवीरेंद्र सिंह सन जुगेंद्र सींग १ १०८ हिस्सा शमशेर कौर वाइफ इन्दर सींग १ ४८ हिस्सा रणजीत कौर वाइफ सुखविंदर सींग १ १२० हिस्सा कमलजीत कौर विडो गुरप्रीत सिंह १ ३६ हिस्सा अमर सिंह सन वसंत सिंह १ ५४ हिस्सा जगजीत सिंह सन केहर सिंह १ ९० हिस्सा चरणजीत सिंह सन केहर सिंह १ ९० हिस्सा गुरुचरण सिंह सन गुरुवाछ सिंह १ ३६ हिस्सा जसपाल सिंह सन जुगेंद्र सिंह १

१०८ हिस्सा काका सिंह उर्फ बलदेव सिंह १ ३६ हिस्सा गरदेव कौर वाइफ शमशेर सिंह १ ९६ हिस्सा बलजिंदर कौर डॉटर शमशेर सिंह १ १९२ हिस्सा पिरतपाल कौर वाइफ सुरजीत सिंह १ ९६ हिस्सा सुखवीर कौर डी ओ सुरजीत सिंह १ १९२ हिस्सा हरवीर कौर डी ओ सुरजीत सिंह १ १९२ हिस्सा सुरेन्द्र कौर डी ओ राजेंद्र सिंह १ ७२ हिस्सा बलविंदर कौर डी ओ राजेंद्र सिंह १ ७२ हिस्सा सुखविंदर कौर डी ओ गुरुचरण सिंह १ ६० हिस्सा रणजीत सिंह सन केहर सिंह १ ९० हिस्सा बलजीत कौर डी ओ सुखवुंडेर सिंह १ १२० हिस्सा बलवीर सिंघ सन दसोदा सिंह १ ३६ हिस्सा भगवन सिंह सन डंसोडा सिंह १ १९२ हिस्सा शीप कौर डी ओ दानसोदा सिंह १ ५७६ हिस्सा ामा जीत कौर डी ओ भगवान सिंह १ १२८ हिस्सा देवेन्द्र कौर डी ओ भगवान सिंह १ १२८ हिस्सा हरवंस कौर वाइफ प्रदुमन सिंह १ ६४ हिस्सा प्रेम कौर डी ओ गुरुचरण सिंह १ ३६ हिस्सा सुखविंदर कौर डी ओ गुरुचरण सिंह १ ३६ हिस्सा हरेंद्र कौर डी ओ गुरुचरण सिंह १ ३६ हिस्सा अजीत इन्दर सिंह सन हरदेव कौर १ ३६ हिस्सा सुखपाल इन्दर कौर डी ओ जुगेंद्र सिंह १ ३६ हिस्सा जगदीश कौर डी ओ जुगेंद्र सिंह १ ३६ हिस्सा हाजेन्द्र कौर दौघतर जोगिन्दर सिंह १ ३६ हिस्सा चरणजीत सिंह सन इक्रवाल सिंह १ ५४ हिस्सा जोगिन्दर कौर विडो महिंदर सिंह १ १४४ हिस्सा चरणजीत कौर डी ओ इक्रवाल सिंह १ १२१६ हिस्सा शमसेर कौर वाइफ करनल उद्दे सिंह ८ ६७५ हिस्सा बजिंदरवीर सिंह उर्फ बजिंदरवाल सिंह १ १ ६७५ हिस्सा सन कनाल उद्दे सिंह भगवान कौर वाइफ बलवंत सिंह १ ३६ हिस्सा बलवीर कौर डी ओ बलवंत सिंह १ ३६ हिस्सा हाकम कौर वाइफ जशमीर सिंह १ ३६ हिस्सा बलदेव कौर वाइफ सरदूल सिंह १ ३६ हिस्सा रासनिल सिंह सन कुलदीप सिंह १ १८ हिस्सा चरणजीत कौर वाइफ गुरुचरण सिंह १ ३६ हिस्सा गुरुबचन सिंह सन करतार सिंह १

					३६ हिस्सा ()
389	105//9/1	निजी	कृषि	0.0784	डिनेश कुमारी वाइफ जयपाल चड्डा ()
390	105//9/2	निजी	कृषि	0.0683	डिनेश कुमारी वाइफ जयपाल चड्डा ()
391	157	अन्य(शामलात)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0733	शामलात पट्टी ()
392	185	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन(खाल)	0.0379	मुशतर्का मल्लकान ()
393	190	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन(खाल)	0.0228	मुशतर्का मल्लकान ()
394	196	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन(खाल)	0.0354	मुशतर्का मल्लकान ()
395	197	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन(खाल)	0.0354	मुशतर्का मल्लकान ()
396	20//11	निजी	कृषि	0.1998	बगीचा सिंह स/ओ दरवारा सिंह ६१ ९२२ हिस्सा बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह १ २ हिस्सा रसपाल सिंह सन बगीचा सिंह १०० ४६१ हिस्सा हरपाल सिंह सन बगीचा सिंह १०० ४६१ हिस्सा ()
397	20//12	निजी	कृषि	0.0025	बगीचा सिंह स/ओ दरवारा सिंह ६१ ९२२ हिस्सा बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह १ २ हिस्सा रसपाल सिंह सन बगीचा सिंह १०० ४६१ हिस्सा हरपाल सिंह सन बगीचा सिंह १०० ४६१ हिस्सा ()
398	20//18	निजी	कृषि	0.0025	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी बी हिस्सा ()
399	20//19	निजी	कृषि	0.2478	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी बी हिस्सा ()
400	20//20	निजी	कृषि	0.4046	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी बी हिस्सा ()
401	20//21	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.22	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी

					बी हिस्सा ()
402	20//22	निजी	कृषि	0.4046	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी बी हिस्सा ()
403	20//23	निजी	कृषि	0.1922	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरवारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी बी हिस्सा ()
404	21//12	निजी	कृषि	0.0101	महिंदर कौर विधवा बज सिंह १ ३ हिस्सा सूबा सिंह सन बज सिंह सिंह २६५ २७५७ हिस्सा हरनाम सिंह सन सूबा सिंह २१८ ९१९ हिस्सा बज सिंह २६५ २७५७ हिस्सा जगविंदर सिंह सन सूबा सिंह १ ३ हिस्सा ()
405	21//14	निजी	कृषि	0.4856	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
406	21//15/1	निजी	कृषि	0.3035	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
407	21//15/2	निजी	कृषि	0.0905	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
408	21//16/1	निजी	कृषि	0.1871	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
409	21//16/2	निजी	कृषि	0.1087	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
410	21//17/1	निजी	कृषि	0.091	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
411	21//18/1	निजी	कृषि	0.0025	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह ()
412	21//25/1	निजी	कृषि	0.0051	बख्शीश सिंह सन ऑफ दरवारा सिंह सन ऑफ लछमन सिंह १ २ पार्ट सरनजीत कौर वाइफ बगीचा सिंह सन दरवारा सिंह १ २ पार्ट ()

413	21//6	निजी	कृषि	0.1062	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह (0)
414	21//7	निजी	कृषि	0.1821	जतिंदर कौर वाइफ सतविंदर सिंह सन जसवीर सिंह (0)
415	21//8	निजी	कृषि	0.1113	महिंदर कौर विधवा वज सिंह १ ३ हिस्सा सूबा सिंह सन वज सिंह सिंह २६५ २७५७ हिस्सा हरनाम सिंह सन सूबा सिंह २१८ ९१९ हिस्सा वज सिंह २६५ २७५७ हिस्सा जगविंदर सिंह सन सूबा सिंह १ ३ हिस्सा (0)
416	21//9	निजी	कृषि	0.043	महिंदर कौर विधवा वज सिंह १ ३ हिस्सा सूबा सिंह सन वज सिंह सिंह २६५ २७५७ हिस्सा हरनाम सिंह सन सूबा सिंह २१८ ९१९ हिस्सा वज सिंह २६५ २७५७ हिस्सा जगविंदर सिंह सन सूबा सिंह १ ३ हिस्सा (0)
417	290	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन(रास्ता)	0.0733	नगर पंचायत (0)
418	31//13/2	निजी	कृषि	0.0531	परबजोत कौर वाइफ निशान सिंह ६१ १८२ हिस्सा बगीचा सिंह सन दरबारा सूघ ५ १८२ हिस्सा महेंद्र सिंह सन विशन सिंह १५ ९१ हिस्सा बख्शीश सिंह सन दरबररा सिंह ५ १८२ हिस्सा जसवीर कौर वाइफ टहल सिंह ६१ १८२ हिस्सा निर्मल जीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह ५ ९१ हिस्सा पलराम सन मोहन लाल ५ ९१ हिस्सा (0)
419	31//14/1	निजी	कृषि	0.3111	परबजोत कौर वाइफ निशान सिंह ६१ १८२ हिस्सा बगीचा सिंह सन दरबारा सूघ ५ १८२ हिस्सा महेंद्र सिंह सन विशन सिंह १५ ९१ हिस्सा बख्शीश सिंह सन दरबररा सिंह ५ १८२ हिस्सा जसवीर कौर वाइफ टहल सिंह ६१ १८२ हिस्सा निर्मल जीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह ५ ९१ हिस्सा पलराम सन मोहन लाल ५ ९१ हिस्सा (0)
420	31//14/2	निजी	कृषि	0.0708	निर्मलजीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह

					सन वजीरर सिंह ()
421	31//15/1	निजी	कृषि	0.0126	निर्मलजीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह सन वजीरर सिंह ()
422	31//15/2	निजी	कृषि	0.2428	बगीचा सिंह सन ऑफ दरबारा सिंह सन ऑफ लछमन सिंह ५ १८२ पार्ट बखसीस सिंह सन ऑफ दरबारा सिंह सन ऑफ लछमन सिंह ५ १८२ पार्ट निर्मलजीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह सन ऑफ वजीर सिंह ५ ९१ पार्ट पलराम सन मोहन लाल सन संकर राम ५ ९१ पार्ट जसवीर कौर पत्नी मैन सिंह ६१ १८२ पार्ट प्रभजोत कौर वाइफ निसान सिंह ६१ १८२ पार्ट ()
423	31//16	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.4046	लखविंदर सिंह सन ऑफ इन्दर सिंह १ ८ पार्ट सूबा सिंह दर्शन सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह ६४ १ २ ५१६ सुरेंदर पल सिंह रविंदर पल सिंह सन भरपूर सिंह ८९ १०३२ हिस्सा पार्ट विरसा सिंह सन ऑफ वजीर सिंह १ ४ हिस्सा अमृतवीर कौर डॉटर विरसा सिंह ६५ ५१६ पार्ट हरमनवीर सिंह सन ऑफ विरसा सिंह २ ४३ पार्ट महिंदर कौर विडो व जसपाल सिंह हरपाल सिंह सन मरदीप कौर डॉटर जगजीत सिंह बी बी १२ १३७६ हिस्सा हरेंद्र कौर वाइफ विरसा सिंह १० ४३ हिस्सा ()
424	31//2	निजी	कृषि	0.2175	बगीचा सिंह बक्षीस सिंह स/ओ दरबारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी बी हिस्सा ()
425	31//25/1	अन्य(ग्राम पंचायत)	कृषि	0.043	समलत पट्टी राजपूता हसबरास्त ()
426	31//25/2	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.0835	लखविंदर सिंह सन ऑफ इन्दर सिंह १ ८ पार्ट सूबा सिंह दर्शन सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह ६४ १ २ ५१६ सुरेंदर पल सिंह रविंदर पल सिंह सन भरपूर सिंह ८९ १०३२ हिस्सा पार्ट विरसा सिंह सन ऑफ वजीर सिंह १ ४ हिस्सा अमृतवीर कौर डॉटर विरसा सिंह ६५ ५१६ पार्ट हरमनवीर सिंह सन ऑफ विरसा

					सिंह २ ४३ पार्ट महिंदर कौर विडो व जसपाल सिंह हरपाल सिंह सन मरदीप कौर डॉटर जगजीत सिंह बी वी १२ १३७६ हिस्सा हरेंद्र कौर वाइफ विरसा सिंह १० ४३ हिस्सा ()
427	31//3	निजी	कृषि	0.3996	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरबारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी वी हिस्सा ()
428	31//4	निजी	कृषि	0.1012	बगीचा सिंह बक्शीस सिंह स/ओ दरबारा सिंह स/ओ लछमन सिंह बी वी हिस्सा ()
429	31//6	निजी	कृषि	0.0228	बगीचा सिंह सन ऑफ दरबारा सिंह सन ऑफ लछमन सिंह ५ १८२ पार्ट बखसीस सिंह सन ऑफ दरबारा सिंह सन ऑफ लछमन सिंह ५ १८२ पार्ट निर्मलजीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह सन ऑफ वजीर सिंह ५ ९१ पार्ट पलराम सन मोहन लाल सन संकर राम ५ ९१ पार्ट जसवीर कौर पत्नी मैन सिंह ६१ १८२ पार्ट प्रभजोत कौर वाइफ निसान सिंह ६१ १८२ पार्ट ()
430	31//7	निजी	कृषि	0.3566	गुरमीत सिंह सन वजीर सिंह १६४ ६४० हिस्सा विरसा सिंह सन वजीर सिंह १४१ ६४० हिस्सा बगीचा सिंह सन दरबारा सिंह १६० ६४० हिस्सा बक्शीश सिंह सन दरबारा सिंह १६० ६४० हिस्सा निर्मल जीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह १५ ६४० हिस्सा ()
431	31//8	निजी	कृषि	0.3085	गुरमीत सिंह सन वजीर सिंह १६४ ६४० हिस्सा विरसा सिंह सन वजीर सिंह १४१ ६४० हिस्सा बगीचा सिंह सन दरबारा सिंह १६० ६४० हिस्सा बक्शीश सिंह सन दरबारा सिंह १६० ६४० हिस्सा निर्मल जीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह १५ ६४० हिस्सा ()
432	31//9/1	निजी	कृषि	0.0051	गुरमीत सिंह सन वजीर सिंह १६४ ६४० हिस्सा विरसा सिंह सन वजीर सिंह १४१ ६४० हिस्सा बगीचा सिंह

					सन दरबारा सिंह १६० ६४० हिस्सा बक्शीश सिंह सन दरबारा सिंह १६० ६४० हिस्सा निर्मल जीत कौर वाइफ गुरमीत सिंह १५ ६४० हिस्सा ()
433	32//20	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.1037	जोगा सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह ८७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा जसवंत सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह १६७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा हिसेदारन सूबा सिंह सन सूबोग सिंह १६९५ १ ४ ६४६१ हिस्सा दरसन सिंह सन सुबेग सिंह ८४९ १ ४ ६४६१ हिस्सा अमरतपाल सिंह गुरपाल सिंह सन जोगा सिंह बी बी ८०० ६४६१ हिस्सा हरप्रीत सिंह संदीप सिंह मुनेश सन दरसन सिंह बी बी ५७२ ६४६१ हिस्सा ()
434	32//21	निजी	कृषि	0.3237	जोगा सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह ८७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा जसवंत सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह १६७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा हिसेदारन सूबा सिंह सन सूबोग सिंह १६९५ १ ४ ६४६१ हिस्सा दरसन सिंह सन सुबेग सिंह ८४९ १ ४ ६४६१ हिस्सा अमरतपाल सिंह गुरपाल सिंह सन जोगा सिंह बी बी ८०० ६४६१ हिस्सा हरप्रीत सिंह संदीप सिंह मुनेश सन दरसन सिंह बी बी ५७२ ६४६१ हिस्सा ()
435	32//22	निजी	कृषि	0.0303	जोगा सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह ८७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा जसवंत सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह १६७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा हिसेदारन सूबा सिंह सन सूबोग सिंह १६९५ १ ४ ६४६१ हिस्सा दरसन सिंह सन सुबेग सिंह ८४९ १ ४ ६४६१ हिस्सा अमरतपाल सिंह गुरपाल सिंह सन जोगा सिंह बी बी ८०० ६४६१ हिस्सा हरप्रीत सिंह संदीप सिंह मुनेश सन दरसन सिंह बी बी ५७२ ६४६१ हिस्सा ()

436	44//1	निजी	कृषि	0.3515	जोगा सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह ८७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा जसवंत सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह १६७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा हिसेदारन सूबा सिंह सन सूबोग सिंह १६९५ १ ४ ६४६१ हिस्सा दरसन सिंह सन सुवेग सिंह ८४९ १ ४ ६४६१ हिस्सा अमरतपाल सिंह गुरपाल सिंह सन जोगा सिंह बी बी ८०० ६४६१ हिस्सा हरप्रीत सिंह संदीप सिंह मुनेश सन दरसन सिंह बी बी ५७२ ६४६१ हिस्सा ()
437	44//10	निजी	कृषि	0.0455	करतार सिंह सन अमर सिंह ()
438	44//12	निजी	कृषि	0.2428	वारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १ ४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिस्स सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिस्स जोगा सिंह सन सुन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
439	44//13	निजी	कृषि	0.3869	वारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १ ४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिस्स सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिस्स जोगा सिंह सन सुन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
440	44//14	निजी	कृषि	0.0556	वारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १ ४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिस्स सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिस्स जोगा सिंह सन सुन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
441	44//16	निजी	कृषि	0.0025	वारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १ ४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिस्स सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन

					नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिंसस जोगा सिंह सन सुन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
442	44//17	निजी	कृषि	0.3035	करतार सिंह सन अमर सिंह ()
443	44//18	निजी	कृषि	0.349	करतार सिंह सन अमर सिंह ()
444	44//19	निजी	कृषि	0.0177	करतार सिंह सन अमर सिंह ()
445	44//2	निजी	कृषि	0.2377	जोगा सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह ८७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा जसवंत सिंह सन गजन सिंह सन सोहल सिंह १६७२ १ ४ ६४६१ हिस्सा हिसेदारन सूवा सिंह सन सूबोग सिंह १६९५ १ ४ ६४६१ हिस्सा दरसन सिंह सन सुबेग सिंह ८४९ १ ४ ६४६१ हिस्सा अमरतपाल सिंह गुरपाल सिंह सन जोगा सिंह बी बी ८०० ६४६१ हिस्सा हरप्रीत सिंह संदीप सिंह मुनेश सन दरसन सिंह बी बी ५७२ ६४६१ हिस्सा ()
446	44//23	निजी	कृषि	0.1037	करतार सिंह सन अमर सिंह ()
447	44//24	निजी	कृषि	0.3591	करतार सिंह सन अमर सिंह ()
448	44//25/1	निजी	कृषि	0.1087	वारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १ ४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिंसस सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिंसस जोगा सिंह सन सुन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
449	44//25/2	निजी	कृषि	0.0253	वारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १ ४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिंसस सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिंसस जोगा सिंह सन सुन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()

450	44//8	निजी	कृषि	0.1568	बारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिस्स सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिस्स जोगा सिंह सन सृन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
451	44//9	निजी	कृषि	0.3136	बारपरकाश सिंह सन गुरनाम सिंह सन अमर सिंह १५ १४९ सीसा करतार सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ५७३ २३८४ हिस्स सतनाम सिंह सन अमर सिंह सन नरायन सिंह ९५५ २३८४ हिस्स जोगा सिंह सन सृन्दर सिंह ७७ २९८ हिस्सा ()
452	45//5	अन्य(ग्राम पंचायत)	कृषि	0.0303	वर्षा सिंह हिसार ट्रान्सफर्ड कुणीदा कवर इंद्रपाल सिंह शामलात पट्टी हसाब रास्त ()
453	57//15	निजी	कृषि	0.1821	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा ()
454	57//16	निजी	कृषि	0.0101	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा ()
455	57//4	निजी	कृषि	0.2251	कुलवंत सिंह सन किरपाल सिंह १४० ४५९ हिस्सा बलवंत सिंह स/ओ किरपाल सिंह १२९०२६३ २३२२९९९ हिस्सा अर्शदीप सिंह स/ओ सुरिंदर सिंह ४७१ ३३७४ हिस्सा ()

456	57//5	निजी	कृषि	0.3616	कुलवंत सिंह सन किरपाल सिंह १४० ४५९ हिस्सा बलवंत सिंह स/ओ किरपाल सिंह १२९०२६३ २३२२९९९ हिस्सा अर्शदीप सिंह स/ओ सूरिंदर सिंह ४७१ ३३७४ हिस्सा ()
457	57//6	निजी	कृषि	0.3768	हीरा सिंह सन गुरुचरण सिंह सन खेम सिंह ()
458	57//7	निजी	कृषि	0.0303	हीरा सिंह सन गुरुचरण सिंह सन खेम सिंह ()
459	58//1	निजी	कृषि	0.0329	कुलवंत सिंह सन किरपाल सिंह ()
460	58//10	निजी	कृषि	0.2327	परमजीत सिंह सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह ()
461	58//11	निजी	कृषि	0.3971	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा ()
462	58//12	निजी	कृषि	0.0582	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा ()
463	58//19	निजी	कृषि	0.2681	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा ()
464	58//20	निजी	कृषि	0.3515	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह

					१ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
465	58//21	निजी	कृषि	0.1467	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
466	58//22	निजी	कृषि	0.4021	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
467	58//23	निजी	कृषि	0.086	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
468	65//21	निजी	कृषि	0.0101	नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह सन मॉल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह पुत्र गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा छोटी डेवी विडो लाल सिंह १ ६ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ नछतर सिंह १ १२ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १ १२ बी बी हिस्सा हिम्मत सिंह कीरत सिंह सन सतीश कुमार १ ९ हिस्सा (0)
469	66//1	निजी	कृषि	0.0025	दर्शन सिंह सन गुरप्याल सिंह १ ९

					हिस्सा हिम्मत सिंह सन सतीश कुमार १ ९ हिस्सा हरप्रीत सिंह सन नारंग सिंह १ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह सन जर्नल सिंह १ ६ हिस्सा कुलदीप सिंह सन नछतर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह १ ३ हिस्सा ()
470	66//12	निजी	कृषि	0.0025	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा ()
471	66//13	निजी	कृषि	0.301	सतगुरु सिंह बागगढ़ सन लाल सिंह १ ३ हिस्सा दर्शन सिंघस्य गुरपाल सिंह १ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंघस्य ो जरनैल सिंह १ ६ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ नछतर सिंह १ ६ हिस्सा हिम्मत सिंह स/ओ सतीश कुमार १ ९ हिस्सा हरप्रीत सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १ ९ हिस्सा ()
472	66//14	निजी	कृषि	0.3288	राजिद्र कौर वाइफ सतगुरु सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १ १२ हिस्सा हिम्मत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा ()
473	66//15	निजी	कृषि	0.0025	राजिद्र कौर वाइफ सतगुरु सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १ १२ हिस्सा हिम्मत

					सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
474	66//16	निजी	कृषि	0.1467	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
475	66//17	निजी	कृषि	0.4021	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
476	66//18	निजी	कृषि	0.086	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
477	66//2	निजी	कृषि	0.3288	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतवीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ

					परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
478	66//24	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.2681	नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ बी बी हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ३ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
479	66//3	निजी	कृषि	0.301	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
480	66//4	निजी	कृषि	0.0025	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
481	66//7	निजी	कृषि	0.1163	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
482	66//8	निजी	कृषि	0.4046	दर्शन सिंह सन गुरप्याल सिंह १ ९ हिस्सा हिम्मंत सिंह सन सतीश कुमार १ ९ हिस्सा हरप्रीत सिंह सन नारंग सिंह १ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह सन जर्नल सिंह १ ६ हिस्सा कुलदीप

					सिंह सन नछतर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह १ ३ हिस्सा (0)
483	66//9	निजी	कृषि	0.1163	नवजोत सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा हीरा सिंह सन गुरबचन सिंह १ ३ हिस्सा सतबीर सिंह सन गुरबचन सिंह सन खेम सिंह १ ३ हिस्सा जगपाल सिंह स/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा जसविंदर कौर व/ओ परमजीत सिंह १ ९ हिस्सा (0)
484	81//15	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.0379	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुरु सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कोमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
485	81//26	निजी	कृषि	0.086	नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह सन मॉल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह पुत्र गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा छोटी डेवी विडो लाल सिंह १ ६ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ नछतर सिंह १ १२ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १ १२ बी बी हिस्सा हिम्मंत सिंह कीरत सिंह सन सतीश कुमार १ ९ हिस्सा (0)
486	81//4	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.0101	नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुरु सिंह सन लाल सिंह सन मॉल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह पुत्र गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा छोटी डेवी विडो लाल सिंह १ ६ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ नछतर सिंह १ १२ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १ १२ बी बी हिस्सा हिम्मंत सिंह कीरत सिंह सन

					सतीश कुमार १ ९ हिस्सा (0)
487	81//5	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.3288	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
488	81//6	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.2377	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
489	82//1	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.172	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १२ १२४९ हिस्सा (0)
490	82//10	निजी	कृषि	0.3718	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९

					<p>१२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()</p>
491	82//11	निजी	कृषि	0.3844	<p>राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()</p>
492	82//12	निजी	कृषि	0.2074	<p>राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा</p>

					गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()
493	82//18	निजी	कृषि	0.0405	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()
494	82//19	निजी	कृषि	0.3869	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()
495	82//20	निजी	कृषि	0.2074	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७

					<p>२४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()</p>
496	82//21	निजी	कृषि	0.0228	<p>राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह २०७ २४९८ हिस्सा जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह २२८ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा छोटी डेवी विद्वा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह १२७ १ २ १२४९ हिस्सा ()</p>
497	82//22	निजी	कृषि	0.3718	<p>राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह वी वी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह वी वी १ ९ हिस्सा ()</p>
498	82//23	निजी	कृषि	0.2428	<p>राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन</p>

					जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा ()
499	82//9	निजी	कृषि	0.0228	राजिद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह ६९ १२४९ हिस्सा नोरंग सिंह सन गुरपाल सिंह सन मॉल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह ४१४ २४९८ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह ५५१ २४९८ हिस्सा दर्शन सिंह सन गुरपाल सिंह ५४९ ४९९६ हिस्सा ाजित सिंह स/ओ हरी सिंह स/ओ गंगा सिंह १० १२४९ हिस्सा छोटी डेवी विद्रा लाल सिंह ६९ १२४९ हिस्सा वाइंडर कौर व/ओ गुरपाल सिंह ४६ १२४९ हिस्सा मनप्रीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ हिस्सा गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह १०३ २४९८ कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंह १०३ १२४९ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतीश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह ९२ १२४९ हिस्सा ()
500	86//20	निजी	कृषि	0.0025	जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी हिस्सा ()
501	86//21	निजी	कृषि	0.1163	जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी हिस्सा ()
502	87//13	निजी	कृषि	0.1113	सतनाम सिंह स/ओ व प्रीतम कौर विद्रा सोहन सिंह बी बी १ ६ हिस्सा रणजीत सिंह बलदेव सिंह जसपाल सिंह गुरमीत सिंह स/ओ बिशन सिंह बी ()
503	87//14	निजी	कृषि	0.4046	गुरमेज सिंह स/ओ केसर सिंह ()
504	87//15	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.086	गुरमेज सिंह स/ओ केसर सिंघ २ ३

					हिस्सा जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ ३ हिस्सा ()
505	87//16	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.2984	गुरमेज सिंह स/ओ केसर सिंघ २ ३ हिस्सा जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ ३ हिस्सा ()
506	87//17	निजी	कृषि	0.3288	जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी हिस्सा ()
507	87//2	निजी	कृषि	0.1619	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ २ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ २ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतोश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा ()
508	87//24	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.1113	जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी हिस्सा ()
509	87//25	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.3844	जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी हिस्सा ()
510	87//3	निजी	कृषि	0.3541	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ २ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ २ हिस्सा हिम्मंत सिंह कीमत सिंह स/ओ सतोश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा ()
511	87//4	निजी	कृषि	0.0607	जगजीत सिंह कवलजीत सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी हिस्सा ()

512	87//7	निजी	कृषि	0.2731	गुरमेज सिंह स/ओ केसर सिंह (0)
513	87//8	निजी	कृषि	0.3212	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कौमत सिंह स/ओ सतोश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
514	87//9	निजी	कृषि	0.0101	राजिंद्र कौर वाइफ सतगुर सिंह १ ६ हिस्सा नछतर सिंह जरनैल सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ ६ हिस्सा सतगुर सिंह सन लाल सिंह १ ६ हिस्सा दर्शन सिंह नोरंग सिंह स/ओ गुरपाल सिंह २ ९ हिस्सा मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह स/ओ जरनैल सिंह बी बी १ १२ हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ प नछतर सिंघ १ १२ हिस्सा हिम्मंत सिंह कौमत सिंह स/ओ सतोश सिंह स/ओ गुरपाल सिंह बी बी १ ९ हिस्सा (0)
गांव का नाम: गुलजारपुर थरुआ					
515	28//18/2	निजी	कृषि	0.0101	सुखविंदर कौर विडो व परविंदर सिंह सन ऑफ गुरिंदर सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह बी बी १ २ पार्ट सुखविंदर कौर वाइफ भूपिंदर सिंह सन गुलजार सिंह ४६६ १ २ १००३पर्ट हरभिंदर सिंह स/ओ चंचल सिंह ३५ १००३ हिस्सा (0)
516	28//22	निजी	कृषि	0.129	सुखविंदर कौर विडो व परविंदर सिंह सन ऑफ गुरिंदर सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह बी बी १ २ पार्ट सुखविंदर कौर वाइफ भूपिंदर सिंह सन गुलजार सिंह ४६६ १ २ १००३पर्ट हरभिंदर सिंह स/ओ चंचल सिंह ३५ १००३ हिस्सा (0)
517	28//23	निजी	कृषि	0.0607	सुखविंदर कौर विधवा व परविंदर सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र गुरदीप

					सिंह व : व: 1/2 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी भूपिंदर सिंह पुत्र गुलजार सिंह 466/1/2/1003 हिस्सा हर्भिंदर सिंह पुत्र चंचल सिंह 35/1003 हिस्सा (दर 2/24 हिस्सा) तेजिंदर सिंह उर्फ तेजिंदर पाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह ()
518	309	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0405	जुमला मुस्तर्का मलकन देह ()
519	310	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0051	जुमला मुस्तर्का मलकन देह ()
520	46//12	निजी	कृषि	0.0481	नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ २ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ २ हिस्सा ()
521	46//13	निजी	कृषि	0.4021	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()
522	46//14/1	निजी	कृषि	0.1315	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()
523	46//14/2	निजी	कृषि	0.0025	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()
524	46//17/1	निजी	कृषि	0.1821	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()
525	46//17/2	निजी	कृषि	0.0582	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()

					()
526	46//18	निजी	कृषि	0.3237	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()
527	46//2	निजी	कृषि	0.2529	सुखविंदर सिंह सन ऑफ़ हरदीप सिंह सन ऑफ़ जगत सिंह ()
528	46//23	निजी	कृषि	0.2529	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह १ ३ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह १ ३ ()
529	46//24	निजी	कृषि	0.3439	सतवंत कौर विडो १ ५ हिस्सा रणजोध सिंह जोरावर सिंह सन ऑफ़ सुरिंदर सिंह सन ऑफ़ करतार सिंह ४ ५ पार्ट ()
530	46//3	निजी	कृषि	0.2327	सुखविंदर सिंह सन हरदीप सिंह सन जगत सिंह ()
531	46//7	निजी	कृषि	0.0152	इंदरजीत सिंह स/ओ हरदीप सिंह स/ओ जगत सिंह ()
532	46//8	निजी	कृषि	0.3794	इंदेजीत सिंह पुतर हर्दीप सिंह पुतर जगत सिंह ()
533	46//9	निजी	कृषि	0.2023	इंदरजीत सिंह सन हरदीप सिंह सन जगत सिंह १ ५ १ ६० हिस्सा सुखविंदर सिंह सन हरदीप सिंह सन जगत सिंह १ ४ ५ १ ६० हिस्सा ()
534	47//13/2	निजी	कृषि	0.2655	अजीत सिंह पुत्र तारा सिंह ()
535	47//14	निजी	कृषि	0.4046	अजित सिंह स/ओ तारा सिंह मुस्तरी ()
536	47//15	निजी	कृषि	0.1492	भूपिंदर सिंह सन ऑफ़ करतार सिंह सन ऑफ़ चरणजीत सिंह ()
537	47//16	निजी	कृषि	0.1492	भूपिंदर सिंह सन ऑफ़ करतार सिंह सन ऑफ़ चरणजीत सिंह

					0
538	47//17	निजी	कृषि	0.4046	हरदीप सिंह नवाब सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह बी बी हिस्सा ७५१ १ २ १२६३ हिस्सा कपूर सिंह गुरदियाल सिंह स/ओ गुरबचन सिंह बी बी हिस्सा ५११ १ २ १२६३ 0
539	47//18	निजी	कृषि	0.2276	हरदीप सिंह नवाब सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह बी बी हिस्सा ७५१ १ २ १२६३ हिस्सा कपूर सिंह गुरदियाल सिंह स/ओ गुरबचन सिंह बी बी हिस्सा ५११ १ २ १२६३ 0
540	47//23/1	निजी	कृषि, गैर मुमकिन	0.0202	हरदीप सिंह नवाब सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह बी बी हिस्सा ७५१ १ २ १२६३ हिस्सा कपूर सिंह गुरदियाल सिंह स/ओ गुरबचन सिंह बी बी हिस्सा ५११ १ २ १२६३ 0
541	47//23/2/1	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.0961	कपूर सिंह सन ऑफ़ गुरबचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ़ गुरबचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह ४५ २३२ पार्ट हरदीप सिंह नवाब सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ २ पार्ट परसिन्दर कौर वाइफ गुरदयाल सिंह सन गुरबचन सिंह १३ २३२ पार्ट 0
542	47//23/2/2	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.0101	जैन विधवा व भाना राम -गुलाब राम-गरीब दास -फकीर राम पुत्र फूला राम पुत्र बुध राम 0
543	47//24	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.4046	कपूर सिंह- गुरदयाल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह पुत्र कंधार सिंह वः हिसा 0
544	47//25	निजी	कृषि	0.1543	कपूर सिंह- गुरदयाल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह पुत्र कंधार सिंह वः हिसा 0
545	47//26	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.0025	विक्रमजीत सिंह सन ऑफ़ जानकी दस सन ऑफ़ धनि राम १ २ पार्ट संजीव कुमार सन जानकी दस सन धनि राम १ २ पार्ट 0

546	47//3	निजी	कृषि	0.2175	रंजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह ७६ २५८ हिस्सा नरिंदर कौर व/ओ हरभेज सिंह ७६ २५८ हिस्सा संदीप कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ अर्जुन सिंह ७६ २५८ सतवंत कौर विडो १० ४३० हिस्सा व रणजोध सिंह जोरावर सिंह सन ऑफ़ सुरिंदर सिंह सन ऑफ़ करतार सिंह ४० ४३० पार्ट ()
547	47//4	निजी	कृषि	0.3844	सत्वंत कौर विद्धा 1/5 हिस्सा रंजोध सिंह जोर्वर सिंह पुतर सुरिंदर सिंह पुतर कर्तार सिंह 4/5 हिस्सा ()
548	47//5	निजी	कृषि	0.0076	सत्वंत कौर विद्धा 1/5 हिस्सा रंजोध सिंह जोर्वर सिंह पुतर सुरिंदर सिंह पुतर कर्तार सिंह 4/5 हिस्सा ()
549	47//6	निजी	कृषि	0.0506	सत्वंत कौर विद्धा 1/5 हिस्सा रंजोध सिंह जोर्वर सिंह पुतर सुरिंदर सिंह पुतर कर्तार सिंह 4/5 हिस्सा ()
550	47//7	निजी	कृषि	0.4046	जसवंत सिंह सन ऑफ़ बलवीर सिंह ()
551	47//8	निजी	कृषि	0.2175	जसवंत सिंह पुत्र बलवीर सिंह ()
552	63//10	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.0025	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
553	63//11/1	निजी	गैर मुमकिन	0.1012	विरसा सिंह स/ओ वज़ीर सिंह स/ओ खुशपाल सिंह ()
554	63//11/2	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.1517	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()

					()
555	63//12	निजी	कृषि	0.0354	दलजीत सिंह सन जैमल सिंह सन तारा सिंह पता कुनिन्दा इंडियन लिम १ २० पता गुरिंदा बाक्री विला पता १९ २० २ ५ हिंसा शीला डेवी वाइफ वीजा इंद्रा सिंह सन गाजे सिंह ३ ५ हिस्सा ()
556	63//19	अन्य(ग्राम पंचायत)	कृषि	0.0329	ग्राम पंचायत ()
557	63//20	निजी	कृषि	0.2023	लखवीर सिंह सन ऑफ जागिड़ सिंह सन ऑफ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ महंगा सिंह सन ऑफ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ निर्मल सिंह सन ऑफ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ निर्मल सिंह सन ऑफ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
558	63//21	निजी	कृषि	0.4046	हरदीप सिंह सन ऑफ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट नवाब सिंह सन ऑफ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट कपूर सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट जसविंदर सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह सन ऑफ गन्दा सिंह १ १५ पार्ट बघेल सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह सन ऑफ गन्दा सिंह १ १५ पार्ट यादविंदर सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह सन ऑफ गन्दा सिंह १ १५ पार्ट हरवेल सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह सन ऑफ गन्दा सिंह १ १५ पार्ट संदीप सिंह सन ऑफ सीसा सिंह सन ऑफ सुबेग सिंह १ १५ पार्ट नोट खेवट टोटल रकबा 16 0 हरदीप सिंह सन ऑफ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह नवाब सिंह सन ऑफ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह सोल्ड 8 ० ()
559	63//22	अन्य(ग्राम पंचायत)	कृषि	0.2605	ग्राम पंचायत ()
560	63//23	निजी	कृषि	0.0025	ग्राम पंचायत ()

561	64//14/1	निजी	कृषि	0.1163	कपूर सिंह सन ऑफ़ गुरबचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १०४३ १०५७२ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ़ गुरबचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट हरदीप सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट नवाब सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट सुखविंदर कौर वाइफ जोगिन्दर सिंह सन कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट बलजिंदर कौर वाइफ कपूर सिंह सन गुरबचन सिंह ४०० २६४३ पार्ट ()
562	64//14/2	निजी	कृषि	0.0152	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड़ सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
563	64//15	निजी	कृषि	0.4046	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड़ सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
564	64//16	निजी	कृषि	0.1973	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड़ सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
565	64//17/1	निजी	कृषि	0.0152	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड़ सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()

					()
566	64/17/2	निजी	कृषि	0.1189	कपूर सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १०४३ १०५७२ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट हरदीप सिंह सन ऑफ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट नवाब सिंह सन ऑफ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट सुखविंदर कौर वाइफ जोगिन्दर सिंह सन कन्धरा सिंह १ ६ पार्ट बलजिंदर कौर वाइफ कपूर सिंह सन गुरबचन सिंह ४०० २६४३ पार्ट ()
567	64/24	निजी	कृषि	0.0152	सतनाम सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह सन ऑफ लहिणा सिंह १५३ ८२३ पार्ट कश्मीर सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह सन ऑफ लहिणा सिंह १५९ ८२३ पार्ट दविंदर सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ५४ ८२३ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ६४२१ ८२३०० पार्ट लखविंदर कौर विडो नसवर सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ३६ ८२३ पार्ट परमजीत सिंह सन ऑफ नसवर सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ९५ १६४६ पार्ट हरविंदर सिंह सन ऑफ नसवर सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ९५ १६४६ पार्ट लखविंदर सिंह सन ऑफ जांगिड सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ५९ १६४६ पार्ट साधा सिंह सन ऑफ जांगिड सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ४ ८२३ पार्ट राजिंदर सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह ९५ ८२३ पार्ट अमरजीत कौर विडो सुखविंदर सिंह सन ऑफ जांगिड सिंह ५९ ६५८४ पार्ट भगत सिंह सन ऑफ सुखविंदर सिंह सन ऑफ जांगिड सिंह ५९ ६५८४ पार्ट कुलविंदर कौर वाइफ भगत सिंह सन सुखविंदर सिंह ३ ६५८४ पार्ट सुखविंदर सिंह सन ऑफ जांगिड सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह २३ २४६९ पार्ट नसवर सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह सन ऑफ लहिणा सिंह ३५ १६४६ पार्ट जांगिड सिंह सन ऑफ हज़ारा सिंह सन ऑफ लहिणा सिंह १५ १६४६ पार्ट गुरचरण सिंह सन

					ऑफ़ हज़ारा सिंह सन ऑफ़ लहिणा सिंह ३५ १६४६ पार्ट जसकीरत सिंह सन ऑफ़ हरविंदर सिंह सन ऑफ़ साधा सिंह ५५ ८२३ पार्ट ()
568	64//25	निजी	कृषि	0.2099	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड़ सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
569	64//4/1	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.0228	हरदीप सिंह नबाव सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह बी बी हिस्सा ७५ १ १ २ १२६३ हिस्सा कपूर सिंह गुरदियाल सिंह स/ओ गुरवचन सिंह बी बी हिस्सा ५११ १ २ १२६३ ()
570	64//4/2	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.3439	कपूर सिंह सन ऑफ़ गुरवचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ़ गुरवचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह ४५ २३२ पार्ट हरदीप सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट नबाव सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट परसिन्दर कौर वाइफ गुरदयाल सिंह सन गुरवचन सिंह १३ २३२ पार्ट ()
571	64//5/2	निजी	कृषि/गैर मुमकिन	0.2276	कपूर सिंह सन ऑफ़ गुरवचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ़ गुरवचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह ४५ २३२ पार्ट हरदीप सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट नबाव सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट परसिन्दर कौर वाइफ गुरदयाल सिंह सन गुरवचन सिंह १३ २३२ पार्ट ()
572	64//6	निजी	कृषि	0.3465	लखवीर सिंह सन ऑफ़ जागिड़ सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ २ पार्ट जसवीर सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह सन ऑफ़ तारा सिंह १ ४ पार्ट

					साहिब सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट जतिंदरपाल सिंह सन ऑफ़ निर्मल सिंह सन ऑफ़ महंगा सिंह १ ८ पार्ट ()
573	64//7	निजी	कृषि	0.2934	कपूर सिंह सन ऑफ़ गुरबचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट गुरदयाल सिंह सन ऑफ़ गुरबचन सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह ४५ २३२ पार्ट हरदीप सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट नवाब सिंह सन ऑफ़ जोगिन्दर सिंह सन ऑफ़ कन्धरा सिंह १ ४ पार्ट परसिन्दर कौर वाइफ गुरदयाल सिंह सन गुरबचन सिंह १३ २३२ पार्ट ()
574	66//1	निजी	कृषि	0.2175	ग्राम पंचायत ()
575	66//10	अन्य(ग्राम पंचायत)	कृषि	0.0051	ग्राम पंचायत ()
576	66//2	अन्य(ग्राम पंचायत)	कृषि	0.4046	ग्राम पंचायत ()
577	66//3	निजी	कृषि	0.2655	ग्राम पंचायत ()
578	66//4	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0101	ग्राम पंचायत ()
579	66//7	निजी	कृषि	0.1568	ग्राम पंचायत ()
580	66//8	निजी	कृषि	0.2251	ग्राम पंचायत ()
581	66//9	निजी	कृषि	0.2327	ग्राम पंचायत ()
582	75	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	1.0849	ग्राम पंचायत ()
गांव का नाम: लालवा					
583	12//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	मांगा सिंह के पुत्र सेवा सिंह के पुत्र मेहताब सिंह ()
584	4//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	गुरजीत सिंह- हरजीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह-678/1212 हिसा, गुरबचन सिंह पुत्र मंगल सिंह-534/1212 हिसा

					()
585	4/25	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	गुरजीत सिंह- हरजीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह-678/1212 हिंसा, गुरबचन सिंह पुत्र मंगल सिंह- 534/1212 हिंसा ()
गांव का नाम: शूतराना					
586	1031	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0708	ग्राम पंचायत देह शरेआम ()
587	1048	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0986	ग्राम पंचायत देह शरेआम ()
588	1076	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.1492	ग्राम पंचायत देह शरेआम ()
589	111//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इक्बाल सिंह २४४६ ३६४६ हिंसा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इक्बाल सिंह १२०० ३६४६ हिंसा ()
590	111//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3414	जग्गीर सिंह पुत्र सम्पुरन सिंह पुत्र इक्बाल सिंह ()
591	111//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.1366	जग्गीर सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह स/ओ इक्बाल सिंह ()
592	111//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जग्गीर सिंह पुत्र सम्पुरन सिंह पुत्र इक्बाल सिंह ()
593	111//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0784	जग्गीर सिंह पुत्र सम्पुरन सिंह पुत्र इक्बाल सिंह ()
594	111//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3692	जग्गीर सिंह पुत्र सम्पुरन सिंह पुत्र इक्बाल सिंह ()
595	111//5/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	बालकर सिंह सन घसीटा सिंह सन सुलखन सिंह ()
596	111//5/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	बालकर सिंह सन घसीटा सिंह सन सुलखन सिंह ()
597	111//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	बालकर सिंह सन घसीटा सिंह सन सुलखन सिंह ()

598	111//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.1973	जगसीर सिंह सन सम्पूर्ण सिंह सन इक्रवाल सिंह ४७ ७८ हिंसा अवतार कौर विडो व/ओ बख्शीश सिंह सन इक्रवाल सिंह २० ७८ हिंसा भूपिंदर सिंह सन बक्शीश सिंह सन इक्रवाल सिंघ ११ ७८ हिंसा ()
599	112//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंघ ७९० १६८० हिस्सा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह ५० १६८० हिस्सा निर्मल सिंह स/ओ करतार सिंह स/ओ तेजा सिंह २०१ १६८० हिस्सा गुरभजन सिंह स/ओ करतार सिंह स/ओ तेजा सिंह २६९ १ २ १६८० हिस्सा राजवंत सिंह स/ओ करतार सिंह स/ओ तेजा सिंह ५१ १ २ १६८० हिस्सा परमजीत कौर व/ओ राजवंत सिंह स/ओ करतार सिंह २१८ १६८० हिस्सा गुरबाज सिंह निर्मल सिंह स/ओ करतार सिंह ३३ १ ३ १६८० हिस्सा पलविंदरपाल सिंह अमरजीत सिंह स/ओ निर्मल सिंह स/ओ करतार सिंह ६६ २ ३ १६८० हिस्सा दलीप सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 790/1680 हिस्सा, जसकरण सिंह-जसपाल सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र करतार सिंह 50/1680 हिस्सा निरमल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र तेजा सिंह 201/1680 हिस्सा, गुरभजन सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र तेजा सिंह 269/1/2/1680 हिस्सा, राजवंत सिंह so करतार सिंह पुत्र तेजा सिंह 51/1/2/1680 हिस्सा, परमजीत कौर पतनी राजवंत सिंह पुत्र करतार सिंह 218/1680 हिस्सा, गुरबाज सिंह - निरमल सिंह पुत्र करतार सिंह 33/1/3/1680 हिस्सा पलविंदरपाल सिंह -अमरजीत सिंह पुत्र निरमल सिंह पुत्र करतार सिंह 66/2/3 /1680 हिस्सा ()
600	112//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.2681	जगसीर सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह स/ओ इक्रवाल सिंह ()
601	112//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1189	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज

					गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
602	112//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	जगसीर सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह स/ओ िक्कवाल सिंह ()
603	112//21/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2757	जगसीर सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह स/ओ िक्कवाल सिंह ()
604	112//21/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	जगसीर सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह स/ओ िक्कवाल सिंह ()
605	112//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.3515	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
606	112//23/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
607	127//1	निजी	सिंचित(चाही)	0.0607	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
608	127//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	करतार कौर डॉटर तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह ()
609	127//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
610	127//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.3212	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन

					सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
611	127//14	निजी	सिंचित (नाही)	0.2605	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
612	127//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह १ २ हिस्सा ()
613	127//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	दलीप सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/2 हिस्सा , जसकरण सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2 हिस्सा ()
614	127//18	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.1087	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
615	127//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2554	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
616	127//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0759	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन

					जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
617	127//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1947	दलीप सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/2 हिस्सा , जसकरण सिंह - जसपाल सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2 हिस्सा ()
618	127//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.349	दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह १ २ हिस्सा ()
619	127//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()
620	127//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
621	127//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
622	127//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.1745	जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह सन रणधीर सिंह २६२९ ३९०९ हिज़ गुररपरतीत सिंह सन जय प्रताप सिंह सन चानन सिंह ११३० ३९०९ हिज़ कमलजीत कौर वाइफ जय परताप सिंह १५० ३९०९ ()

623	151//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	निर्मल सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २०१ १ ४ १७८६ हिंसा गुरभजन सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २५३ १ ४ १७८६ हिंसा दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह ८९३ १७८६ हिंसा परमजीत कौर वाइफ राजवंत सिंह सन करतार सिंह १७० १७८६ हिंसा राजवंत सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा गुरवाज सिंह कुलविंदर सिंह अमरजीत सिंह सन निर्मल सिंह सन करतार सिंह १०२ १७८६ हिंसा (0)
624	151//4/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	निर्मल सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २०१ १ ४ १७८६ हिंसा गुरभजन सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २५३ १ ४ १७८६ हिंसा दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह ८९३ १७८६ हिंसा परमजीत कौर वाइफ राजवंत सिंह सन करतार सिंह १७० १७८६ हिंसा राजवंत सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा गुरवाज सिंह कुलविंदर सिंह अमरजीत सिंह सन निर्मल सिंह सन करतार सिंह १०२ १७८६ हिंसा (0)
625	151//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.3566	निर्मल सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २०१ १ ४ १७८६ हिंसा गुरभजन सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २५३ १ ४ १७८६ हिंसा दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह ८९३ १७८६ हिंसा परमजीत कौर वाइफ राजवंत सिंह सन करतार सिंह १७० १७८६ हिंसा राजवंत सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा गुरवाज सिंह कुलविंदर सिंह अमरजीत सिंह सन निर्मल सिंह सन करतार सिंह १०२

					१७८६ हिस्सा ()
626	151//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.177	अमरजीत सिंह गुरवाज सिंह पलविंदरपाल सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह ९ २४० जसकरण िंघ जसपाल सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह सन करतार सिंह ६० २४० हिस्सा राजवंत सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ६० २४० हिंसा गुरभजन सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ६० २४० हिंसा निर्मल सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ५१ २४० हिज ()
627	152//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.215	सुखविंदर कौर विडो सतनाम सिंह सन अमर सिंह बी बी ७१ २८४ हिंसा डालराज सिंह स/ओ सतनाम सिंह सन अमर सिंह बी बी ७१ २८४ हिंसा गुरदेव सिंह सन अमर सिंह ७१ १४२ हिंसा ()
628	152//10/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	सुखविंदर कौर विडो सतनाम सिंह सन अमर सिंह बी बी ७१ २८४ हिंसा डालराज सिंह स/ओ सतनाम सिंह सन अमर सिंह बी बी ७१ २८४ हिंसा गुरदेव सिंह सन अमर सिंह ७१ १४२ हिंसा ()
629	152//10/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	अमर सिंह सन वसन सिंह सन लडा सिंह ()
630	152//10/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	अमृतपाल सिंह सन बलजीत सिंहग सन हरी सिंह १ २ हिस्सा लाभ सिंह सन हरी सिंह सन लोक सिंह १ २ हिस्सा ()
631	152//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3288	निर्मल सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २०१ १ ४ १७८६ हिंसा गुरभजन सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह २५३ १ ४ १७८६ हिंसा दलीप सिंह सन तेजा सिंह सन सुन्दर सिंह ८९३ १७८६ हिंसा परमजीत कौर वाइफ राजवंत सिंह सन करतार सिंह १७० १७८६ हिंसा राजवंत सिंह सन करतार सिंह सन तेजा सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिंसा जसकरण सिंह जसपाल सिंह सन जोगिन्दर

					सिंह सन करतार सिंह ८३ १ ४ १७८६ हिस्सा गुरबाज सिंह कुलविंदर सिंह अमरजीत सिंह सन निर्मल सिंह सन करतार सिंह १०२ १७८६ हिस्सा ()
632	152//12/1	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.1517	लखवीर सिंह सन जांगिड़ सिंह सन तारा सिंह १ २ सन जसवीर सिंह सन महंगा सिंह सन तारा सिंह १ ४ हिंसा साहिब सिंह सन निर्मल सिंह सन महंगा सिंह १ ८ हिंसा जतिंदरपाल सिंह सन निर्मल सिंह सन महंगा सिंह १ ८ हिंसा ()
633	152//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1694	साधा सिंह सन करतार सिंह ३२० ६५० हिंसा कश्मीर सिंह सन साधा सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा नरिंदर सिंह सन साधा सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा पगत सिंह सन जोगिन्दर सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा मलकीत सिंह सन बलवंत सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा ()
634	152//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	साधा सिंह सन करतार सिंह ३२० ६५० हिंसा कश्मीर सिंह सन साधा सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा नरिंदर सिंह सन साधा सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा पगत सिंह सन जोगिन्दर सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा मलकीत सिंह सन बलवंत सिंह ८२ १ २ ६५० हिंसा ()
635	152//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	राज कुमार सन सैम लाल ८० ६१४ हिंसा कृष्ण कुमार सन सैम लाल ८० ३०७ हिंसा खुसबी दोउठेर मेजर राम २० ३०७ हिंसा मेजर राम सन हरदेव राम ७७ ६१४ हिंसा गुलशन कुमार सन हरदेव राम ७७ ६१४ हिंसा भाग सिंह सन शाम लाल ८० ६१४ हिंसा हरमेश भाई दोउठेर साधू राम सन गहना राम ४० ६१४ हिंसा मंजीत कौर वाइफ सुखविन्दरसिंघ सन जंगीर सिंह ८० ६१४ हिंसा परमजीत कौर वाइफ बलजीत सिंह सन जंगीर सिंह ८० ६१४ हिंसा ()
636	152//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.3692	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन

					सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
637	152//20/1	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.0733	निरंकार सिंह सन जोगिन्दर सिंह १ २ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह १ २ हिस्सा ()
638	152//20/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	tksfxanj flag iq= lqpk flag iq= lqanj flag ()
639	152//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बक्शीस सिंह सन सोचा सिंह सन सुंदर सिंह ७१ २०६ हिस्सा गुरजिंदर सिंह सन जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह ८ १०३ हिस्सा निरंकार सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह ८ १०३ हिस्सा ()
640	152//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3794	राज कुमार सन सैम लाल ८० ६१४ हिस्सा कृष्ण कुमार सन सैम लाल ८० ३०७ हिस्सा खुसबी दोउठेर मेजर राम २० ३०७ हिस्सा मेजर राम सन हरदेव राम ७७ ६१४ हिस्सा गुलशन कुमार सन हरदेव राम ७७ ६१४ हिस्सा भाग सिंह सन शाम लाल ८० ६१४ हिस्सा हरमेश भाई दोउठेर साधू राम सन गहना राम ४० ६१४ हिस्सा मंजीत कौर वाइफ सुखविन्दरसिंघ सन जंगीर सिंह ८० ६१४ हिस्सा परमजीत कौर वाइफ बलजीत सिंह सन जंगीर सिंह ८० ६१४ हिस्सा ()
641	152//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	राज कुमार सन सैम लाल ८० ६१४ हिस्सा कृष्ण कुमार सन सैम लाल ८० ३०७ हिस्सा खुसबी दोउठेर मेजर राम २० ३०७ हिस्सा मेजर राम सन हरदेव राम ७७ ६१४ हिस्सा गुलशन कुमार सन हरदेव राम ७७ ६१४ हिस्सा भाग सिंह सन शाम लाल ८० ६१४ हिस्सा हरमेश भाई

					दोउठेर साधू राम सन गहना राम ४० ६१४ हिस्सा मंजीत कौर वाइफ सुखविन्दरसिंह सन जंगीर सिंह ८० ६१४ हिस्सा परमजीत कौर वाइफ बलजीत सिंह सन जंगीर सिंह ८० ६१४ हिस्सा ()
642	152//9/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	vej flag iq= olu flag iq= y/kk flag ()
643	152//9/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	लाभ कौर वाइफ कौर सिंह सन मगर सिंह ()
644	164//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	नरिंदर कौर वाइफ सुखविंदर सिंह उर्फ सूखा सिंह स/ओ गुरदयाल सिंह ५०८ ५६८८ हिस्सा परताप सिंह सन सुखविंदर सिंह सन गुरदयाल सिंह ५१९ १ ४ ५६८८ हिस्सा हरविंदर सिंह सन सुखविंदर सिंह सन गुरदयाल सिंह ३४८ १ ४ ५६८८ हिस्सा वरयाम सिंह सन गुरदयाल सिंह ६३१ ५६८८ हिस्सा बघेल सिंह सन गुरदयाल सिंह सन गोपाल सिंह ७३७ ५६८८ हिस्सा कुलदीप सिंह सन गुरदयाल सिंह सन गोपाल सिंह ५०८ १ २ ५६८८ हिस्सा हरद्वेप सिंह सन गुरदयाल सिंह सन गोपाल सिंह ७२० ५६८८ हिस्सा गुरदयाल सिंह सन गोपाल सिंह ७७७ ५६८८ हिस्सा बलजीत सिंह सन जसवंत सिंह २८ १ २ ५६८८ हिस्सा कमलजीत सिंह राम सिंह सन बलविंदर सिंह सन गुरपाल सिंह ९१० १ २ ५६८८ हिस्सा ()
645	164//20	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.1922	हरजिंदर कौर व/ओ प परमजीत सिंह १ २ हिस्सा मनदीप कौर डी ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा संदीप सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा परमजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ बहन सिंह १ ४ हिस्सा ()
646	164//21	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.3869	हरजिंदर कौर व/ओ प परमजीत सिंह १ २ हिस्सा मनदीप कौर डी ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा संदीप सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा ()

					परमजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ बहन सिंह १ ४ हिस्सा ()
647	164//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	हरजिंदेतर कौर व/ओ प परमजीत सिंह १ २ हिस्सा मनदीप कौर डी ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा संदीप सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा परमजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ बहन सिंह १ ४ हिस्सा ()
648	165//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सिंदर सिंह सन हजूर सिंह ()
649	165//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.306	सुखविंदर सिंह बलजीत सिंह स/ओ जांगिड़ सिंह स/ओ उजागर सिंह २२३९ ३३८२ हिस्सा जसविंदर कौर विडो जांगिड़ सिंह स/ओ उजागर सिंह ११४३ ३३८२ हिस्सा ()
650	165//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	सुखविंदर सिंह बलजीत सिंह स/ओ जांगिड़ सिंह स/ओ उजागर सिंह २२३९ ३३८२ हिस्सा जसविंदर कौर विडो जांगिड़ सिंह स/ओ उजागर सिंह ११४३ ३३८२ हिस्सा ()
651	165//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	हरजिंदेतर कौर व/ओ प परमजीत सिंह १ २ हिस्सा मनदीप कौर डी ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा संदीप सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा परमजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ बहन सिंह १ ४ हिस्सा ()
652	165//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0683	हरजिंदेतर कौर व/ओ प परमजीत सिंह १ २ हिस्सा मनदीप कौर डी ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा संदीप सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा परमजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ बहन सिंह १ ४ हिस्सा ()
653	165//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0278	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बखसीस सिंह स/ओ सुन्ना सिंह स/ओ सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा ()

654	165//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.2175	हरजिंदेतर कौर व/ओ प परमजीत सिंह १ २ हिस्सा मनदीप कौर डी ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा संदीप सिंह स/ओ जसवंत सिंह स/ओ मान सिंह १ ८ हिस्सा परमजीत सिंह स/ओ जोगिन्दर सिंह स/ओ बहन सिंह १ ४ हिस्सा ()
655	165//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.3692	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बखसीस सिंह स/ओ सुद्धा सिंह स/ओ सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा ()
656	165//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.258	सुखविंदर सिंह-बलजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र उजागर सिंह 2239/3382 हिस्सा जसविंदर कौर विदवा जंगीर सिंह पुत्र उजागर सिंह 1143/3382 हिस्सा ()
657	165//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	सुखविंदर सिंह बलजीत सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ उजागर सिंह २२३९ ३३८२ हिस्सा जसविंदर कौर विडो जांगिड सिंह स/ओ उजागर सिंह ११४३ ३३८२ हिस्सा ()
658	165//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सुखविंदर सिंह बलजीत सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ उजागर सिंह २२३९ ३३८२ हिस्सा जसविंदर कौर विडो जांगिड सिंह स/ओ उजागर सिंह ११४३ ३३८२ हिस्सा ()
659	165//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	जोगिन्दर सिंह सन सोचा सिंह सन सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा बखसीस सिंह स/ओ सुद्धा सिंह स/ओ सुन्दर सिंह १ २ हिस्सा ()
660	188//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	कुलदीप सिंह विपल जीत सिंह स/ओ अमरीक सिंह स/ओ इन्दर सिंह वी वी हिस्सा ()
661	189//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.301	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौं सिंह १ २ हिज मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौं सिंह १ २ हिंसा ()
662	189//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	राजमालकित कौर व/ओ मलूक सिंह स/ओ करतार सिंह ४० ४५८ हिस्सा ()

					सुरजीत कौर व/ओ बूटा सिंह स/ओ करतार सिंह ४० ४५८ हिस्सा सचिन कुमार स/ओ सिकराराम स/ओ बाच्चे राम ४० ४५८ हिस्सा मुंसी राम स/ओ अस्सी राम स/ओ भाखा राम १४९ ४५८ हिंसा बनता राम पुत्र एआईएसआई राम पुत्र बखा राम १४९ ४५८ हिंसा बूटा सिंह स/ओ करतार सिंह स/ओ सोहल सिंह ४० ४५८ मलूक सिंह स/ओ करतार सिंह स/ओ सोहल सिंह ४० ४५८ हिस्सा ()
663	189//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.2832	सुरिंदर सिंह सन मलूक सिंह सन करतार सिंह १ २ हिंसा प्रताप सिंह सेवा सिंह गुरविंदर सिंह सन बूटा सिंह सन करतार सिंह १ २ बी बी हिंसा ()
664	189//13	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.3566	ॐ प्रकाश सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिस्सा बिला राम शेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिंसा दलेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम ९२६ ९४८५ हिंसा बचने बाई विडो ज्ञान चाँद सन गहिना राम १३१ १८९७ हिंसा कुलवीर कौर वाइफ गुरविंदर सिंह सन आमिर सिंह ४० २७१ हिंसा ()
665	189//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	ॐ प्रकाश सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिस्सा बिला राम शेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिंसा दलेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम ९२६ ९४८५ हिंसा बचने बाई विडो ज्ञान चाँद सन गहिना राम १३१ १८९७ हिंसा कुलवीर कौर वाइफ गुरविंदर सिंह सन आमिर सिंह ४० २७१ हिंसा ()
666	189//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.2175	ॐ प्रकाश सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिस्सा बिला राम शेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिंसा दलेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम ९२६ ९४८५ हिंसा बचने बाई विडो ज्ञान चाँद सन गहिना राम १३१ १८९७ हिंसा कुलवीर कौर वाइफ गुरविंदर सिंह सन आमिर सिंह ४० २७१ हिंसा ()

					0
667	189//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3869	ॐ प्रकाश सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिस्सा बिला राम शेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम १२ ३५ हिंसा दलेर सिंह सन ज्ञान चाँद सन गहिना राम ९२६ ९४८५ हिंसा बचने बाई विडो ज्ञान चाँद सन गहिना राम १३१ १८९७ हिंसा कुलवीर कौर वाइफ गुरविंदर सिंह सन आमिर सिंह ४० २७१ हिंसा ()
668	189//19/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिज मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिंसा ()
669	189//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.258	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिज मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिंसा ()
670	189//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	सुरिंदर सिंह सन मलूक सिंह सन करतार सिंह १ २ हिंसा प्रताप सिंह सेवा सिंह गुरविंदर सिंघसन बूटा सिंह सन करतार सिंह १ २ बी बी हिंसा ()
671	189//24	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.3971	सुरिंदर सिंह सन मलूक सिंह सन करतार सिंह १ २ हिंसा प्रताप सिंह सेवा सिंह गुरविंदर सिंघसन बूटा सिंह सन करतार सिंह १ २ बी बी हिंसा ()
672	189//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिज मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिंसा ()
673	189//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	राजमालकित कौर व/ओ मलूक सिंह स/ओ करतार सिंह ४० ४५८ हिस्सा सुरजीत कौर व/ओ बूटा सिंह स/ओ करतार सिंह ४० ४५८ हिस्सा सचिन कुमार स/ओ सिकराराम स/ओ बाच्ने राम ४० ४५८ हिस्सा मुंसी राम स/ओ अस्सी राम स/ओ भाखा राम १४९ ४५८ हिंसा बनता राम पुत्र एआईएसआई राम पुत्र बखा राम १४९ ४५८ हिंसा बूटा सिंह स/ओ करतार सिंह स/ओ सोहल सिंह ४० ४५८ मलूक सिंह स/ओ

					करतार सिंह स/ओ सोहल सिंह ४० ४५८ हिस्सा ()
674	189//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सुरिंदर सिंह सन मलुक सिंह सन करतार सिंह १ २ हिंसा प्रताप सिंह सेवा सिंह गुरविंदर सिंह सन बूटा सिंह सन करतार सिंह १ २ बी बी हिंसा ()
675	200//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	गजिंदर सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र अमर सिंह ()
676	200//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	बलविन्दर सिंह स/ओ आशा सिंह स/ओ करतार सिंह २०० ३६० हिस्सा भवनदीप सिंह स/ओ बलविंदर सिंह स/ओ आशा सिंह १६० ३६० हिस्सा ()
677	200//11/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	प्रिसपल सिंह स/ओ परगट सिंह स/ओ गुरमुख सिंह बी बी ३५ १४२ हिस्सा सुखविंदर सिंह स/ओ गुरमुख सिंह ३५ १४२ हिस्सा मोहिंदर सिंह स/ओ तेजा सिंह स/ओ मोहिंदर सिंह ७२ १४२ हिस्सा ()
678	200//11/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1973	प्रिसपल सिंह स/ओ परगट सिंह स/ओ गुरमुख सिंह बी बी ३५ १४२ हिस्सा सुखविंदर सिंह स/ओ गुरमुख सिंह ३५ १४२ हिस्सा मोहिंदर सिंह स/ओ तेजा सिंह स/ओ मोहिंदर सिंह ७२ १४२ हिस्सा ()
679	200//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.0278	वजीर सिंह सन वरियाम सिंह सन अमर सिंह ()
680	200//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	मालक सिंह स/ओ फकीर सिंह स/ओ करम सिंह ()
681	200//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	वजीर सिंह सन वरियाम सिंह सन अमर सिंह ()
682	200//20/1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	कपूर कौर विद्या बालकर सिंह स/ओ तेजा सिंह १ ३ हिस्सा जगप्रीत सिंह स उवलकर सिंह स/ओ तेजा सिंह १ ३ हिस्सा कुलविंदर कौर डी ओ बालकर सिंह स/ओ तेजा सिंह १ ३

					हिस्सा ()
683	200//20/1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	बलविंदर सिंह स/ओ आशा सिंह स/ओ करतार सिंह २०० ३६० हिस्सा भवनदीप सिंह स/ओ बलविंदर सिंह स/ओ आशा सिंह १६० ३६० हिस्सा ()
684	200//20/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	बलविंदर सिंह स/ओ आशा सिंह स/ओ करतार सिंह १६ ५८ हिस्सा भवनदीप सिंह स/ओ बलविंदर सिंह स/ओ आशा सिंह १२ ५८ हिस्सा बूटा सिंह मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सिवा सिंह बी बी ३० ५८ हिस्सा ()
685	200//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	कपूर कौर विद्या बालकर सिंह स/ओ तेजा सिंह १ ३ हिस्सा जगप्रीत सिंह स उवलकर सिंह स/ओ तेजा सिंह १ ३ हिस्सा कुलविंदर कौर डी ओ बालकर सिंह स/ओ तेजा सिंह १ ३ हिस्सा ()
686	200//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.2504	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ()
687	200//23/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0784	मालक सिंह स/ओ फ़कीर सिंह स/ओ करम सिंह ११४ १४० हिस्सा कश्मीर चाँद दलवीर चाँद सन दियाला राम सन खमीसा राम २६ १४० हिस्सा ()
688	201//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.2504	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिज़ मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिंसा ()
689	201//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिज़ मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौ सिंह १ २ हिंसा ()
690	201//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	सुरिंदर सिंह सन मलूक सिंह सन करतार सिंह १ २ हिंसा प्रताप सिंह सेवा सिंह गुरविंदर सिंघसन बूटा सिंह सन करतार सिंह १ २ बी बी हिंसा

					0
691	201//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	सुरिंदर सिंह पुत्र मालुक सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2 हिंसा, प्रताप सिंह.सेवा सिंह .गुरविंदर सिंह पुत्र बुटा सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2 हिंसा, 0
692	201//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौं सिंह १ २ हिज मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौं सिंह १ २ हिंसा 0
693	201//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	बूटा सिंह सन करतार सिंह सन सौं सिंह १ २ हिज मलूक सिंह सन करतार सिंह सन सौं सिंह १ २ हिंसा 0
694	201//7/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	सुरिंदर सिंह सन मलूक सिंह सन करतार सिंह १ २ हिंसा प्रताप सिंह सेवा सिंह गुरविंदर सिंघसन बूटा सिंह सन करतार सिंह १ २ बी बी हिंसा 0
695	224//1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिंसा 0
696	224//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.2327	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३९८ ९४४ हिंसा जगा राम सन दियाला राम सन खमीशा राम २३३ ९४४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम २३३ ९४४ 0
697	224//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३९८ ९४४ हिंसा जगा राम सन दियाला राम सन खमीशा राम २३३ ९४४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम २३३ ९४४ 0
698	224//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३९८ ९४४ हिंसा जगा राम सन

					दियाला राम सन खमीशा राम २३३ ९४४ हिंसा महिंदर लाल सन वीरभान सन दियाला राम २३३ ९४४ ()
699	224//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	जागिड़ सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह २३० ५०४८ हिंसा आमिर सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह १२४४ ५०४८ हिंसा सिंदर सिंह पुत्र फ़कीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद १५० ५०४८ हिंसा मालक सिंह पुत्र फ़कीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद ३८१ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फ़कीर सिंह ४६१ १ ३ ५०४८ हिंसा साहिब पुत्र हरनाम सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा करनैल सिंह सन हरनाम सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा अमर कौर विडो हरनाम ११७ ५०४८ हिंसा नवदीप सिंह सन अमर सिंह सन कर्मा सिंह १४० ५०४८ हिंसा मंजीत कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ गुरनाम सिंह ४० ५०४८ हिंसा स्वर्णजीत कौर विडो अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १५७ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १९७ ५०४८ हिंसा अंग्रेज सिंह सन सिंदर सिंह पुत्र फ़कीर सिंह ६३२ १ ३ ५०४८ हिंसा राजवीर सिंह सन मालक सिंह सन फ़कीर सिंह ११५ १ ३ ५०४८ हिंसा राज कौर विडो व कवलजीत कौर सरबजीत कौर अमनदीप कौर डी ओ मोहर सिंह स/ओ हरनाम सिंह बी ()
700	224//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	एमीर सिंह स/ओ करम सिंह स/ओ बूटा सिंह ()
701	224//17/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1138	जागिड़ सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह २३० ५०४८ हिंसा आमिर सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह १२४४ ५०४८ हिंसा सिंदर सिंह पुत्र फ़कीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद १५० ५०४८ हिंसा मालक सिंह पुत्र फ़कीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद ३८१ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फ़कीर सिंह ४६१ १ ३ ५०४८ हिंसा साहिब पुत्र हरनाम

					सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा करनैल सिंह सन हरनाम सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा अमर कौर विडो हरनाम ११७ ५०४८ हिंसा नवदीप सिंह सन अमर सिंह सन कर्मा सिंह १४० ५०४८ हिंसा मंजीत कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ गुरनाम सिंह ४० ५०४८ हिंसा स्वर्णजीत कौर विडो अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १५७ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १९७ ५०४८ हिंसा अंग्रेज सिंह सन सिंदर सिंह पुत्र फ़कीर सिंह ६३२ १ ३ ५०४८ हिंसा राजवीर सिंह सन मालक सिंह सन फ़कीर सिंह ११५ १ ३ ५०४८ हिंसा राज कौर विडो व कवलजीत कौर सरबजीत कौर अमनदीप कौर डी ओ मोहर सिंह स/ओ हरनाम सिंह बी ()
702	224//17/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2301	मुख्तयार सिंह सन महाजन सिंह सन हज़ारा सिंह १ २ हिंसा जगतार सिंह सन महाजन सिंह सन हज़ारा सिंह १ २ हिंसा ()
703	224//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	मुख्तयार सिंह सन महाजन सिंह सन हज़ारा सिंह १ २ हिंसा जगतार सिंह सन महाजन सिंह सन हज़ारा सिंह १ २ हिंसा ()
704	224//2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंदर लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिंसा ()
705	224//2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2074	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंदर लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिंसा ()
706	224//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	मुख्तयार सिंह सन महाजन सिंह सन हज़ारा सिंह १ २ हिंसा जगतार सिंह सन महाजन सिंह सन हज़ारा सिंह १ २ हिंसा ()

707	224//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1189	गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फकीर सिंह ३२ १ ३ ४७ हिस्सा गुरजीत सिंह सन दीदार सिंह सन गोपाल सिंह ३ ४७ हिस्सा अनूप सिंह सन दीदार सन गोपाल सिंह ३ ४७ हिस्सा सुखविंदर सिंह लखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह सन तारा सिंह २ २ ३ ४७ हिस्सा जोगिन्दर सिंह सन दरसन सिंह सन केशर सिंह ६ ४७ हिस्सा ()
708	224//25/1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.258	गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फकीर सिंह १२१ १४० हिस्सा गुरजीत सिंह अनूप सिंह सन दीदार सन गोपाल सिंह ७ ३ ४ १४० हिस्सा सुखविंदर सिंह लखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह सन तारा सिंह ३ १ २ १४० हिस्सा जोगिन्दर सिंह सन दरसन सिंह सन केशर सिंह ७ ३ ४ १४० हिस्सा ()
709	224//25/1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फकीर सिंह १२१ १४० हिस्सा गुरजीत सिंह अनूप सिंह सन दीदार सन गोपाल सिंह ७ ३ ४ १४० हिस्सा सुखविंदर सिंह लखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह सन तारा सिंह ३ १ २ १४० हिस्सा जोगिन्दर सिंह सन दरसन सिंह सन केशर सिंह ७ ३ ४ १४० हिस्सा ()
710	224//3/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.258	कश्मीर चाँद दियाला राम सन सन खमीसा राम १ २ हिंसा दलवीर चाँद सन दियाला राम सन सन खमीसा राम १ २ हिंसा ()
711	224//3/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0708	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिंसा ()
712	224//4/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	कश्मीर चाँद दियाला राम सन सन खमीसा राम १ २ हिंसा दलवीर चाँद सन दियाला राम सन सन खमीसा राम १ २ हिंसा ()

713	224//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.177	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिज्ज ()
714	224//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.3996	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिज्ज ()
715	224//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	कश्मीर चाँद दलवीर चाँद जगा राम सन दियाला राम सन सन खमीसा राम ३ ४ हिंसा महिंद्रा लाल सन वीरभान सन दियाला राम १ ४ हिज्ज ()
716	225//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	जांगिड़ सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह २३० ५०४८ हिंसा आमिर सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह १२४४ ५०४८ हिंसा सिंदर सिंह पुत्र फ़कीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद १५० ५०४८ हिंसा मालक सिंह पुत्र फ़कीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद ३८१ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फ़कीर सिंह ४६१ १ ३ ५०४८ हिंसा साहिब पुत्र हरनाम सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा करनैल सिंह सन हरनाम सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा अमर कौर विडो हरनाम ११७ ५०४८ हिंसा नवदीप सिंह सन अमर सिंह सन कर्मा सिंह १४० ५०४८ हिंसा मंजीत कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ गुरनाम सिंह ४० ५०४८ हिस्सा स्वर्णजीत कौर विडो अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १५७ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १९७ ५०४८ हिंसा अंग्रेज सिंह सन सिंदर सिंह पुत्र फ़कीर सिंह ६३२ १ ३ ५०४८ हिंसा राजवीर सिंह सन मालक सिंह सन फ़कीर सिंह ११५ १ ३ ५०४८ हिंसा राज कौर विडो व कवलजीत कौर सरबजीत कौर अमनदीप कौर डी ओ मोहर सिंह स/ओ हरनाम सिंह बी ()
717	234//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3237	जंगीर सिंह पुत्र कर्म चंद पुत्र बुटा सिंह 230/5048 हिंसा, अमीर सिंह

					<p>पुत्र कर्म चंद पुत्र बुटा सिंह 1244/5048 हिसा, सिंदर सिंह पुत्र फकीर चंद पुत्र कर्म चंद 150/5048 हिसा, मालक सिंह पुत्र फकीर चंद पुत्र कर्म चंद 381/5048 हिसा, गगनदीप सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र फकीर सिंह हिसा, साहीब पुत्र हरनाम सिंह पुत्र दीवान सिंह 461/1/3/5048 हिसा, करनैल सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र दीवान सिंह 394/1/3/5048 हिसा, अमर कौर विधवा हरनाम सिंह 117/5048 हिसा, नवदीप सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कर्म सिंह 140/5048 हिसा, सवरनजीत कौर विधवा अंग्रेज सिंह पुत्र हरनाम सिंह 157/5048 हिसा, गगनदीप सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह पुत्र हरनाम सिंह 197/5048 हिसा, अंग्रेज सिंह पुत्र सिंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 632/1/3/5048 हिसा, राजवीर सिंह पुत्र मालक सिंह पुत्र फकीर सिंह 115/1/3/5048 मंजीत कौर पत्नी रंजीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह 40/5048 हिस्सा राज कौर विधवा ब रूकवलजीत कौर .सरव जीत कौर .अमनदीप कौर पुत्र अन मेहर सिंह पुत्र हरनाम ब रू ब रू 394/1/3/5048 हिस्सा ()</p>
718	234//10/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1492	<p>जंगीर सिंह पुत्र कर्म चंद पुत्र बुटा सिंह 230/5048 हिसा, अमीर सिंह पुत्र कर्म चंद पुत्र बुटा सिंह 1244/5048 हिसा, सिंदर सिंह पुत्र फकीर चंद पुत्र कर्म चंद 150/5048 हिसा, मालक सिंह पुत्र फकीर चंद पुत्र कर्म चंद 381/5048 हिसा, गगनदीप सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र फकीर सिंह हिसा, साहीब पुत्र हरनाम सिंह पुत्र दीवान सिंह 461/1/3/5048 हिसा, करनैल सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र दीवान सिंह 394/1/3/5048 हिसा, अमर कौर विधवा हरनाम सिंह 117/5048 हिसा, नवदीप सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कर्म सिंह 140/5048 हिसा, सवरनजीत कौर विधवा अंग्रेज सिंह पुत्र हरनाम सिंह 157/5048 हिसा, गगनदीप सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह पुत्र हरनाम सिंह 197/5048 हिसा, अंग्रेज सिंह पुत्र सिंदर सिंह पुत्र</p>

					फकीर सिंह 632/1/3/5048 हिस्सा, राजवीर सिंह पुत्र मालक सिंह पुत्र फकीर सिंह 115/1/3/5048 मंजीत कौर पत्नी रंजीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह 40/5048 हिस्सा राज कौर विदवा ब रूकवलजीत कौर .सरव जीत कौर .अमनदीप कौर पुत्रीअन मेहर सिंह पुत्र हरनाम ब रू ब रू 394/1/3/5048 हिस्सा ()
719	234//10/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2301	ज्ञान चाँद सन राम चाँद ४७ ९३ हिस्सा हरबंस लाल स/ओ राम चाँद ४६ ९३ हिस्सा ()
720	234//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.2074	ज्ञान चंद पुत्र राम चंद ()
721	234//12/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1897	ज्ञान चंद पुत्र राम चंद ()
722	234//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	जसपाल सिंह सन लाल चाँद सन कालू राम ()
723	234//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	हरबंस लाल पुत्र राम चाँद पुत्र कला राम ()
724	234//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	हरबंस लाल सन राम चाँद सन कला राम ()
725	234//17/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	गगनदीप सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र फकीर सिंह ()
726	234//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.2959	जसपाल सिंह सन लाल चाँद सन कालू राम ()
727	234//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.3515	ज्ञान चंद पुत्र राम चंद ()
728	234//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	जागिड़ सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह २३० ५०४८ हिंसा आमिर सिंह पुत्र कर्मा चाँद पुत्र बूटा सिंह १२४४ ५०४८ हिंसा सिंदर सिंह पुत्र फकीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद १५० ५०४८ हिंसा मालक सिंह पुत्र फकीर चाँद पुत्र कर्मा चाँद ३८१ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फकीर सिंह ४६१ १ ३ ५०४८ हिंसा साहिव पुत्र हरनाम

					सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा करनैल सिंह सन हरनाम सिंह सन दीवान सिंह ३९४ १ ३ ५०४८ हिंसा अमर कौर विडो हरनाम ११७ ५०४८ हिंसा नवदीप सिंह सन अमर सिंह सन कर्मा सिंह १४० ५०४८ हिंसा मंजीत कौर व/ओ रंजीत सिंह स/ओ गुरनाम सिंह ४० ५०४८ हिंसा स्वर्णजीत कौर विडो अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १५७ ५०४८ हिंसा गगनदीप सिंह सन अंग्रेज सिंह सन हरनाम सिंह १९७ ५०४८ हिंसा अंग्रेज सिंह सन सिंदर सिंह पुत्र फ़क़ीर सिंह ६३२ १ ३ ५०४८ हिंसा राजवीर सिंह सन मालक सिंह सन फ़क़ीर सिंह ११५ १ ३ ५०४८ हिंसा राज कौर विडो व कवलजीत कौर सरबजीत कौर अमनदीप कौर डी ओ मोहर सिंह स/ओ हरनाम सिंह बी ()
729	234//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	ज्ञान चंद पुत्र राम चंद 17/30 दीवान चंद पुत्र राम चंद 13/30 हिंसा ()
730	234//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.1189	दिवान चाँद सन राम चाँद सन कला राम ()
731	234//23/1/1	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.0303	ज्ञान चाँद सन राम चाँद २० ५४० हिंसा दिवान चाँद सन राम चाँद २० ५४० हिंसा हरबंस लाल सन राम चाँद २० ५४० हिंसा जसपाल सिंह सन लाल चाँद सन कला राम ८ ९ हिंसा ()
732	234//23/1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	ज्ञान चाँद सन राम चाँद २० ५४० हिंसा दिवान चाँद सन राम चाँद २० ५४० हिंसा हरबंस लाल सन राम चाँद २० ५४० हिंसा जसपाल सिंह सन लाल चाँद सन कला राम ८ ९ हिंसा ()
733	234//23/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2529	गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फ़क़ीर सिंह ()
734	234//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.1366	गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह सन फ़क़ीर सिंह ()

735	234//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	हरबंस लाल सन राम चाँद सन कला राम ()
736	235//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	गुरजीत सिंह सन दीदार सिंह सन गोपाल सिंह १७९ १ ४ ८७७ हिंसा अनूप सिंह सन दीदार सिंह सन गोपाल सिंह १७९ १ ४ ८७७ हिंसा लखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह सन तारा सिंह ८० ८७७ हिंसा सुखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह सन तारा सिंह ८० ८७७ हिंसा दरसन सिंह सन केसर सिंह ३५८ १ २ ८७७ हिंसा ()
737	235//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.2655	नरिंदर कौर वाइफ सुखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह १ २ हिज्र नरिंदर कौर वाइफ लखीविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह १ २ हिज्र ()
738	235//6/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	नरिंदर कौर वाइफ सुखविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह १ २ हिज्र नरिंदर कौर वाइफ लखीविंदर सिंह सन निर्मूल सिंह १ २ हिज्र ()
739	257//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	अमृतपाल सिंह सन गुरबचन सिंह २५४ ३ ४ १७५५ हिंसा श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह ४३८ ३ ४ १७५५ हिंसा सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंघ ११८ ३ ४ १७५५ हिंसा अपर सिंह सन गुरचरण सिंह सन सरदारा सिंह २९२ १ २ १७५५ हिंसा सुरजीत कौर विडो गुरचरण सिंह सन सरदारा १४६ १ ४ १७५५ हिज्र बग्गा सिंह सन अजित सिंह ११० १७५५ हिंसा हरजिंदर कौर वाइफ बग्गा सिंह सन अजित सिंह ७४ १७५५ हिंसा भूपिंदर सिंह सन सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंह ३२० १७५५ ()
740	257//15/1	निजी	गैर मुमकिन	0.3768	बग्गा सिंह सन अजित सिंह ७६ ३ ४ १५१ हिंसा हरजीत कौर वाइफ लाभ सिंह सन मुख्तयार सिंह सिंघ ४९ ३ ४ १५१ हिंसा दिलविन्दर कौर सिर्फ कश्मीर सिंह सन भगवान सिंह १८ १५१ अतर बाई विडो लेहना राम व ()

741	257//15/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	अमृतपाल सिंह सन गुरबचन सिंह २५४ ३ ४ १७५५ हिंसा श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह ४३८ ३ ४ १७५५ हिंसा सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंघ ११८ ३ ४ १७५५ हिंसा अपर सिंह सन गुरचरण सिंह सन सरदारा सिंह २९२ १ २ १७५५ हिंसा सुरजीत कौर विडो गुरचरण सिंह सन सरदारा १४६ १ ४ १७५५ हिज बग्गा सिंह सन अजित सिंह ११० १७५५ हिंसा हरजिंदर कौर वाइफ बग्गा सिंह सन अजित सिंह ७४ १७५५ हिंसा भूपिंदर सिंह सन सुखविंदर सिंह सन असरदा सिंह ३२० १७५५ ()
742	257//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2377	अमृतपाल सिंह सन गुरबचन सिंह २५४ ३ ४ १७५५ हिंसा श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह ४३८ ३ ४ १७५५ हिंसा सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंघ ११८ ३ ४ १७५५ हिंसा अपर सिंह सन गुरचरण सिंह सन सरदारा सिंह २९२ १ २ १७५५ हिंसा सुरजीत कौर विडो गुरचरण सिंह सन सरदारा १४६ १ ४ १७५५ हिज बग्गा सिंह सन अजित सिंह ११० १७५५ हिंसा हरजिंदर कौर वाइफ बग्गा सिंह सन अजित सिंह ७४ १७५५ हिंसा भूपिंदर सिंह सन सुखविंदर सिंह सन असरदा सिंह ३२० १७५५ ()
743	257//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0936	श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह सन चंदा सिंह १ २ सन सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंह सन चंदा सिंह १ २ ()
744	257//17/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	अमृत्पाल सिंह पुत्र सुवा सिंह पुत्र पाला सिंह ()
745	257//25/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह सन चंदा सिंह १ २ सन सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंह सन चंदा सिंह १ २ ()
746	257//25/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0329	श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह सन चंदा सिंह १ २ सन सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंह सन चंदा सिंह १ २ ()

747	257//25/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	ठाकर दस सन नायब राज सन राम चाँद १७६ ८७० हिंसा बनारसी लाल सन नायब राज सन राम चाँद १७६ ८७० हिंसा राम कुमार सन लछमन दस ८० ८७० हिंसा अनेक सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र बड सिंघ १४५ ८७० हिंसा सुंदर बाई डॉटर नायब राज २१ ८७० हिंसा सुखविंदर सिंह पुत्र सरदारा सिंह पुत्र चंदा सिंघ १५ १ २ ८७० हिंसा श्रवण सितधुत्र सरदारा सिंह सन ऑफ्र चंदा सिंह १५ १ २ ८७० हिंसा गुरनाम कौर व/ओ स्वर्ण सिंह स/ओ सरदारा सिंह ५८ ८७० हिंसा ()
748	257//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	राम सरूप पुत्र राम चाँद पुत्र बुध राम १ ५ हिंसा ओमप्रकाश पुत्र राम चाँद पुत्र बूढा राम १ ५ हिंसा बालू राम पुत्र राम चाँद पुत्र बूढा राम १ ५ हिंसा राजविंदर कौर वाइफ गगनदीप सिंह सन गुरमुख सिंह २ ५ ()
749	257//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3237	हरभगवान सन कर्मा चाँद सन बुध राम १ ५ हिंसा प्रदीप कुमार सन सुन्दर दस २ ५ हिंसा भीमसेन सन कर्मा चाँद सन बुध राम १ ५ हिंसा भारत लाल पुट श्री कर्मा चाँद सन बुध राम १ ५ हिंसा ()
750	257//5	निजी	गैर मुमकिन	0.0202	अर्जुन दस स/ओ अटामा राम स/ओ मेवा राम २४४५९१ १५४१७३६ हिंसा रणधीर कौर व/ओ जसपाल सिंह स/ओ दर्शन सिंह १०७ १३२३ हिंसा सुरिंदर कौर व/ओ सुखमृतपाल सिंह स/ओ दर्शन सिंह १०७ १३२३ हिंसा सुरजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ दर्शन सिंह १०७ १३२३ हिंसा हरजिंदर कौर व/ओ बग्गा सिंह स/ओ अजित सिंह ८० ८७४ हिंसा हरजीत कौर व/ओ लाभ सिंह स/ओ मुख्त्यार सिंह ८९ २६४६ हिंसा दलविंदर कौर व/ओ कश्मीर सिंह स/ओ नरियन सिंह १५१ २६४६ हिंसा राजवीर सिंह स/ओ मालिक नसिंघ स/ओ फकीर सिंह ८२९ ३५२८ हिंसा ()

751	257//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.2276	अर्जुन दस स/ओ अटामा राम स/ओ मेवा राम २४४५९१ १५४१७३६ हिस्सा रणधीर कौर व/ओ जसपाल सिंह स/ओ दर्शन सिंह १०७ १३२३ हिस्सा सुरिंदर कौर व/ओ सुखमृतपाल सिंह स/ओ दर्शन सिंह १०७ १३२३ हिस्सा सुरजीत कौर व/ओ परमजीत सिंह स/ओ दर्शन सिंह १०७ १३२३ हिस्सा हरजिंदर कौर व/ओ बग्गा सिंह स/ओ अजित सिंह ८० ८७४ हिस्सा हरजीत कौर व/ओ लाभ सिंह स/ओ मुख्त्यार सिंह ८९ २६४६ हिस्सा दलविंदर कौर व/ओ कश्मीर सिंह स/ओ नारयन सिंह १५१ २६४६ हिस्सा राजवीर सिंह स/ओ मालिक नसिंघ स/ओ फकीर सिंह ८२९ ३५२८ हिस्सा ()
752	257//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	अमृतपाल सिंह सन गुरबचन सिंह २५४ ३ ४ १७५५ हिंसा श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह ४३८ ३ ४ १७५५ हिंसा सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंघ ११८ ३ ४ १७५५ हिंसा अपर सिंह सन गुरचरण सिंह सन सरदारा सिंह २९२ १ २ १७५५ हिंसा सुरजीत कौर विडो गुरचरण सिंह सन सरदारा १४६ १ ४ १७५५ हिंज बग्गा सिंह सन अजित सिंह ११० १७५५ हिस्सा हरजिंदर कौर वाइफ बग्गा सिंह सन अजित सिंह ७४ १७५५ हिस्सा भूपिंदर सिंह सन सुखविंदर सिंह सन असरदा सिंह ३२० १७५५ ()
753	257//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	अमृतपाल सिंह सन गुरबचन सिंह २५४ ३ ४ १७५५ हिंसा श्रवण सिंह सन सरदारा सिंह ४३८ ३ ४ १७५५ हिंसा सुखविंदर सिंह सन सरदारा सिंघ ११८ ३ ४ १७५५ हिंसा अपर सिंह सन गुरचरण सिंह सन सरदारा सिंह २९२ १ २ १७५५ हिंसा सुरजीत कौर विडो गुरचरण सिंह सन सरदारा १४६ १ ४ १७५५ हिंज बग्गा सिंह सन अजित सिंह ११० १७५५ हिस्सा हरजिंदर कौर वाइफ बग्गा सिंह सन अजित सिंह ७४ १७५५ हिस्सा भूपिंदर सिंह सन सुखविंदर सिंह सन असरदा सिंह

					३२० १७५५ ()
754	258//11/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	हरजीत कौर वाइफ लाभ सिंह सन मुख्तयार सिंह ()
755	258//11/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	बग्गा सिंह सन अजित सिंह ४६ १८९ हिस्सा हरजीत कौर वाइफ लाभ सिंह सन मुख्तयार सिंह ६५ २ ३ २५२ हिस्सा दलविंदर कौर व/ओ कश्मीर सिंह स/ओ नरेन सिंह ५७ २५२ कैला व/ओ नफे सिंह स/ओ राम शरन १७ १८९ हिस्सा राजद व/ओ महिंदर सिंह स/ओ राम शरन १७ १८९ हिस्सा कमला व/ओ सातत्यवान स/ओ राम शरन १७ १८९ हिस्सा ()
756	258//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	कैला व/ओ नफे सिंह स/ओ राम शरन १ ३ हिस्सा राजद व/ओ महिंदर सिंह स/ओ राम शरन १ ३ हिस्सा कमला व/ओ सातत्यवान स/ओ राम शरन १ ३ हिस्सा ()
757	258//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.2858	कैला व/ओ नफे सिंह स/ओ राम शरन १ ३ हिस्सा राजद व/ओ महिंदर सिंह स/ओ राम शरन १ ३ हिस्सा कमला व/ओ सातत्यवान स/ओ राम शरन १ ३ हिस्सा ()
758	258//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया राम बी बी ()
759	258//22/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1391	कैला व/ओ नफे सिंह स/ओ राम शरन २६४ १६५० हिस्सा राजद व/ओ महिंदर सिंह स/ओ राम शरन २६४ १६५० हिस्सा कमला व/ओ सातत्यवान स/ओ राम शरन २६४ १६५० हिस्सा रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया राम बी बी २८६ ५५० हिस्सा ()
760	265//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह स/ओ दया सिंह बी बी हिस्सा ()

761	265//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया राम बी बी ()
762	265//12/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया राम बी बी ()
763	265//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	सुरजीत कुमार स/ओ परलाद राम स/ओ फतेह चाँद ९ २९८ हिस्सा कुलवंत कौर विडो राम लाल स/ओ फतेह चाँद ९ २९८ हिस्सा भीम साइन स/ओ फतेह चाँद ९ २९८ हिस्सा चरणजीत कौर विडो व रुपिंदर सिंह करमजीत सिंह मंगल सिंह स/ओ फकीर सिंह स/ओ सिंगार सिंह ८४ १ ४ ५९६ व नीज रेहान जसवीर सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह ८४ ५९६ हिस्सा शाम लाल स/ओ फतेह चाँद स/ओ लाला राम १०२ ५९६ हिस्सा चौधरी राम स/ओ फतेह चाँद स/ओ लाला राम १८ ५९६ हिस्सा शमो बाई डी ओ फतेह चाँद स/ओ लाला राम १ ५९६ हिस्सा कश्मीर सिंह बलवीर सिंह अमरीक सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी बी १०११ २३८४ हिस्सा ()
764	265//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.4021	रमेश कुमार .ए दीप चाँद . वरिंदर कुमार पुत्र नछत्तर सिंह पुत्र दिया राम व. व. ()
765	265//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	सुरजीत कुमार स/ओ परलाद राम स/ओ फतेह चाँद ९ २९८ हिस्सा कुलवंत कौर विडो राम लाल स/ओ फतेह चाँद ९ २९८ हिस्सा भीम साइन स/ओ फतेह चाँद ९ २९८ हिस्सा चरणजीत कौर विडो व रुपिंदर सिंह करमजीत सिंह मंगल सिंह स/ओ फकीर सिंह स/ओ सिंगार सिंह ८४ १ ४ ५९६ व नीज रेहान जसवीर सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह ८४ ५९६ हिस्सा शाम लाल स/ओ फतेह चाँद स/ओ लाला राम १०२ ५९६ हिस्सा चौधरी राम स/ओ फतेह चाँद स/ओ लाला राम १८ ५९६ हिस्सा शमो

					बाई डी ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १ ५९६ हिस्सा कश्मीर सिंह बलवीर सिंह अमरीक सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी बी १०११ २३८४ हिस्सा ()
766	265//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	सुरजीत कुमार स/ओ परलाद राम स/ओ फ़तेह चाँद ९ २९८ हिस्सा कुलवंत कौर विडो राम लाल स/ओ फ़तेह चाँद ९ २९८ हिस्सा भीम साइन स/ओ फ़तेह चाँद ९ २९८ हिस्सा चरणजीत कौर विडो व रुपिंदर सिंह करमजीत सिंह मंगल सिंह स/ओ फ़कीर सिंह स/ओ सिंगार सिंह ८४ १ ४ ५९६ व नीज रेहान जसवीर सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह ८४ ५९६ हिस्सा शाम लाल स/ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १०२ ५९६ हिस्सा चौधरी राम स/ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १८ ५९६ हिस्सा शमो बाई डी ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १ ५९६ हिस्सा कश्मीर सिंह बलवीर सिंह अमरीक सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी बी १०११ २३८४ हिस्सा ()
767	265//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	सुरजीत कुमार स/ओ परलाद राम स/ओ फ़तेह चाँद ९ २९८ हिस्सा कुलवंत कौर विडो राम लाल स/ओ फ़तेह चाँद ९ २९८ हिस्सा भीम साइन स/ओ फ़तेह चाँद ९ २९८ हिस्सा चरणजीत कौर विडो व रुपिंदर सिंह करमजीत सिंह मंगल सिंह स/ओ फ़कीर सिंह स/ओ सिंगार सिंह ८४ १ ४ ५९६ व नीज रेहान जसवीर सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह ८४ ५९६ हिस्सा शाम लाल स/ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १०२ ५९६ हिस्सा चौधरी राम स/ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १८ ५९६ हिस्सा शमो बाई डी ओ फ़तेह चाँद स/ओ लाला राम १ ५९६ हिस्सा कश्मीर सिंह बलवीर सिंह अमरीक सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी बी १०११ २३८४ हिस्सा ()
768	265//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3111	सुरजीत कुमार पुत्र परलाद राम पुत्र

					फ़तेह चाँद 9/298 हिस्सा कुलवंत कौर विद्वा राम लाल पुत्र फ़तेह चाँद 9/298 हिस्सा भीम सैनपुत्र पुत्र फ़तेह चाँद 9/298 हिस्सा चरणजीत कौर विद्वा व रुपिंदर सिंह एकरमजीत सिंह मंगल सिंह पुत्र फ़कीर सिंह पुत्र सिंगार सिंह 84/1/4/596 व नीज रेहान जसवीर सिंह पुत्र पियारा सिंह पुत्र ईशर सिंह 84/596 हिस्सा णशाम लाल पुत्र फ़तेह चाँद पुत्र लाला राम 102/596 हिस्सा चौधरी राम पुत्र फ़तेह चाँद पुत्र लाला राम 18/596 हिस्सा शमो बाई पुत्री फ़तेह चाँद पुत्र लाला राम 1/596 हिस्सा कश्मीर सिंह .बलवीर सिंह अमरीक सिंह पुत्र शिंगारा सिंह व रू व रू 1011/2384 हिस्सा ()
769	265//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	कश्मीर सिंह अमरीक सिंह बलवीर सिंह स/ओ शिंगारा सिंह स/ओ लाभ सिंह २१ ३० हिस्सा चरणजीत लकौर विद्वा व रुपिंदर सिंह करमजीत सिंह मंगल सिंह स/ओ फ़कीर सिंह स/ओ शिंगारा सिंह ७ ३० प्रीतम कौर चरणजीत कौर डी ओ शिंगारा सिंह स/ओ लाभ सिंह बी ()
770	265//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3768	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया राम बी बी ()
771	265//23/1	निजी	गैर मुमकिन	0.0101	जगसीर सिंह पुत्र सर्पूण सिंह पुत्र ईकवाल सिंह 1/4 हिसा, अवतार कौर पुत्री बख्शीश सिंह 1/8 हिसा, कुलजीत कौर पुत्री बख्शीश सिंह 1/8 हिसा, सुचा सिंह पुत्र बरकत सिंह 1/8 हिसा, गुरनाम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 3/40 हिसा, रमेश कौर विधवा ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, जसविंदर कौर पुत्री ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, वंअत कौर पुत्र ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, ठरिंदर कौर पुत्री ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, बलकार सिंह पुत्र अमर सिंह 1/4 हिसा ()
772	265//23/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	कश्मीर सिंह सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा बलवीर सिंह सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ

					सिंह ७/३० हिस्सा अमरीक सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा चरणजीत कौर विद्वा व रुपिंदर सिंह एकरमजीत सिंह मंगल सिंह पुत्र फ़कीर सिंह पुत्र सिंगार सिंह ७/३० हिस्सा प्रीतम कौर एचरणजीत कौर पुत्रियां शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह व. व.रू २/३० हिस्सा (0)
773	265//24/1	निजी	गैर मुमकिन	0.0152	जगसीर सिंह पुत्र संपूण सिंह पुत्र ईकवाल सिंह 1/4 हिसा, अवतार कौर पुत्री बख्शीश सिंह 1/8 हिसा, कुलजीत कौर पुत्री बख्शीश सिंह 1/8 हिसा, सुचा सिंह पुत्र वरकत सिंह 1/8 हिसा, गुरनाम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 3/40 हिसा, रमेश कौर विधवा ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, जसविंदर कौर पुत्री ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, बेअत कौर पुत्र ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, ठरिंदर कौर पुत्री ज्ञान सिंह 1/80 हिसा, बलकार सिंह पुत्र अमर सिंह 1/4 हिसा (0)
774	265//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3819	कश्मीर सिंह सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा बलवीर सिंह सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा अमरीक सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा चरणजीत कौर विद्वा व रुपिंदर सिंह एकरमजीत सिंह मंगल सिंह पुत्र फ़कीर सिंह पुत्र सिंगार सिंह ७/३० हिस्सा प्रीतम कौर एचरणजीत कौर पुत्रियां शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह व. व.रू २/३० हिस्सा (0)
775	265//25/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	कश्मीर सिंह सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा बलवीर सिंह सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा अमरीक सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह ७/३० हिस्सा चरणजीत कौर विद्वा व रुपिंदर सिंह एकरमजीत सिंह मंगल सिंह पुत्र फ़कीर सिंह पुत्र सिंगार सिंह ७/३० हिस्सा प्रीतम कौर एचरणजीत कौर पुत्रियां शिंगारा सिंह पुत्र लाभ सिंह व. व.रू २/३० हिस्सा

					()
776	265//25/2	निजी	सिंचित (नाही)	0.0658	करनप्रीत सिंह शरणप्रीत सिंह स ० अमरीक सिंह स/ओ ईशर सिंह २८ १०८ हिस्सा सुरजीत सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह ८ १०८ हिस्सा कुलदीप कौर विद्वा व खुशप्रीत सिंह स/ओ जसविंदर सिंह स/ओ पियारा सिंह ७२ १०८ हिस्सा ()
777	265//3	निजी	सिंचित (नाही)	0.0354	कैला व/ओ नफे सिंह स/ओ राम शरन व राजद व/ओ महिंदर सिंह स/ओ राम शरन व कमला व/ओ सातत्यवान स/ओ राम शरन ७४ १६० बी बी हिस्सा रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया राम बी बी ८६ १६० हिस्सा ()
778	265//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया सिंह बी बी ()
779	265//8/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया सिंह बी बी ()
780	265//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3566	रमेश कुमार डीप चाँद वरिंदर कुमार सन नछत्तर सिंह सन दिया सिंह बी बी ()
781	287//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	जगसीर सिंह सन सम्पूर्ण सिंह सन इकबाल सिंह ()
782	287//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जगसीर सिंह सन सम्पूर्ण सिंह सन इकबाल सिंह ()
783	287//4/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	चरणजीत कौर विद्वा व रुपिंदर सिंह एकरमजीत सिंह मंगल सिंह पुत्र फ़कीर सिंह पुत्र सिंगार सिंह 94/5/6/748 हिस्सा कश्मीर सिंह बलवीर सिंह अमरीक सिंह पुत्र शिंगारा सिंह व रू व रू 523/1/2/748 हिस्सा प्रीतम कौर एचरणजीत कौर पुत्री शिंगारा सिंह पुत्र फ़कीर सिंह व. व. हिस्सा

					49/2/3/748 भूपिंदर सिंह पुत्र बखसीस सिंह पुत्र इक्वाल सिंह 80/748 हिस्सा ()
784	287//4/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.22	चरणजीत कौर विद्वा व रुपिंदर सिंह एकरमजीत सिंह मंगल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सिंगार सिंह 94/5/6/748 हिस्सा कश्मीर सिंह बलवीर सिंह अमरीक सिंह पुत्र शिंगारा सिंह व रू व रू 523/1/2/748 हिस्सा प्रीतम कौर एचरणजीत कौर पुत्री शिंगारा सिंह पुत्र फकीर सिंह व. व. हिस्सा 49/2/3/748 भूपिंदर सिंह पुत्र बखसीस सिंह पुत्र इक्वाल सिंह 80/748 हिस्सा ()
785	287//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.3895	सवर्ण कौर विद्वा व मनिंदर सिंह सुखविंदर सिंह पुत्र व सरबजीत कौर डी ओ सोचा सिंह स/ओ बरकत सिंह बी बी ४ ५ हिस्सा हरप्रीत कौर विद्वा व हरगन सिंह स/ओ जसविंदर सिंह स/ओ सुद्धा सिंह बी बी १ ५ हिस्सा ()
786	287//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3591	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
787	287//7/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
788	288//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
789	288//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2782	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इक्वाल सिंह १२००

					३६४६ हिस्सा ()
790	288//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
791	288//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
792	288//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	विक्रमजीत सिंह सन केवल सिंह सन दलीप सिंह ()
793	288//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.3566	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
794	288//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.2858	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
795	288//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
796	288//22/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2377	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा ()
797	288//22/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	भूपिंदर सिंह स/ओ बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विडो बखसीस सिंह स/ओ इकबाल सिंह १२०० ३६४६ हिस्सा

					()
798	288//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	सुखदीप कौर पत्नी विक्रारंजित सिंह स/ओ केवल सिंह ()
799	292//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	दविंदर सिंह स सन समपरण सिंह २ १६० हिस्सा हरजीत सिंह स/ओ तजिंदर सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह ४० १ २ १६० हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंह ११७ १ २ १६० हिस्सा ()
800	292//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.129	कुलदीप सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह ()
801	293//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	करनप्रीत सिंह शरणप्रीत सिंह स ० अमरीक सिंह स/ओ ईशर सिंह २० १६० हिस्सा सुरजीत सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह १४० १६० हिस्सा ()
802	293//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	बलजीत कौर विद्वा व जतिंदर सिंह स/ओ सुरजीत सिंघस्य ो बखसीस सिंह बी. बी. हिस्सा ()
803	293//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	बलजीत कौर विद्वा व जतिंदर सिंह स/ओ सुरजीत सिंघस्य ो बखसीस सिंह बी. बी. हिस्सा ()
804	293//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1669	बलजीत कौर विद्वा व जतिंदर सिंह स/ओ सुरजीत सिंघस्य ो बखसीस सिंह बी. बी. हिस्सा ()
805	293//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	दविंदर सिंह स सन समपरण सिंह ()
806	293//17/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1619	बलजीत कौर विद्वा व जतिंदर सिंह स/ओ सुरजीत सिंघस्य ो बखसीस सिंह बी. बी. हिस्सा ()
807	293//17/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	दविंदर सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह ()
808	293//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1973	जसवीर सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र ईसार सिंह 126/632 हिस्सा सुरजीत सिंह पुत्र पियारा सिंह पुत्र ईशर सिंह 94/632 अमरीक सिंह सिंह पुत्र पियारा सिंह पुत्र ईशर सिंह 126/632 हिस्सा कुलदीप कौर विद्वा

					जसविंदर सिंह पुत्र पियारा सिंह 127/632 जिससे नवजीत कौर तिरपटजीत कौर एरणजीत कौर पुत्रियन बालवीर सिंह पुत्र पियारा सिंह 159/632 ()
809	293//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	दविंदर सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह ()
810	293//25	निजी	सिंचित(चाही)	0.3237	दविंदर सिंह स सन समपरण सिंह १३२ १३८हिस्सा कुलदीप सिंह स/ओ सम्पूर्ण सिंघ् १३८ हिस्सा ()
811	293//3	निजी	सिंचित(चाही)	0.3945	जसवीर सिंह स/ओ प्यारा सिंह सन ईसार सिंह १२६ ६३२ हिस्सा सुरजीत सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह ९४ ६३२ अमरीक सिंह सिंह स/ओ पियारा सिंह स/ओ ईशर सिंह १२६ ६३२ हिस्सा कुलदीप कौर विद्वा जसविंदर सिंह स/ओ पियारा सिंह १२७ ६३२ जिससे नवजीत कौर तिरपटजीत कौर रणजीत कौर पुत्रियन बलवीर सिंह स/ओ पियारा सिंह १५९ ६३२ ()
812	293//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	सुखविंदर कौर विद्वा भगवंत सिंघ् १ ३ हिस्सा परगट सिंह सुरिंदर सिंह स/ओ भगवंत सिंह स/ओ ईशर सिंह वी वी २ ३ हिस्सा ()
813	293//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सुखविंदर कौर विद्वा भगवंत सिंघ् १ ३ हिस्सा परगट सिंह सुरिंदर सिंह स/ओ भगवंत सिंह स/ओ ईशर सिंह वी वी २ ३ हिस्सा ()
814	293//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.306	बल्जीत कौर विद्वा व जतिंदर सिंह पुत्र सुर्जीत सिंह पुत्र बख्सीश सिंह व. ब. हिस्स ()
815	293//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.3414	अमरीक सिंह पुत्र पियारा सिंह पुत्र ईशर सिंह ()
816	293//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	भूपिंदर सिंह सन बख्सीस सिंह सन इक्वाल सिंह २४४६ ३६४६ हिस्सा अवतार कौर विद्वा बख्सीस सिंह स/ओ िक्वाल सिंह १२०० ३६४६

					()
817	346	सरकारी(पंजाब सरकार)	गैर मुमकिन	0.1846	पंजाब सरकार मक्कूज नएहर वन विभाग ()
818	36//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह व टहल सिंह दीदार सिंह मुख्त्यार सिंह स/ओ जीत सिंहग: बी बी १०९३ ११९३ हिंसा मेजर सिंह स/ओ गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह २५ ११०३ हिस्सा कवलप्रीत कौर व/ओ दीदार सिंह २५ ११०३ हिस्सा सरबजीत कौर व/ओ मुख्त्यार सिंह २५ ११९३ हिस्सा बलवंत सिंह स/ओ टहल सिंह २५ ११९३ हिस्सा ()
819	36//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	गुरभेज सिंह हरभेज सिंह स/ओ मंजीत सिंह स/ओ करतार सिंह १ ३ हिस्सा मनिदर सिंह स/ओ दर्शन सिंह स/ओ करतार सिंह १ ३ हिस्सा बचन सिंह स/ओ करतार सिंह १ ३ हिस्सा ()
820	36//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	गुरदीप सिंह राहुल कुमार स/ओ ईश्वर सिंह स/ओ रबी राम बी बी १ ३ हिस्सा हरदीप सिंह मिनीश कुमार स/ओ भीम सिंह स/ओ रबी राम १ ३ हिस्सा नीलम रानी विद्या बनीत चौहान स/ओ व अंजलि डी ओ दर्शन सिंह स/ओ रबी राम १ ३ हिस्सा ()
821	36//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	बालकर सिंह समशेर सिंह सन मनसा सिंह सन मोहर सिंह ()
822	36//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	बालकर सिंह समशेर सिंह सन मनसा सिंह सन मोहर सिंह ()
823	36//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.2327	गुरदीप सिंह राहुल कुमार स/ओ ईश्वर सिंह स/ओ रबी राम बी बी १ ३ हिस्सा हरदीप सिंह मिनीश कुमार स/ओ भीम सिंह स/ओ रबी राम १ ३ हिस्सा नीलम रानी विद्या व बनीत चौहान स/ओ व अंजलि डी ओ दर्शन सिंह स/ओ रबी राम १ ३ हिस्सा ()
824	37//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	सूखा सिंह ए. सुखविंदर सिंह . निशान सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र

					धरा सिंह ()
825	37//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.263	गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह व टहल सिंह दीदार सिंह मुख्त्यार सिंह स/ओ जीत सिंहगः बी बी १०९३ ११९३ हिंसा मेजर सिंह स/ओ गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह २५ ११०३ हिस्सा कवलप्रीत कौर व/ओ दीदार सिंह २५ ११०३ हिस्सा सरवजीत कौर व/ओ मुख्त्यार सिंह २५ ११९३ हिस्सा बलवंत सिंह स/ओ टहल सिंह २५ ११९३ हिस्सा ()
826	37//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	सिमरजीत कौर व/ओ माँगा सिंह स/ओ मिल्खा सिंह १०१ ६०८ अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह ३८९ ६००४ हिस्सा बालकर सिंह सन मनसा सिंह १६१ १५०१ हिंसा सुरिंदर सिंह जोगिन्दर सिंह स/ओ माँगा सिंह सन मिल्खा सिंह ६१ १२१६ हिंसा शमशेर सिंह सन मनसा सिंह सन मोहर सिंह १३४८५ २४०१६ हिस्सा ()
827	37//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	सिमरजीत कौर व/ओ माँगा सिंह स/ओ मिल्खा सिंह १०१ ६०८ अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह ३८९ ६००४ हिस्सा बालकर सिंह सन मनसा सिंह १६१ १५०१ हिंसा सुरिंदर सिंह जोगिन्दर सिंह स/ओ माँगा सिंह सन मिल्खा सिंह ६१ १२१६ हिंसा शमशेर सिंह सन मनसा सिंह सन मोहर सिंह १३४८५ २४०१६ हिस्सा ()
828	37//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1947	पालमावणीत सिंह सन किरपाल सिंह सन धरा सिंह १ २ हिंसा अमांपुणित सिंह सन किरपाल सिंह सन धरा सिंह १ २ हिंसा ()
829	37//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3945	पालमावणीत सिंह सन किरपाल सिंह सन धरा सिंह १ २ हिंसा अमांपुणित सिंह सन किरपाल सिंह सन धरा सिंह १ २ हिंसा ()
830	37//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह व टहल सिंह दीदार सिंह मुख्त्यार सिंह स/ओ

					जीत सिंहगः बी बी १०९३ ११९३ हिंसा मेजर सिंह स/ओ गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह २५ ११०३ हिस्सा कवलप्रीत कौर व/ओ दीदार सिंह २५ ११०३ हिस्सा सरवजीत कौर व/ओ मुख्त्यार सिंह २५ ११९३ हिस्सा बलवंत सिंह स/ओ टहल सिंह २५ ११९३ हिस्सा ()
831	37//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.2959	गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह व टहल सिंह दीदार सिंह मुख्त्यार सिंह स/ओ जीत सिंहगः बी बी १०९३ ११९३ हिंसा मेजर सिंह स/ओ गुलज़ार सिंह सन जीत सिंह २५ ११०३ हिस्सा कवलप्रीत कौर व/ओ दीदार सिंह २५ ११०३ हिस्सा सरवजीत कौर व/ओ मुख्त्यार सिंह २५ ११९३ हिस्सा बलवंत सिंह स/ओ टहल सिंह २५ ११९३ हिस्सा ()
832	37//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	सूखा सिंह सुखविंदर सिंह निशान सिंह सन महिंदर सिंह सन धरा सिंह ()
833	37//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	पालमावणीत सिंह सन किरपाल सिंह सन धरा सिंह १ २ हिंसा अमांपुणित सिंह सन किरपाल सिंह सन धरा सिंह १ २ हिंसा ()
834	417	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0936	ग्राम पंचायत देह शरेआम ()
835	42//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.177	बालकर सिंह .समशेर सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मोहर सिंह ()
836	42//10/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	गुरभेज सिंह .गुलाव सिंह .साहिव सिंह पुत्र गेहल सिंह 1/2हिस्सा माँगा सिंह पुत्र मिल्खा सिंह1/2 व. व. हिस्सा ()
837	42//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.0885	सुरजीत सिंह स/ओ दीवान सिंह स/ओ खुशाल सिंह १ २ हिस्सा सुखचैन सिंह स/ओ जागिड सिंह स/ओ सांता सिंह १ २ हिस्सा ()
838	42//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1998	बालकर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह १ ३ हिस्सा शमशेर सिंह अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह

					स/ओ मेहर सिंह २ ३ हिस्सा ()
839	42//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	साहिब सिंह गुलाब सिंह गुरतेज सिंह स/ओ गेहल सिंह स/ओ मिलखा सिंह १ २ हिस्सा माँगा सिंह स/ओ मिलखा सिंह १ २ हिस्सा ()
840	42//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1669	बालकर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह १ ३ हिस्सा शमशेर सिंह अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह २ ३ हिस्सा ()
841	42//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	अमरजीत कौर वाइफ समशेर सिंह सन मनसा सिंह १ २ हिस्सा हरदीप कौर वाइफ अवतार सिंह सन मनसा सिंह १ २ हिस्सा ()
842	42//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.3794	अमरजीत कौर वाइफ समशेर सिंह सन मनसा सिंघ १० १६० हिस्सा हरदीप कौर वाइफ अवतार सिंह सन मनसा सिंघ १० १६० हिस्सा बालकर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह ४५०८० ११३७६० हिस्सा शमशेर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह ५४४६० २२७५२० हिस्सा अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह १३२११८० १६६०८९६० हिस्सा गुरविंदर सिंह स/ओ अवतार सिंह ५६०० ३४८८० हिस्सा ()
843	42//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	गुरभेज सिंह गुलाब सिंह साहिब सिंह स/ओ गेहल सिंह स/ओ मिलखा सिंह १ ३ हिस्सा माँगा सिंह बल्ला सिंह स/ओ मिलखा सिंह २ ३ बी बी हिस्सा ()
844	42//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3996	बालकर सिंह समशेर सिंह सन मनसा सिंह सन मोहर सिंह ()
845	42//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.0278	गुरनाम सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ लाख सिंह १ ६ हिस्सा गुरमीत सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ लाख सिंह १ ६ हिस्सा बूटा सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ लाख सिंह १ ६ हिस्सा अवतार सिंह स/ओ

					लाख सिंह ६६ १ २ ७७३ हिस्सा दविंदर सिंह स/ओ अवतारसिंह स/ओ लाख सिंह ३२० ७७३ हिस्सा ()
846	42//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.3692	अमरजीत कौर वाइफ समशेर सिंह सन मनसा सिंह १ २ हिस्सा हरदीप कौर वाइफ अवतार सिंह सन मनसा सिंह १ २ हिस्सा ()
847	42//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.258	बालकर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह ३२२ ७११ हिस्सा शमशेर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ पियारा सिंह ३८९ १४२२ हिस्सा अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह ९४३७ १०३८०६ हिस्सा गुरविंदर सिंह स/ओ अवतार सिंह स/ओ मांसा सिंह ४० २१९ हिस्सा ()
848	42//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	भजन राम सुखदेव राम स/ओ बाँट राम पुत्र रामजीलाल १ ४ हिंसा संत राम बेदी राम पुत्र रामजीलाल पुत्र फमान राम १ २ हिंसा भगवानी डेवी व/ओ जगात राम पुत्र रामजीलाल १ १२ हिंसा लखविंदर सिंह राज कुमार स/ओ जगत सिंह स/ओ राम जी लाल २ १२ हिंसा ()
849	42//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	भजन राम सुखदेव राम स/ओ बाँट राम पुत्र रामजीलाल १ ४ हिंसा संत राम बेदी राम पुत्र रामजीलाल पुत्र फमान राम १ २ हिंसा भगवानी डेवी व/ओ जगात राम पुत्र रामजीलाल १ १२ हिंसा लखविंदर सिंह राज कुमार स/ओ जगत सिंह स/ओ राम जी लाल २ १२ हिंसा ()
850	42//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	बालकर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह ३२२ ७११ हिस्सा शमशेर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ पियारा सिंह ३८९ १४२२ हिस्सा अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह ९४३७ १०३८०६ हिस्सा गुरविंदर सिंह स/ओ अवतार सिंह स/ओ मांसा सिंह ४० २१९ हिस्सा दर ३४ १४२ भजन राम सुखदेव राम स/ओ बाँट राम पुत्र रामजीलाल १ ४ हिंसा संत राम बेदी

					राम पुत्र रामजीलाल पुत्र फमान राम १ २ हिंसा भगवानी डेवी व/ओ जगत राम पुत्र रामजीलाल १ १२ हिंसा लखविंदर सिंह राज कुमार स/ओ जगत सिंह स/ओ राम जी लाल २ १२ हिंसा दर ७३ १४२ हिंसा वालकर सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह १ ३ हिंसा शमशेर सिंह अवतार सिंह स/ओ मनसा सिंह स/ओ मेहर सिंह २ ३ हिंसा दार४० १४२ ()
851	42//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.2959	सुरजीत सिंह स/ओ दीवान सिंह स/ओ दीवान सिंह स/ओ खुशाल सिंह १ २ हिंसा सुखचैन सिंह स/ओ जांगिड़ सिंह स/ओ सांता सिंह १ २ हिंसा ()
852	61//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	सुरजीत कौर विद्वा व दलजीत कौर रुपिंदर कौर डी ओ कपूर सिंह स/ओ दीवान सिंह बी ()
853	61//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3768	दर्शन सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा वाज सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह ५९ ३२८ हिंसा पलविंदर सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा निशान सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा करनैल सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा दार३६ १५६ हिंसा जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह स/ओ व दलेर सिंह स/ओ गुरनाम सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी ()
854	61//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.1922	दर्शन सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा वाज सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह ५९ ३२८ हिंसा पलविंदर सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा निशान सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा करनैल सिंह स/ओ फक्रीर सिंह स/ओ सज्जन सिंह २६९ १३१२ हिंसा दर २४ १६० हिंसा

					सुरजीत कौर विद्वा व दलजीत कौर रुपिंदर कौर डी ओ कपूर सिंह स/ओ दीवान सिंह बी ()
855	61//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	सिंदर कौर व/ओ सतनाम सिंह ६० २४२ हिस्सा नरिंदर सिंह कुलदीप सिंह गुरचरण सिंह मलूक सिंह साहिब सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ सज्जन सिंह बी ()
856	61//19/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1846	सिंदर कौर व/ओ सतनाम सिंह ६० २४२ हिस्सा नरिंदर सिंह कुलदीप सिंह गुरचरण सिंह मलूक सिंह साहिब सिंह स/ओ जांगिड सिंह स/ओ सज्जन सिंह बी ()
857	61//19/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह स/ओ व दलेर सिंह स/ओ गुरनाम सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी ()
858	61//20/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह स/ओ व दलेर सिंह स/ओ गुरनाम सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी ()
859	61//20/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
860	61//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह स/ओ व दलेर सिंह स/ओ गुरनाम सिंह स/ओ शिंगारा सिंह बी ()
861	61//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.3085	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
862	61//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह

					पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
863	61//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	सुरजीत कौर विद्वा व दलजीत कौर .रुपिंदर कौर पुत्री कपूर सिंह पुत्र दीवान सिंह व. ब. 23/4/10/899 हिस्सा गुरजिंदर सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र दीवान सिंह 164/8/10/899 दर्शन सिंह पुत्र दीवान सिंह पुत्र चंदा सिंह 178/2/10/899 हिस्सा जरनैल सिंह पुत्र दीवान सिंह पुत्र चंदा सिंह 178/2/10/899 गुरवंस सिंह पुत्र दीवान सिंह पुत्र चंदा सिंह 188/2/10/899 हिस्सा कुलवंत कौर विद्वा माखन सिंह पुत्र दीवान सिंह 27/899 हिस्सा सुखचैन सिंह पुत्र माखन सिंह पुत्र दीवान सिंह 42/6/10/899 हिस्सा कंवलनारें सिंह पुत्र माखन सिंह पुत्र दीवान सिंह 42/6/10/899 हिस्सा पलविंदर कौर पुत्री माखन सिंह पुत्र दीवान सिंह 27/899 हिस्सा सरबजीत कौर पुत्री माखन सिंह पुत्र दीवान सिंह 27/899 ीपेे ()
864	62//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	बालकर सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मेहर सिंह 322/711 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र पियरा सिंह 389/1422 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मेहर सिंह 9437/103806 हिस्सा गुरविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मनसा सिंह 40?219 हिस्सा ()
865	62//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.3085	बालकर सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मेहर सिंह 322/711 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र पियरा सिंह 389/1422 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मेहर सिंह 9437/103806 हिस्सा गुरविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मनसा सिंह 40?219 हिस्सा ()
866	62//7/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	बालकर सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मेहर सिंह 322/711 हिस्सा शमशेर

					सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र पियरा सिंह 389/1422 हिस्सा अवतार सिंह पुत्र मनसा सिंह पुत्र मेहर सिंह 9437/103806 हिस्सा गुरविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मनसा सिंह 40?219 हिस्सा ()
867	73//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 1/2 सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहद्र सिंह 1/2 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा भुपिंदर सिंह पुत्र निर्वैर सिंह पुत्र प्रितम सिंह 84/160 हिस्सा ()
868	73//14/1	निजी	सिंचित(चाही)	0.0835	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा भुपिंदर सिंह पुत्र निर्वैर सिंह पुत्र प्रितम सिंह 21/40 हिस्सा ()
869	73//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2529	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह

					162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा (0)
870	73//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.2175	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा (0)
871	73//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह

					सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
872	73//17/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
873	73//17/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	भुपिंदर सिंह पुत्र निरवैर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह ()
874	73//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1265	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
875	73//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप

					<p>सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिंसा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिंसा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिंसा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिंसा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिंसा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिंसा</p> <p>()</p>
876	73//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	<p>सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिंसा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिंसा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिंसा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिंसा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिंसा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिंसा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिंसा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिंसा</p> <p>()</p>
877	73//26	निजी	सिंचित(चाही)	0.0809	<p>केहर सिंह पुत्र निहाल सिंह</p>

					()
878	73//3/1	निजी	सिंचित(चाही)	0.3035	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
879	73//3/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	ग्राम पंचायत देह शरेआम ()
880	73//7/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1922	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
881	73//7/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947 हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
882	73//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.2832	जतिंदर कौर विद्वा व अरमान सिंह पुत्र व दलेर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 813/1/2/1947

					हिस्सा सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 480/1947 हिस्सा सतनाम सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र बहादर सिंह 653/1/2/1947 हिस्सा ()
883	74/20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0531	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
884	74/21	निजी	सिंचित (चाही)	0.2858	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह

					158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
885	74/22/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जसवंत सिंह पुत्र मलूक सिंह पुत्र कर्तार सिंह 1/3 हिस्सा दविंदर कौर मलूक सिंह पुत्र कर्तार सिंह 1/3 हिस्सा राजवंत कौर पुत्री मलूक सिंह पुत्र कर्तार सिंह 41/924 हिस्सा सुखिंदर कौर पत्नी शेर सिंह पुत्र संता सिंह 89/308 हिस्सा ()
886	92//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा सहिब सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
887	92//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2453	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिस्सा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन

					<p>सिंह 170/7/10/3336 हिंसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिंसा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिंसा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिंसा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिंसा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिंसा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिंसा ()</p>
888	92//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	<p>सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिंसा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिंसा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिंसा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिंसा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिंसा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिंसा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिंसा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिंसा ()</p>
889	92//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.3794	<p>सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिंसा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 429/2/10/3336 हिंसा कुल्दीप</p>

					सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा गुर्चरन सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिंसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिंसा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिंसा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिंसा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिंसा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिंसा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिंसा नुम्बेर दबल जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 146/711 हिंसा, अमरजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिंसा, मनजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिंसा मंजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिंसा ()
890	92//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 146/711 हिंसा, अमरजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिंसा, मनजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिंसा मंजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिंसा ()
891	92//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	कश्मीर सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र अमर चंद ()
892	92//18	अन्य(अस्थान बीबड़ीआं बाईतमाम नजीरो)	सिंचित(चाही)	0.392	असथान बीबड़ीया बाईतमाम नजीरो विधवा रोशन खा. पुत्र फजलू ()
893	92//19	अन्य(अस्थान बीबड़ीआं बाईतमाम नजीरो)	सिंचित(चाही)	0.1669	असथान बीबड़ीया बाईतमाम नजीरो विधवा रोशन खा. पुत्र फजलू ()

894	92//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1517	जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 146/711 हिसा, अमरजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा, मनजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा ()
895	92//22	अन्य(अस्थान बीबड़ीआं बाईतमाम नजीरो)	सिंचित(चाही)	0.0025	असथान बीबड़ीया बाईतमाम नजीरो विधवा रोशन खा. पुत्र फजलू ()
896	92//23/1	अन्य(अस्थान बीबड़ीआं बाईतमाम नजीरो)	सिंचित(चाही)	0.1189	असथान बीबड़ीया बाईतमाम नजीरो विधवा रोशन खा. पुत्र फजलू ()
897	92//23/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1037	जग्सीर सिंह पुत्र संपुर्न सिंह पुत्र ईक़ल सिंह ()
898	92//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0379	जग्सीर सिंह पुत्र संपुर्न सिंह पुत्र ईक़ल सिंह ()
899	92//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2655	कश्मीर सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र अमर चंद ()
900	92//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	कश्मीर सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र अमर चंद ()
901	92//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 146/711 हिसा, अमरजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा, मनजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा मंजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा ()
902	92//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र फकीर सिंह 146/711 हिसा, अमरजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा, मनजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा मंजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 565/1422 हिसा ()
903	93//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	सिंदर कौर पत्नी सतनाम सिंह 40/3336 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह

					429/2/10/3336 हिस्सा कुल्दीप सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा गुर्चरत सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा मलूक सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा सहिव सिंह पुत्र जांगीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 170/7/10/3336 हिसा जसवंत सिंह .निधन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह 112/3336 हिस्सा दर्शन सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/336 हिस्सा बाज सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 158/1/3336 हिस्सा पलविंदर सिंह सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 238/1/3/3336 हिस्सा निशान सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 162/1/3/3336 हिस्सा करनैल सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह 198/1/2/3336 हिस्सा ()
904	942	सरकारी(भारत सरकार)	गैर मुमकिन	0.0354	भारत सरकार मकबूजा आवपाशी कुणीदा गान ()
905	964	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0303	ग्राम पंचायत शरेआम ()
906	994	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0177	ग्राम पंचायत शरेआम ()
907	995	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0556	ग्राम पंचायत देह शरेआम ()
गांव का नाम: तम्बूवाला					
908	101	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (खाल)	0.1366	नगर पंचायत ()
909	102	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0481	नगर पंचायत ()
910	109	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0303	नगर पंचायत ()
911	11//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	हरभजन सिंह- गुरबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()
912	11//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	हरभजन सिंह- गुरबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()

913	11//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	हरभजन सिंह- गुरुबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()
914	11//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	हरभजन सिंह- गुरुबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()
915	11//16/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	हरदीप सिंह मुतबंनता पुत्र करनैल सिंह ()
916	11//16/4min	निजी	सिंचित (चाही)	0.2074	जसवीर सिंह पुत्र सूरत सिंह ()
917	11//17/1	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.1189	जसवीर सिंह पुत्र सूरत सिंह ()
918	11//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.086	अमरजीत सिंह .जोगा सिंह .रणधीर सिंह पुत्र दारा सिंह वय बरू हिसा ()
919	11//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	अमरजीत सिंह .जोगा सिंह .रणधीर सिंह पुत्र दारा सिंह वय बरू हिसा ()
920	11//4/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	सादा सिंह पुत्र सोहन सिंह ()
921	11//4/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1846	हरभजन सिंह- गुरुबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: 57/73 हिस्सा मागी सिंह पुत्र बारू सिंह आदि 16/73 हिस्सा खेवट नो. 231 ()
922	11//4/4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	हरदीप सिंह मुतबन्ना पुत्र करनैल सिंह ()
923	11//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.2453	हरभजन सिंह- गुरुबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()
924	11//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	हरभजन सिंह- गुरुबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()
925	11//7/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	हरदीप सिंह मुतबंनता पुत्र करनैल सिंह ()
926	11//7/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1037	हरभजन सिंह- गुरुबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब :व: हिस्सा ()
927	11//7/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0835	जसवीर सिंह पुत्र सुरत सिंह हिसा, हरदीप सिंह मुतबंनता पुत्र करनैल

					सिंह 1/3 हिसा, निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/6 हिसा, गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह 1/6 हिसा ()
928	12//20/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	हरदीप सिंह मुतबना पुत्र करनैल सिंह ()
929	12//20/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	हरदीप सिंह मुतबना पुत्र करनैल सिंह (12//20/2/2)
930	12//21/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह 108/217 हिसा, गुरतेज सिंह पुत्र जरनैल सिंह 40/217 हिसा, गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह 69धु217 हिसा ()
931	12//21/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	अमरजीत सिंह .जोगा सिंह .रणधीर सिंह पुत्र दारा सिंह बय बरू हिसा ()
932	13//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	1/1 (0-17) निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह 13/17 हिस्सा जसवीर सिंह पुत्र सूरत सिंह 3/17 हिस्सा गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह 1/17 हिस्सा , 1/2 (1-3) जसवीर सिंह पुत्र सूरत सिंह 1/2 हिस्सा गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह 1/4 हिस्सा निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/4 हिस्सा ()
933	13//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र जिंदर सिंह 35धु445 जसवीर सिंह पुत्र शुरत सिंह पुत्र जिंदर सिंह 11धु445 हिसा, बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 50धु1धु2धु445 हिसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 50धु1धु2धु445 हिसा, गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह 36धु445 हिसा हरभजन सिंह. गुरचरण सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब रूबरू 111धु445 हिस्सा बाग सिंह पुत्र सरेस सिंह 31धु1धु2धु445 हिस्सा हर्जिंदर कौर पति जस्विंदर सिंह 19धु445 हिस्सा ()
934	13//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	सुरजीत कौर विधवा व भोला सिंह .माडा सिंह.सतवीर सिंह .लछमण

					सिंह पुत्र मागा राम बरू बरू हिसा ()
935	13//20/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	20/1/2 फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह व बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह 3/4 हिस्सा लखविंदर सिंह जसवंत सिंह निधन सिंह राजवंत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/4 हिस्सा ()
936	13//20/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.215	20ध्र2ध्र1 ;1.7द्ध सुरजीत कौर विधवा व भोला सिंह .माडा सिंह.सतवीर सिंह .लछमण सिंह पुत्र मागा राम बरू बरू हिसा ए 20ध्र2ध्र2 ;2.18द्ध फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह व बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह 3ध्र4 हिस्सा लखविंदर सिंह जसवंत सिंह निधन सिंह राजवंत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1ध्र4 हिस्सा ()
937	13//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.2554	21ध्र1 ;2.2द्ध 21ध्र2 ;2.19द्ध बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353ध्र1035 हिसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353ध्र1035 हिसा, एजसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 260ध्र1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70ध्र1035 ()
938	14//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	अमरजीत सिंह .जोगा सिंह .रणधीर सिंह पुत्र दारा सिंह वय बरू हिसा ()
939	14//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2453	प्रीतम सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र नारायण सिंह ()
940	14//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.1237	बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353ध्र1035 हिसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353ध्र1035 हिसा, एजसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 260ध्र1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70ध्र1035 ()
941	14//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1ध्र6 हिसा, जसवीर सिंह पुत्र सूरत सिंह 2ध्र3 हिस्सा गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह 1ध्र6 हिस्सा ()

942	14//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	निर्मल सिंह पुत्र जरनेल सिंह 1धू6 हिसा, जसवीर सिंह पुत्र सूरत सिंह 2धू3 हिस्सा गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह 1धू6 हिस्सा ()
943	14//6	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.3794	अमरजीत सिंह .जोगा सिंह .रणधीर सिंह पुत्र दारा सिंह बय बरू हिसा ()
944	14//7/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	बलविंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह ()
945	16//15	निजी	गैर मुमकिन	0.1619	प्रीतम सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र नारायण सिंह ()
946	16//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	प्रीतम सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र नारायण सिंह ()
947	16//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	बलिहैं सिंह जनपाल सिंह पुत्र पलविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह बी बी हिस्सा ()
948	16//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	बलिहैं सिंह जनपाल सिंह पुत्र पलविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह बी बी हिस्सा ()
949	16//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिसा, एजसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 260धू1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70धू1035 ()
950	16//6/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1442	बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिसा, एजसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 260धू1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70धू1035 ()
951	16//6/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0582	प्रीतम सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र नरैण सिंह 22धू23 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिसा, एजसवीर कौर

					पतनी बालकर सिंह 260धू1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70धू1035 दर 1धू23 ()
952	17//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1669	बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिस्सा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिस्सा, एजसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 260धू1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70धू1035 ()
953	17//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.3187	बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिस्सा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 353धू1035 हिस्सा, एजसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 260धू1035 हिस्सा हरजिंदर कौर पतनी जसविंदर सिंह 70धू1035 ()
954	17//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.2175	प्रीतम सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र नरैण सिंह ()
955	17//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	प्रीतम सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र नरैण सिंह ()
956	20//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2984	राज कौर विदवा वा जरनैल सिंह - गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह ब: व हिस्सा ()
957	20//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	राज कौर विदवा वा जरनैल सिंह - गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह 120/144 हिस्सा gipan flag iq= जगत flag 24/144 हिस्सा ()
958	20//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	सरबजीत कौर पुत्री दलेल सिंह ()
959	20//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	हरचंद सिंह पुत्र जगत सिंह ()
960	20//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3237	राज कौर विदवा वा जरनैल सिंह - गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह ()
961	20//21/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2099	राज कौर विदवा वा जरनैल सिंह - गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह ब:

					ब हिस्सा (0)
962	20//21/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.043	राज कौर विधवा वा जरनैल सिंह - गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह बः ब हिस्सा (0)
963	20//22/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2478	हरचंद सिंह पुत्र जगत सिंह (0)
964	20//22/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	राज कौर विधवा व जरनैल सिंह गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह 1/3 हिस्सा हरचंद सिंह पुत्र जगत सिन घ सिंह 1/3 हिस्सा दलेर सिंह उर्फ दलेल सिंह पुत्र जगन सिंह 1/3 हिस्सा (0)
965	20//9	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.0835	राज कौर विधवा व जरनैल सिंह गुरसेवाक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह 1/2 हिस्सा हरचंद सिंह पुत्र जगत सिन घ सिंह 1/2 हिस्सा (0)
966	21//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	बलिहान सिंह .जानपाल सिंह पुत्र पलविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह 1/6 हिसा, व रू बरू हिस्सा (0)
967	23//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2048	मलूक सिंह पुत्र फकीर सिंह (0)
968	23//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फकीर सिंह 1205/2683 हिस्सा (0)
969	23//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	अजैब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 8/45 हिसा, बलदेव कौर विधवा अमरजीत सिंह 1/15 हिसा, बलदेव कौर माता गुरतेज सिंह 2/45 हिसा, जसविंदर कौर विधवा गुरतेज सिंह 1/9 हिसा, अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 216धू1393 हिसा, बलदेव कौर माता गुरजंट सिंह 2/45 हिसा, हरविंदर कौर विधवा गुरजंट सिंह 1/9 हिसा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह 6266धू62685 हिसा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/45 हिसा, (0)

970	23//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.3869	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फ़कीर सिंह 1205/2683 हिस्सा महिंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
971	23//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फ़कीर सिंह 1205/2683 हिस्सा महिंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
972	23//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फ़कीर सिंह 1205/2683 हिस्सा महिंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
973	23//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	सुरजीत सिंह गुर्दीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह ()
974	23//19/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2807	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फ़कीर सिंह 1205/2683 हिस्सा महिंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
975	23//19/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	बलदेव कौर विधवा व अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 2/5 हिसा, बलदेव कौर माता 2धू20 हिसा व हर्बिंदर कौर विद्या गुरजंट सिंह 1/6 हिसा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/20 हिसा, जसविंदर कौर विधवा 1/6 हिसा व अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 1/20 हिसा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/15 हिसा ()
976	23//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फ़कीर सिंह 1205/2683 हिस्सा महिंदर सिंह

					पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
977	23//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.1037	अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 8/45 हिस्सा, बलदेव कौर विधवा अमरजीत सिंह 1/15 हिस्सा, बलदेव कौर माता गुरतेज सिंह 2/45 हिस्सा, जसविंदर कौर विधवा गुरतेज सिंह 1/9 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 216धू1393 हिस्सा, बलदेव कौर माता गुरजंट सिंह 2/45 हिस्सा, हरविंदर कौर विधवा गुरजंट सिंह 1/9 हिस्सा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह 6266धू62685 हिस्सा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/45 हिस्सा, ()
978	23//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 8/45 हिस्सा, बलदेव कौर विधवा अमरजीत सिंह 1/15 हिस्सा, बलदेव कौर माता गुरतेज सिंह 2/45 हिस्सा, जसविंदर कौर विधवा गुरतेज सिंह 1/9 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 216धू1393 हिस्सा, बलदेव कौर माता गुरजंट सिंह 2/45 हिस्सा, हरविंदर कौर विधवा गुरजंट सिंह 1/9 हिस्सा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह 6266धू62685 हिस्सा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/45 हिस्सा, ()
979	23//22	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.4046	बलदेव कौर विधवा व अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 2/5 हिस्सा, बलदेव कौर माता 2धू20 हिस्सा व हविंदर कौर विधवा गुरजंट सिंह 1/6 हिस्सा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/20 हिस्सा, जसविंदर कौर विधवा 1/6 हिस्सा व अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 1/20 हिस्सा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/15 हिस्सा ()
980	23//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	अमरीक सिंह पुत्र करनैल सिंह ()
981	23//9/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1037	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फकीर सिंह 1205/2683 हिस्सा महिंदर सिंह

					पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
982	23//9/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1745	सिमरजीत कौर पतनी सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह 80/2683 भूपिंदर सिंह so तेजा सिंह 704/2683 मलूक सिंह पुत्र फकीर सिंह 1205/2683 हिस्सा गहिंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह 694/2683 हिस्सा ()
983	23//9/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	मलूक सिंह पुत्र फकीर सिंह ()
984	32//1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	अजैब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 8/45 हिस्सा, बलदेव कौर विधवा अमरजीत सिंह 1/15 हिस्सा, बलदेव कौर माता गुरतेज सिंह 2/45 हिस्सा, जसविंदर कौर विधवा गुरतेज सिंह 1/9 हिस्सा, अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 216धू1393 हिस्सा, बलदेव कौर माता गुरजंट सिंह 2/45 हिस्सा, हरविंदर कौर विधवा गुरजंट सिंह 1/9 हिस्सा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह 6266धू62685 हिस्सा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/45 हिस्सा, ()
985	32//10/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	बलदेव कौर विधवा व अजैब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 2/5 हिस्सा, बलदेव कौर माता 2धू20 हिस्सा व हविंदर कौर विधवा गुरजंट सिंह 1/6 हिस्सा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/20 हिस्सा, जसविंदर कौर विधवा 1/6 हिस्सा व अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 1/20 हिस्सा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/15 हिस्सा ()
986	32//12/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	अजैब सिंह पुत्र साधु सिंह 1/2 हिस्सा गरविन्दर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 1/2 हिस्सा ()
987	32//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	अजैब सिंह पुत्र साधु सिंह 1/2 हिस्सा गरविन्दर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 1/2 हिस्सा ()
988	32//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	गुरविंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 18/182 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र मातु सिंह 58/1/2/182 . हिस्सा जसवीर

					सिंह -गुरजीत सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह 69/182 हिस्सा सुखविंदर कौर पतनी जर्नेल सिंह 86/182 हिस्सा (नोट - खेवट हिस्सा वद् चेक) ()
989	32//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1366	13/2/1 (0-8) गुरविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 18/182 हिस्सा प्रीतम सिंह पुत्र मातु सिंह 58/1/2/182 ग् हिस्सा जसवीर सिंह -गुरजीत सिंह - सरबजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह 69/182 हिस्सा सुखविंदर कौर पतनी जर्नेल सिंह 86/182 हिस्सा(नोट - खेवट हिस्सा वद् चेक) 13/2/2 - 13/2/2 (0-18) जसवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/6 हिस्सा गुरजीत सिंह सरबजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/3 हिस्सा गुरविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 हिस्सा 13/2/2 min (1-8)- तेजा सिंह पुत्र साधु सिंह 11/28 हिस्सा गुरविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 11/1/2/28 हिस्सा गुरबचन सिंह पुत्र दरबारा सिंह 5/1/2/28 हिस्सा ()
990	32//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	अँघिंदर सिंह पुत्र अजैव सिंह ()
991	32//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	प्रीतम सिंह पुत्र मातु सिंह पुत्र साहिब सिंह 54/108 हिस्सा अमरिंदर सिंह पुत्र अजैव सिंह 54/108 ()
992	32//19/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	प्रीतम सिंह पुत्र मातु सिंह ()
993	32//19/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	प्रीतम सिंह पुत्र मातु सिंह पुत्र साहिब सिंह 54/108 हिस्सा अमरिंदर सिंह पुत्र अजैव सिंह 54/108 ()
994	32//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	बलदेव कौर विधवा व अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 2/5 हिसा, बलदेव कौर माता 2ध्र20 हिसा व हर्विंदर कौर विद्वा गुरजंट सिंह 1/6 हिसा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/20 हिसा, जसविंदर कौर विधवा 1/6 हिसा व अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 1/20

					हिंसा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/15 हिंसा ()
995	32//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.22	22/1(3-8) रोशनी देवी आदि खेवट न. 193/318-319-321 22/2(0-19) प्रीतम सिंह पुत्र मातु सिंह 42/188/1/2 हिंसा रोशनी देवी पत्नी प्रीतम सिंह 73/1/2/188/1/2 हिंसा सुखविंदर कौर पत्नी जरनैल सिंह 73/188/1/2 हिंसा ()
996	32//23	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.258	तेजा सिंह पुत्र साधु सिंह 4657/15510 हिंसा हरबंस सिंह पुत्र साधु सिंह 1067/3447 हिंसा अजैव सिंह पुत्र साधु सिंह 15287861/53462970 हिंसा अमरिंदर सिंह पुत्र अजैव सिंह 832/10341 हिंसा गुरविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 82/3447 हिंसा ()
997	32//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	बलदेव कौर विडो व अजैव सिंघस्यो अमरजीत सिंह २५ हिंसा बलदेव कौर माता २२० हिंसा व हरविंदर कौर विडो गुरजंट सिंह १६ हिंसा प्रीतपाल सिंह सन गुरजंट सिंह सन अमरजीत सिंह १२० हिंसा जसविंदर कौर विडो १६ हिंसा व अवतार सिंह सन ऑफ गुरतेज सिंह १२० हिंसा गुरजिंदर कौर वाइफ अजैव सिंह सन अमरजीत सिंह ११५ हिंसा ()
998	32//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.134	बलदेव कौर विधवा व अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 2/5 हिंसा, बलदेव कौर माता 2ध20 हिंसा व हविंदर कौर विद्धा गुरजंट सिंह 1/6 हिंसा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/20 हिंसा, जसविंदर कौर विधवा 1/6 हिंसा व अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 1/20 हिंसा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/15 हिंसा ()
999	32//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3971	बलदेव कौर विधवा व अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 2/5 हिंसा, बलदेव कौर माता 2ध20 हिंसा व हविंदर कौर विद्धा गुरजंट सिंह 1/6 हिंसा, प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह

					पुत्र अमरजीत सिंह 1/20 हिस्सा, जसविंदर कौर विधवा 1/6 हिस्सा व अवतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह 1/20 हिस्सा, गुरजिंदर कौर पत्नी अजैव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 1/15 हिस्सा ()
1000	35//12/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1239	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नी अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1001	35//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नी अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1002	35//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.392	सुरजीत सिंह गुर्दीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र करनैल सिंह ()
1003	35//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	रूपेन्द्र सिंह पुत्र रंजीत सिंह आदि खेवट न. 208 ()
1004	35//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	रूपेन्द्र सिंह रणजीत सिंह 42/336 हिस्सा जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 42/336 हिस्सा भगवंत कौर पत्नी स्वर्ण सिंह 84/336 हिस्सा सतवंत कौर पत्नी महिंदर सिंह 84/336 हिस्सा कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 84/336 हिस्सा ()
1005	35//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.349	सुरजीत सिंह गुर्दीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र करनैल सिंह ()
1006	35//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0556	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नी अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1007	35//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नी अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1008	35//2/1	निजी	गैर मुमकिन, सिंचित (चाही)	0.1517	सुरजीत सिंह गुर्दीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र करनैल सिंह ा ()
1009	35//2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	बलविंदर कौर पत्नी निसान सिंह ()
1010	35//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	अमर्जीत कौर पुत्री महिंदर सिंह पुत्र ()

					मलण सिंह पुत्र ()
1011	35//23/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3465	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नि अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1012	35//23/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नि अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1013	35//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नि अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1014	35//3/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	aअमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27/43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नि अमर्जीत सिंह 16/43 हिस्सा ()
1015	35//3/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2655	सुरजीत सिंह गुर्दीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र करनैल सिंह ा ()
1016	35//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	बलजीत सिंह बालकर सिंह जगतार सिंह पुत्र रघवीर सिंह ()
1017	35//8/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.349	सुरजीत सिंह गुर्दीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह पुत्र करनैल सिंह ा ()
1018	35//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.172	बलविंदर कौर पत्नी निसान सिंह ()
1019	43//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 4ध्र15 हिसा, रणजोध सिंह पुत्र रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह 7ध्र30 हिसा, सुलिन्दर सिंह पुत्र जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 7ध्र30 हिसा, जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 4ध्र15 हिसा, ()
1020	43//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2529	रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 4ध्र15 हिसा, रणजोध सिंह पुत्र रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह 7ध्र30 हिसा, सुलिन्दर सिंह पुत्र जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 7ध्र30 हिसा, जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 4ध्र15 हिसा, ()

1021	43//14/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, रणजोध सिंह पुत्र रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, सुरिंदर सिंह पुत्र जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, ()
1022	43//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, रणजोध सिंह पुत्र रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, सुरिंदर सिंह पुत्र जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, ()
1023	43//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.2782	गुरजंट सिंह .हरप्रीत सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 70/114 हिसा, बलजिंदर सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 22/57 हिसा ()
1024	43//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.2377	गुरजंट सिंह .हरप्रीत सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 70/114 हिसा, बलजिंदर सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 22/57 हिसा ()
1025	43//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	गुरजंट सिंह .हरप्रीत सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 70/114 हिसा, बलजिंदर सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 22/57 हिसा ()
1026	43//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	गुरजंट सिंह .हरप्रीत सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 70/114 हिसा, बलजिंदर सिंह पुत्र कुलतार सिंह पुत्र माधी सिंह 22/57 हिसा ()
1027	43//3/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2352	अमर्जीत सिंह पुत्र कपूर सिंह 27धू43 हिस्सा महिंदर कौर पत्नि अमर्जीत सिंह 16धू43 हिस्सा ;दर 87धू93 हिसा द्द राम गोपाल उर्फ गोपाल राम पुत्र हरी चंद पुत्र 65धू244 हिसा, भीम चंद पुत्र हरी चंद 65धू244 हिसा, बलवीर कौर

					पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह 57/122 हिसा ; दर 87ध्र93 हिसा द्र ()
1028	43//3/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	मुखतिआर कौर विधवा बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, बलविंदर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 167/1014 हिसा, ईसर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, गुरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, तरशेम सिंह. जगजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र हजुरा सिंह 10/2028 हिसा, ()
1029	43//3/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0556	मुखतिआर कौर विधवा बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, बलविंदर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 167/1014 हिसा, ईसर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, गुरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, तरशेम सिंह. जगजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र हजुरा सिंह 10/2028 हिसा, ()
1030	43//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.086	राम गोपाल उर्फ गोपाल राम पुत्र हरी चंद पुत्र 65ध्र244 हिसा, भीम चंद पुत्र हरी चंद 65ध्र244 हिसा, बलवीर कौर पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह 57/122 हिसा ()
1031	43//7/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0329	रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, रणजोध सिंह पुत्र रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, सुलिन्दर सिंह पुत्र जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, ()
1032	43//7/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1593	रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, रणजोध सिंह पुत्र रुपिंदर सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, सुलिन्दर सिंह पुत्र जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 हिसा, ()

					जुझार सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र माधी सिंह 1/4 हिसा, ()
1033	43//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2529	मुखतिआर कौर विधवा बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, बलविंदर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 167/1014 हिसा, ईसर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, गुरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, तरशेम सिंह. जगजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र हजुरा सिंह 10/2028 हिसा, ()
1034	43//8/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	मुखतिआर कौर विधवा बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, बलविंदर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 167/1014 हिसा, ईसर सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 211/1014 हिसा, हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, गुरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र पुत्र पुरण सिंह 35/169 हिसा, तरशेम सिंह. जगजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र हजुरा सिंह 10/2028 हिसा, ()
1035	46//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 3723ध्15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 3723ध्15034 हिसा, अंजलीत कौर पत्नी सोहन सिंह सिंह 1600ध्7517 हिसा ()
1036	46//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.3768	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 3723ध्15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 3723ध्15034 हिसा, अंजलीत कौर पत्नी सोहन सिंह सिंह 1600ध्7517 हिसा ()
1037	46//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0354	16/1/2 रणजीत सिंह पुत्र बरिहाम

	min				सिंह 1/2 हिस्सा सुखदेव सिंह पुत्र निशान सिंह 1/3 हिस्सा शमशेर सिंह पुत्र निशान सिंह 1/12 हिस्सा गुरमीत सिंह पुत्र निशान सिंह 1/12 हिस्सा ()
1038	46//16/2 min	निजी	सिंचित (चाही)	0.1136	16/2/2(2-5) सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194/7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723/15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723/15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600/7517 हिसा(दर 41/45 हिसा) खुशीराम पुत्र नूरदीन 4/45 हिसा ()
1039	46//17/1 min	निजी	सिंचित (चाही)	0.0124	17/1/1(0-5) खुशीराम पुत्र नूरदीन ()
1040	46//17/2 min	निजी	सिंचित (चाही)	0.1338	17/2/1/1(1-0) खुशीराम पुत्र नूरदीन ए 17/2/1/2(1-13) सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194/7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723/15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723/15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600/7517 हिसा ()
1041	46//17/3 min	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	17/3/1(0-5) पंजाब सरकार 17/3/2(1-1) सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194/7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723/15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723/15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600/7517 हिसा ()
1042	46//24/1	सरकारी	गैर मुमकिन (ड्रेन)	0.0025	पंजाब सरकार ()
1043	46//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2074	खुशीराम पुत्र नूरदीन पुत्र ईशा ()
1044	46//25/1min	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	खुशीराम पुत्र नूरदीन पुत्र ईशा

					0
1045	46//25/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिस्सा रमनीत कौर पुत्री बलजिंदर सिंह 1/8 हिस्सा अर्शदीप सिंह पुत्र बालजिंदर सिंह 3/8 हिस्सा 0
1046	46//3	निजी	सिंचित (नाही)	0.1163	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्व7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600ध्व7517 हिसा 0
1047	46//4	निजी	सिंचित (नाही)	0.4046	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्व7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600ध्व7517 हिसा 0
1048	46//5	निजी	सिंचित (नाही)	0.0278	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्व7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600ध्व7517 हिसा 0
1049	46//6/1	निजी	सिंचित (नाही)	0.1012	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्व7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, अँझीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह1600ध्व7517 हिसा 0
1050	46//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194ध्व7517 हिसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह3723ध्व15034 हिसा, यादविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह

					पुत्र गुरदयाल सिंह 3723धू15034 हिंसा, अँफ़्जीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह 1600धू7517 हिंसा ()
1051	46//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र भजन सिंह 2194धू7517 हिंसा, सुखनाम सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 3723धू15034 हिंसा, यादविंदर सिंह पुत्र नूखविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 3723धू15034 हिंसा, अँफ़्जीत कौर पत्नि सोहन सिंह सिंह 1600धू7517 हिंसा ()
1052	5//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.2681	24धू1 ; 0.1द्ध निर्मल सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र जिंदर सिंह 35धू445 जसवीर सिंह पुत्र शुरत सिंह पुत्र जिंदर सिंह 11धू445 हिंसा, बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 50धू1धू2धू445 हिंसा, फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र ईसर सिंह 50धू1धू2धू445 हिंसा, गुरबचन कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह 36धू445 हिंसा हरभजन सिंह. गुरचरण सिंह पुत्र हरदीप सिंह ब रूबरू 111धू445 हिंसा बाग सिंह पुत्र सरेस सिंह 31धू1धू2धू445 हिंसा हर्जिंदर कौर पत्नि जस्विंदर सिंह 19धू445 हिंसा 24धू2 ; 5.5द्ध बलवीर सिंह. फकीर सिंह पुत्र सोहन सिंह बरूब 2धू3 हिंसाए साधा सिंह पुत्र सोहन सिंह 16धू183 हिंसा जसवीर कौर पतनी बालकर सिंह 15धू61 हिंसा ()
1053	52//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिंसा रमनीत कौर पुत्री बलजिंदर सिंह 1/8 हिंसा अर्शदीप सिंह पुत्र बालजंदिर सिंह 3/8 हिंसा ()
1054	52//10/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिंसा रमनीत कौर पुत्री बलजिंदर सिंह 1/8 हिंसा अर्शदीप सिंह पुत्र बालजंदिर सिंह 3/8 हिंसा ()
1055	52//10/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिंसा रमनीत कौर पुत्री बलजिंदर सिंह 1/8 हिंसा अर्शदीप सिंह पुत्र बालजंदिर सिंह 3/8 हिंसा

					()
1056	52//11/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	कुलदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र4ध्र261 हिस्सा, रणधीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र2ध्र261 हिस्सा, जगतार सिंह पुत्र सतपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 130ध्र1ध्र2ध्र261 हिस्सा ()
1057	53//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.1366	कुलदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र4ध्र261 हिस्सा, रणधीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र2ध्र261 हिस्सा, जगतार सिंह पुत्र सतपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 130ध्र1ध्र2ध्र261 हिस्सा ;दर 19ध्र59 हिस्सा द्द अमरिंदर सिंह पुत्र गुरदर्शन सिंह 40ध्र59 हिस्सा ()
1058	53//5/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0658	खुशी राम पुत्र नुरदीन पुत्र ईसा ()
1059	53//5/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	कुलदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र4ध्र261 हिस्सा, रणधीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र2ध्र261 हिस्सा, जगतार सिंह पुत्र सतपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 130ध्र1ध्र2ध्र261 हिस्सा ()
1060	53//5/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिस्सा रमित कौर पुत्री बलजिंदर सिंह व अर्शदीप सिंह 1/8 हिस्सा, पुत्र बालजंदिरे सिंह 3/8 हिस्सा ()
1061	53//5/2/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0455	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिस्सा रमनीत कौर पुत्री बलजिंदर सिंह 1/8 हिस्सा अर्शदीप सिंह पुत्र बालजंदिरे सिंह 3/8 हिस्सा ()
1062	53//6/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1644	कुलविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1/2 हिस्सा रमित कौर पुत्री बलजिंदर सिंह व अर्शदीप सिंह 1/8 हिस्सा, पुत्र बालजंदिरे सिंह 3/8 हिस्सा ()
1063	53//6/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1644	कुलदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह

					65ध्र1ध्र4ध्र261 हिसा, रणधीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 65ध्र1ध्र2ध्र261 हिसा, जगतार सिंह पुत्र सतपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 130ध्र1ध्र2ध्र261 हिसा ()
1064	80	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (पही)	0.0101	नगर पंचायत ()
1065	88	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0303	नगर पंचायत ()
1066	89	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (पही)	0.1664	नगर पंचायत ()
1067	94min	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (पही)	0.0582	नगर पंचायत ()
1068	95	अन्य(नगर पंचायत)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0101	नगर पंचायत ()
गांव का नाम: तेईपुर					
1069	10//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2074	जंगीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/2 हिस्सा, भूपिंदर सिंह -जसविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह व व : 1/2 हिंसा, ()
1070	10//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.2352	जंगीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/2 हिस्सा, भूपिंदर सिंह -जसविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह व व : 1/2 हिंसा, ()
1071	10//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	11/2 -(0-10), हरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र हरमन सिंह 1/2 हिंसा, बलविंदर कौर विद्वा व गुरविंदर सिंह पुत्र राजविंदर कौर पत्नी सुखजीत सिंह 1/2 हिस्सा 11/1 - (1-2) जंगीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/2 हिस्सा, भूपिंदर सिंह -जसविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह व व : 1/2 हिंसा, ()
1072	10//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.3844	(12/2) - 4-17 हरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह 1/2 गुरविंदर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह 1/2 हिस्सा (10//12/1) - 2 - 15 जंगीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/2 हिस्सा, भूपिंदर

					सिंह -जसविंदर सिंह - हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह व ब : 1/2 हिंसा , ()
1073	10//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.1644	13/2 -(2-12) हरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह 1/2 गुरविंदर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह 1/2 हिस्सा 13/1 (0-13)हरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह 1/2 गुरविंदर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह 1/2 हिस्सा , ()
1074	10//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	हरजीत सिंह पुत्र सिंह 1/2 हिस्सा , बलविंदर कौर विधवा गुरविंदर सिंह सोन सुखजीत सिंह 1/2 हिंसा ()
1075	10//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	हरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह 1/2 हिस्सा , बलविंदर कौर विधवा गुरविंदर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह 1/2 हिंसा ()
1076	10//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	हरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह 1/2 हिस्सा , बलविंदर कौर विधवा गुरविंदर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह 1/2 हिंसा ()
1077	10//2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0278	जागिर सिंह पुत्र अर्जन सिंह पुत्र निहाल सिंह 1/2 हिंसा , भूपिंदर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन 1/6 हिंसा , हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6हिंसा , ()
1078	10//2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	जागिर सिंह पुत्र अर्जन सिंह पुत्र निहाल सिंह 1/2 हिंसा , भूपिंदर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन 1/6 हिंसा , हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6हिंसा , ()
1079	10//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0303	जवहत्त पत्नी गुर्देयल सिंह पुतर तारा सिंह ()
1080	10//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3768	जवहत्त पत्नी गुर्देयल सिंह पुतर तारा सिंह ()
1081	10//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.2428	जवहत्त पत्नी गुर्देयल सिंह पुतर तारा

					सिंह ()
1082	10//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	जागिर सिंह पुत्र अर्जन सिंह पुत्र निहाल सिंह 1/2 हिंसा , भूपिंदर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन 1/6 हिंसा , हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6हिंसा , ()
1083	10//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.3237	जागिर सिंह पुत्र अर्जन सिंह पुत्र निहाल सिंह 1/2 हिंसा , भूपिंदर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन 1/6 हिंसा , हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6हिंसा , ()
1084	100	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.2175	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1085	111	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन(सरस्वती ड्रेन)	0.1366	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1086	18//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0835	गुर्वचन सिंह पुतर उजागर सिंह प्यतर केशर सिंह ()
1087	18//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	हर्भन सिंह पुतर उजगर सिस ओपुतर केशर सिंह 17/18 हिंस कुल्दीप सिंह सुर्जीत सिंह पुतर हर्भजन सिंह 1/18 हिंसा ()
1088	18//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.2655	हर्भन सिंह पुतर उजगर सिस ओपुतर केशर सिंह 17/18 हिंस कुल्दीप सिंह सुर्जीत सिंह पुतर हर्भजन सिंह 1/18 हिंसा ()
1089	18//21/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3692	गुर्वचन सिंह पुतर उजागर सिंह प्यतर केशर सिंह ()
1090	18//21/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	जीत कौर विधवा बलविंदर कौर पुतरी गेयान सिंह 2/10 हिंसा , राजपाल सिंह -सुखविंदर सिंह जसकरण सिंह सोन करनैल सिंह 1/10 हिंसा , चरणजीत सिंह कवलजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/10 हिंसा , सतनाम सिंह पुत्र सुखचैन सिंह 2/10 हिंसा , सतपाल सिंह - राम सिंह पुत्र तरलोचन सिंह 2/10 हिंसा , गुरविंदर सिंह पुत्र बलजिंदर

					सिंह 2/10 हिंसा , अमर सिंह पुत्र बंडा सिंह 1/10 हिंसा , हरजिंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह 1/30 हिंसा , लखविंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह 1/30 हिंसा , कुलविंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह 1/30 हिंसा , ()
1091	18//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	गुर्वचन सिंह पुत्र उजागर सिंह प्यतर केशर सिंह ()
1092	189	अन्य(मुश्तरका मालकन)	सिंचित (चाही)	0.0632	नगर पंचायत ()
1093	19//14/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0885	कुलविंदर सिंह -लखविंदर सिंह - हरजिंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह व :व : हिस्सा ()
1094	19//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0329	जगतार सिंह पुत्र साधु सिंह 973/131223 हिस्सा , , कर्मजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह 200/527 हिस्सा , सुखविंदर कौर पुत्री साधु सिंह 80/1581 हिस्सा दलवीर कौर पत्नी कुलविंदर सिंह 19/249 हिस्सा ,सिमरनजीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह 19/249 हिस्सा दलजीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र भगवन सिंह पुत्र साधु सिंह 216/527 हिस्सा ()
1095	19//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	जगतार सिंह पुत्र साधु सिंह 973/131223 हिस्सा , , कर्मजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह 200/527 हिस्सा , सुखविंदर कौर पुत्री साधु सिंह 80/1581 हिस्सा दलवीर कौर पत्नी कुलविंदर सिंह 19/249 हिस्सा ,सिमरनजीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह 19/249 हिस्सा दलजीत सिंह - कुलदीप सिंह पुत्र भगवन सिंह पुत्र साधु सिंह 216/527 हिस्सा ()
1096	19//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	जगतार सिंह पुत्र साधु सिंह 5483/76415 हिस्सा सुखविंदर कौर पुत्र साधु सिंह 110/1581 हिस्सा कर्मजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह 14134/45849 हिस्सा दलवीर कौर पत्नी कुलविंदर सिंह सिंह 101/2465 हिस्सा सिमरनजीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह 101/2465 हिस्सा मारुक एजुकेशन और

					वेलफेयर सोसाइटी तेईपुर तहसील पत्राण 96/483 हिस्सा दलजीत सिंह कुलदीप सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र साधु सिंह 12550 /45849 हिस्सा ()
1097	19//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	जगतार सिंह पुत्र साधु सिंह 5483/76415 हिस्सा सुखविंदर कौर पुत्र साधु सिंह 110/1581 हिस्सा कर्मजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह 14134/45849 हिस्सा दलवीर कौर पत्नी कुलविंदर सिंह सिंह 101/2465 हिस्सा सिमरजीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह 101/2465 हिस्सा मारुक एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी तेईपुर तहसील पत्राण 96/483 हिस्सा दलजीत सिंह कुलदीप सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र साधु सिंह 12550 /45849 हिस्सा ()
1098	19//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	जगतार सिंह पुत्र साधु सिंह 5483/76415 हिस्सा सुखविंदर कौर पुत्र साधु सिंह 110/1581 हिस्सा कर्मजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह 14134/45849 हिस्सा दलवीर कौर पत्नी कुलविंदर सिंह सिंह 101/2465 हिस्सा सिमरजीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह 101/2465 हिस्सा मारुक एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी तेईपुर तहसील पत्राण 96/483 हिस्सा दलजीत सिंह कुलदीप सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र साधु सिंह 12550 /45849 हिस्सा ()
1099	19//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1669	चचल सिंह सन तारा सिंह ()
1100	19//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.3667	चचल सिंह सन तारा सिंह ()
1101	19//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0582	चचल सिंह सन तारा सिंह ()
1102	19//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.2934	कुलविंदर सिंह -लखविंदर सिंह - हरजिंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह ब :ब : हिस्सा ()
1103	19//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	कुलविंदर सिंह -लखविंदर सिंह - हरजिंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह ब :ब : हिस्सा ()

1104	19//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	कुलविंदर सिंह - लखविंदर सिंह - हरजिंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह व : ब : हिस्सा ()
1105	190	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0354	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1106	196	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0329	नगर पंचायत ()
1107	197	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0961	नगर पंचायत ()
1108	198	अन्य(मुशतरका मालकन)	सिंचित(चाही)	0.0177	नगर पंचायत ()
1109	207	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0481	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1110	210	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.091	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1111	211	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.134	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1112	22//1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2883	नरिंदर सिंह - मलकीत सिंह - सविंदर सिंह पुत्र दरसन सिंह बी : बी : ()
1113	22//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0809	नरिंदर सिंह - मलकीत सिंह - सविंदर सिंह पुत्र दरसन सिंह बी : बी : ()
1114	22//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.2832	दीप सिंह - अमरीक सिंह - मनजीत सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र प्यारा सिंह बी.बी। ()
1115	22//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	सुरजीत सिंह सन प्रीतम सिंह सन आशा सिंह ()
1116	22//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सविंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह १ २ हिस्सा बलवीर सिंह सन हरनाम सिंह १ २ हिस्सा ()
1117	22//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	सुरजीत सिंह सन प्रीतम सिंह सन आशा सिंह ()
1118	22//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सुरजीत सिंह सन प्रीतम सिंह सन आशा सिंह ()

1119	22//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0835	इंदेर सिंह पुत्र अस्सा सिंह पुत्र हूकम सिंह ()
1120	22//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3338	दीप सिंह - अमरीक सिंह - मंजीत सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र पेयारा सिंह ब :ब : ()
1121	22//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.2883	सुरजीत सिंह सन प्रीतम सिंह सन आशा सिंह ()
1122	22//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.3313	सुरजीत सिंह सन प्रीतम सिंह सन आशा सिंह ()
1123	22//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सुरजीत सिंह सन प्रीतम सिंह सन आशा सिंह ()
1124	22//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	दीप सिंह - अमरीक सिंह - मंजीत सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र पेयारा सिंह ब :ब : ()
1125	22//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.1366	दीप सिंह - अमरीक सिंह - मंजीत सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र पेयारा सिंह ब :ब : ()
1126	22//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	दीप सिंह - अमरीक सिंह - मंजीत सिंह - जसविंदर सिंह पुत्र पेयारा सिंह ब :ब : ()
1127	234	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0253	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1128	235	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0253	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1129	236	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0202	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1130	237	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0354	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1131	241	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.1113	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1132	243	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन (खाल)	0.0076	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1133	30//10/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सविंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/2 हिस्सा , बलवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/2 हिस्सा ,

					()
1134	30//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.1214	कुलवीर सिंह पुत्र उजागर सिंह ब: ब: ()
1135	30//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सन्जीत कौर विद्वा ब: हरमीत सिंह पुत्र ब: रंदीप कौर - किरणदीप कौर पुत्री बलविंदर सिंह ब :ब :470/998 हिंसा ,कुलविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह 470/998 सविंदर सिंह - बलवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह 58/998 हिस्सा , ()
1136	30//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.3212	सन्जीत कौर विद्वा ब: हरमीत सिंह पुत्र ब: रंदीप कौर - किरणदीप कौर पुत्री बलविंदर सिंह ब :ब :470/998 हिंसा ,कुलविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह 470/998 सविंदर सिंह - बलवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह 58/998 हिस्सा , ()
1137	30//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	सन्जीत कौर विद्वा ब: हरमीत सिंह पुत्र ब: रंदीप कौर - किरणदीप कौर पुत्री बलविंदर सिंह ब :ब :470/998 हिंसा ,कुलविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह 470/998 सविंदर सिंह - बलवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह 58/998 हिस्सा , ()
1138	30//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0835	सन्जीत कौर विद्वा ब: हरमीत सिंह पुत्र ब: रंदीप कौर - किरणदीप कौर पुत्री बलविंदर सिंह ब :ब :470/998 हिंसा ,कुलविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह 470/998 सविंदर सिंह - बलवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह 58/998 हिस्सा , ()
1139	31//14/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0936	अजित सिंह पुत्र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिंसा , अजित कौर विद्वा 352/2107 हिस्सा , सुखविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1140	31//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	घरबचन कौर पत्नी कवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिंसा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिंसा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152

					हिस्सा सरवजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1141	31//16/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1163	अजित सिंह पुत्र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिंसा , अजित कौर विद्व 352/2107 हिस्सा , सुखविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1142	31//16/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1239	अजीत सिंह पुत्र सिंह ()
1143	31//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	अजित सिंह पुत्र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिंसा , अजित कौर विद्व 352/2107 हिस्सा , सुखविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1144	31//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0759	सुरजीत सिंह मतवाना पुत्र प्रीतम सिंह ()
1145	31//4/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	सुरजीत सिंह मतवाना पुत्र प्रीतम सिंह ()
1146	31//4/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	सुरजीत सिंह मतवाना पुत्र प्रीतम सिंह ()
1147	31//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.1239	सुरजीत सिंह मतवाना पुत्र प्रीतम सिंह ()
1148	31//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.3085	सरवजीत सिंह बलदेव सिंह कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 3/4 हिस्सा , मनदीप सिंह -जसकरण सिंह पुत्र राजिंदर सिंह 1/4 हिस्सा , ()
1149	31//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.2934	सरवजीत सिंह बलदेव सिंह कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 3/4 हिस्सा , मनदीप सिंह -जसकरण सिंह पुत्र राजिंदर सिंह 1/4 हिस्सा , ()
1150	35//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0784	मुख्तयार सिंह पुत्र कपूर सिंह सुलखन सिंह

					0
1151	35//1/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	मुख्तयार सिंह पुत्र कपूर सिंह सुलखन सिंह 0
1152	35//1/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1442	सुखविंदर सोइंग राजपाल सिंह जसकरण सिंह सन करनैल सिंह बी बी 0
1153	35//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	मुख्तार सिंह सन कपूर सिंह सन सुलखन सिंह 0
1154	35//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.2782	दिलबाग सिंह - करनैल सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2/3 हिस्सा , जसवीर कौर मदर राजविंदर सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 1/5 हिस्सा , रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 1/6 हिस्सा , 0
1155	35//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1593	हरभजन कौर पत्नी जगदीश सिंह 127/1/2/314 हिस्सा जसवीर कौर विधवा 19/314 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 15/314 हिस्सा जसविंदर सिंह पुत्र पियारा सिंह 8/1/2/3/4 हिस्सा गुरविंदर सिंह बलजिंदर सिंह 30/314 हिस्सा प्रकाश कौर पुत्री प्रेम सिंह 2/314 हिस्सा दिलबाग सिंह करनैल सिंह पुत्र प्रेम सिंह बी बी 56/157 हिस्सा 0
1156	35//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.091	हरभजन कौर पत्नी जगदीश सिंह 127/1/2/314 हिस्सा जसवीर कौर विधवा 19/314 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 15/314 हिस्सा जसविंदर सिंह पुत्र पियारा सिंह 8/1/2/3/4 हिस्सा गुरविंदर सिंह बलजिंदर सिंह 30/314 हिस्सा प्रकाश कौर पुत्री प्रेम सिंह 2/314 हिस्सा दिलबाग सिंह करनैल सिंह पुत्र प्रेम सिंह बी बी 56/157 हिस्सा 0
1157	35//17/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	सुखवीर सिंह - जगदीश सिंह पुत्र रुद्रपाल सिंह बी. बी. 0
1158	35//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2099	(18/1/1)-(1-0) , (18/1/2) -(3- 0) , 18/1/3 (0-3) सविंदर सिंह पुत्र महिंदर सिंह 80/249 हिस्सा , हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह

					80/249 हिस्सा , कश्मीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह 80/249 सुखवीर सिंह जगदीश सिंह पुत्र रछपाल 3/83 हिस्सा ()
1159	35//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1897	सुखविंदर सिंह - राजपाल सिंह - जसकरण सिंह - पुत्र करनैल सिंह व :व ()
1160	35//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	सुखविंदर सिंह - राजपाल सिंह - जसकरण सिंह - पुत्र करनैल सिंह व :व ()
1161	35//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	सुखविंदर सिंह - राजपाल सिंह - जसकरण सिंह - पुत्र करनैल सिंह व :व ()
1162	35//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह पु तर महिंदर सिंह 1/3 हिस्सा ,सविंदर सिंह -कश्मीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह व :व : 2/3 हिस्सा , ()
1163	35//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3111	23/1 -(0-12) , 23/2/1 -(1-5) हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह पु तर महिंदर सिंह 1/3 हिस्सा ,सविंदर सिंह -कश्मीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह व :व : 2/3 हिस्सा , , 23/2/2 -(4-6) रछपाल सिंह पुत्र हवेला सिंह ()
1164	35//24/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.172	, रस्पल सिंह पुतर हर्देव सिंह , रस्पल सिंह पुतर हर्देव सिंह ()
1165	35//24/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	जगदीश सिंह - सुखवीर सिंह पुत्र रछपाल सिंह पुत्र हवेला सिंह व :व : ()
1166	35//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	करनैल सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , सुखराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह 85/831 हिस्सा ,दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 1/3 हिस्सा , रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 100/19944 हिस्सा , जसवीर कौर वाइफ लखविंदर सिंह पुत्र प्रेम सिंह 26/144 हिस्सा , ()
1167	35//8/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	करनैल सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , सुखराज सिंह पुत्र

					रणजीत सिंह 85/831 हिस्सा ;दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 1/3 हिस्सा , रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 100/19944 हिस्सा , जसवीर कौर वाइफ लखविंदर सिंह पुत्र प्रेम सिंह 26/144 हिस्सा , ()
1168	35//8/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0986	मुख्तार सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र सुलखन सिंह ()
1169	35//8/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	मुख्तार सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र सुलखन सिंह ()
1170	35//9/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	मुख्तार सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र सुलखन सिंह ()
1171	35//9/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1593	मुख्तार सिंह पुत्र कपूर सिंह पुत्र सुलखन सिंह ()
1172	41//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	हर्भजन सिंह पुत्र सिंह उजगर सिंह पुत्र केसर 17/18 हिस्सा कुल्दीप सिंह सुर्जीत सिंह पुत्र हर्भजन सिंह ब:ब: 1/18 हिस्सा ()
1173	41//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0683	दर्शन सिंह पुत्र बग्गा सिंह 35/2/3/22/39 हिस्सा बलविंदर सिंह पुत्र रवेल सिंह 249/2239 हिस्सा कुलविंदर सिंह पुत्र रवेल सिंह 240/2239 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 417/1/4 /2239 हिस्सा हरजिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 362/1/4/2239 हिस्सा केवल सिंह - सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह ब :ब : 73/2239 हिस्सा जरनैल सिंह - सुखदेव सिंह पुत्र लछमन सिंह 692/2/3/2239 हिस्सा जसपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह 80/2239 हिस्सा लवप्रीत सिंह -अर्शदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 89/2239 हिस्सा ¼दर 20@27½ जरनैल सिंह - सुखदेव सिंह पुत्र लछमन सिंह 7/54 हिस्सा हरिंदर सिंह -नरिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 7/54 हिस्सा ()
1174	41//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.263	दर्शन सिंह पुत्र बग्गा सिंह 35/2/3/22/39 हिस्सा बलविंदर सिंह पुत्र रवेल सिंह 249/2239

					हिस्सा कुलविंदर सिंह पुत्र रवेल सिंह 240/2239 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 417/1/4 /2239 हिस्सा हरजिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 362/1/4/2239 हिस्सा केवल सिंह - सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह व :व : 73/2239 हिस्सा जरनैल सिंह - सुखदेव सिंह पुत्र लछमन सिंह 692/2/3/2239 हिस्सा जसपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह 80/2239
					हिस्सा लवप्रीत सिंह -अर्शदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 89/2239 हिस्सा ()
1175	41//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.3439	दर्शन सिंह स/ओ बग्गा सिंह ३५ २ ३ २२ ३९ हिस्सा बलविंदर सिंह स ओरवेल सिंह २४९ २२३९ हिस्सा कुलविंदर सिंह स/ओ रवेल सिंह २४० २२३९ हिस्सा नरिंदर सिंह स/ओ ज्ञान सिंह ४१७ १ ४ २२३९ हिस्सा हरजिंदर सिंह स/ओ ज्ञान सिंह ३६२ १ ४ २२३९ हिस्सा केवल सिंह सरबजीत सिंह स/ओ किरपाल सिंह बी बी ७३ २२३९ हिस्सा जरनैल सिंह सुखदेव सिंह स/ओ लछमन सिंह ६९२ २ ३ २२३९ हिस्सा जसपाल कौर व/ओ सुखचैन सिंह ८० २२३९ हिस्सा लवप्रीत सिंह अर्शदीप सिंह स/ओ कुलविंदर सिंह ८९ २२३९ हिस्सा ()
1176	41//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0733	दर्शन सिंह पुत्र बग्गा सिंह 35/2/3/22/39 हिस्सा बलविंदर सिंह पुत्र रवेल सिंह 249/2239 हिस्सा कुलविंदर सिंह पुत्र रवेल सिंह 240/2239 हिस्सा नरिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 417/1/4 /2239 हिस्सा हरजिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 362/1/4/2239 हिस्सा केवल सिंह - सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह व :व : 73/2239 हिस्सा जरनैल सिंह - सुखदेव सिंह पुत्र लछमन सिंह 692/2/3/2239 हिस्सा जसपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह 80/2239 हिस्सा लवप्रीत सिंह -अर्शदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 89/2239 हिस्सा ()
1177	42//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.0936	सविंदर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह 129/790

					हिस्सा , मंजीत सिंह पुत्र बेला सिंह 4/79 हिस्सा कश्मीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , ()
1178	42//15/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.129	अजित सिंह पूत र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिस्सा , अजित कौर विडो 352/2107 हिस्सा , सुखाबंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1179	42//15/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	15/2/2 - (1-18) अजित सिंह पूत र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिस्सा , अजित कौर विडो 352/2107 हिस्सा , सुखाबंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1180	42//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.3035	अजित सिंह पूत र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिस्सा , अजित कौर विडो 352/2107 हिस्सा , सुखाबंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1181	42//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	अजित सिंह पूत र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिस्सा , अजित कौर विडो 352/2107 हिस्सा , सुखाबंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1182	42//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	अजित सिंह पूत र तारा सिंह 1150/2107 हिस्सा , कुलवंत सिंह पुत्र तारा सिंह 28/2107 हिस्सा , अजित कौर विडो 352/2107 हिस्सा , सुखाबंदर सिंह पुत्र हरवंस सिंह 577/2107 हिस्सा , ()
1183	42//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1163	हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/3 हिस्सा , सविंदर सिंह -कश्मीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह बी :बी : 2/३ हिस्सा , ()
1184	42//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	सविंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , हरदीप

					सिंह पुत्र हरपाल सिंह 129/790 हिस्सा , मंजीत सिंह पुत्र बेला सिंह 4/79 हिस्सा कश्मीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , ()
1185	42//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.1012	जसविंदर कौर पत्नी 1/6 हिस्सा गुरजीत सिंह पुत्र जसदेव 1/2 हिस्सा हरदीप सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 हिस्सा ()
1186	42//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.2984	हरभजन सिंह पुत्र उजागर सिंह ()
1187	42//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3212	सविंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह 129/790 हिस्सा , मंजीत सिंह पुत्र बेला सिंह 4/79 हिस्सा कश्मीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , ()
1188	42//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सविंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , हरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह 129/790 हिस्सा , मंजीत सिंह पुत्र बेला सिंह 4/79 हिस्सा कश्मीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1/3 हिस्सा , ()
1189	47//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सरबजीत सिंह पुत्र केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह बी :बी : 1146/2972 हिंसा , हरदीश कौर वाइफ केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 381/2972 हिज , जगतार सिंह सोन सोचा सिंह 151/1486 हिज ()
1190	48//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1644	सरबजीत सिंह पुत्र केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह बी :बी : 1146/2972 हिंसा , हरदीश कौर वाइफ केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 381/2972 हिज , जगतार सिंह सोन सोचा सिंह 151/1486 हिज

					0
1191	48//1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	सरबजीत सिंह पुत्र केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह बी :वी : 1146/2972 हिंसा , हरदीश कौर वाइफ केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 381/2972 हिज , जगतार सिंह सोन सोचा सिंह 36/3/4/221 hisa, ¼दर 35@88 हिंसा ½ दर्शन सिंह पुत्र बग्गा सिंह 35/2/3/22/39 हिंसा बलविंदर सिंह पुत्र र्वेल सिंह 249/2239 हिंसा कुलविंदर सिंह पुत्र र्वेल सिंह 240/2239 हिंसा नरिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 417/1/4 /2239 हिंसा हरजिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 362/1/4/2239 हिंसा केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह व :व : 73/2239 हिंसा जरनैल सिंह -सुखदेव सिंह पुत्र लछमन सिंह 692/2/3/2239 हिंसा जसपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह 80/2239 हिंसा लवप्रीत सिंह -अर्शदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 89/2239 हिंसा ¼दर 3@38 हिंसा ½
					0
1192	48//1/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	दर्शन सिंह पुत्र बग्गा सिंह 35/2/3/22/39 हिंसा बलविंदर सिंह पुत्र र्वेल सिंह 249/2239 हिंसा कुलविंदर सिंह पुत्र र्वेल सिंह 240/2239 हिंसा नरिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 417/1/4 /2239 हिंसा हरजिंदर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 362/1/4/2239 हिंसा केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह व :व : 73/2239 हिंसा जरनैल सिंह -सुखदेव सिंह पुत्र लछमन सिंह 692/2/3/2239 हिंसा जसपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह 80/2239 हिंसा लवप्रीत सिंह -अर्शदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 89/2239 हिंसा
					0
1193	48//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1315	सरबजीत सिंह पुत्र केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह बी :वी : 1146/2972 हिंसा , हार्डिस कौर वाइफ केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह

					1143/5944 हिंसा , बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिस्सा , सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 381/2972 हिज , जगतार सिंह सोन सोचा सिंह 151/1486 His ()
1194	48//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सरबजीत सिंह पुत्र केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह बी :बी : 1146/2972 हिंसा , हार्डिस कौर वाइफ केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिंसा , बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 1143/5944 हिस्सा , सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 381/2972 हिज , जगतार सिंह सोन सोचा सिंह 151/1486 His ()
1195	48//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.3364	पेयारा सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र केसर सिंह ()
1196	48//13	निजी	सिंचित (चाही)	0.2832001	पेयारा सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र केसर सिंह ()
1197	48//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0759	पेयारा सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र केसर सिंह ()
1198	48//18/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.2226	पेयारा सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र केसर सिंह ()
1199	48//18/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	सिंदर कौर विद्वा 160/1171 हिस्सा जोगिन्दर सिंह -बलविंदर सिंह पुत्र जानइल सिंह बी :बी : 1011/1171 हिस्सा ()
1200	48//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	सिंदर कौर विद्वा 160/1171 हिस्सा जोगिन्दर सिंह -बलविंदर सिंह पुत्र जानइल सिंह बी :बी : 1011/1171 हिस्सा ()
1201	48//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.2782	सरबजीत सिंह केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह 7/221 हिस्सा , हरजिंदर सिंह पुत्र गेयं सिंह 31/1/2/221 हिंसा , बलविंदर सिंह किर्पिल। सिंह 37/ 221 हिस्सा , जरनैल सिंह लछमन सिंह

					363/4/221 हिस्सा ,लवप्रीत सिंह अर्शदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह 37/221 हिस्सा , नरिंदर सिंह पुत्र गेयं सिंह 35/221 हिस्सा , सुखदेव सिंह पुत्र लछमण सिंह 36/3/4/221 हिस्सा , ()
1202	48//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	सिंदर कौर विद्वा 160/1171 हिस्सा जोगिन्दर सिंह -बलविंदर सिंह पुत्र जानइल सिंह बी :बी : 1011/1171 हिस्सा ()
1203	48//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3389	सिंदर कौर विद्वा 160/1171 हिस्सा जोगिन्दर सिंह -बलविंदर सिंह पुत्र जानइल सिंह बी :बी : 1011/1171 हिस्सा ()
1204	48//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.2731	हरबंस सिंह - पिरतपल सिंह मंजीत सिंह पुत्र बेला बी :बी : ()
1205	48//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0835	पेयारा सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र केसर सिंह ()
1206	48//9	निजी	सिंचित (चाही)	0.4046	पेयारा सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र केसर सिंह ()
1207	54//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	हरबंस सिंह - पिरतपल सिंह मंजीत सिंह पुत्र बेला बी :बी : ()
1208	54//20	निजी	सिंचित (चाही)	0.1062	20/1 - (0-1) रणजीत सिंह पुत्र व जसवीर कौर विधवा लखविंदर सिंह बी. बी. 1/3 हिस्सा करनैल सिंह दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2/3 हिस्सा , 20/2 - (2-1) करनैल सिंह - दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 4/9 हिस्सा , जसवीर कौर विडो 4/9 हिस्सा , रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 1/9 हिस्सा ()
1209	54//21	निजी	सिंचित (चाही)	0.3642	रणजीत सिंह 1/9 हिस्सा पुत्र व जसवीर कौर विधवा लखविंदर सिंह 4/9 हिस्सा करनैल सिंह दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 4/9 हिस्सा ()
1210	54//22	निजी	सिंचित (चाही)	0.0329	रणजीत सिंह पुत्र व जसवीर कौर विधवा लखविंदर सिंह बी. बी. 1/3

					हिस्सा करनैल सिंह दिलवाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2/3 हिस्सा ()
1211	55//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1212	55//15	निजी	सिंचित (चाही)	0.3996	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1213	55//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.0733	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1214	55//17/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1215	55//25/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0253	गुरुमुख सिंह जतिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
1216	55//25/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1947	करनैल सिंह - दिलवाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह 4/9 हिस्सा , जसवीर कौर विडो 4/9 हिस्सा , रणजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह 1/9 हिस्सा ()
1217	55//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	सिंदर कौर विद्वा 160/1171 हिंसा जोगिन्दर सिंह -वलविंदर सिंह पुत्र जानइल सिंह बी :बी : 1011/1171 हिस्सा ()
1218	55//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.4021	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1219	55//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0733	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1220	55//6/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1239	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 मंजीत कौर विडो कुलदीप सिंह १ ३ हिंसा हरमनप्रीत सिंह सन कुलदीप सिंह २ ३

					()
1221	55//6/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1416	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1222	55//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3465	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1223	55//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	मंजीत कौर विद्वा कुलदीप सिंह 1/3 हिस्सा , हरमनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2/3 ()
1224	62//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0177	(62//5/1/1) गुरुमुख सिंह जतिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
1225	63//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1568	गुरुमुख सिंह जतिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
1226	63//1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1189	करनैल सिंह पुत्र प्रेम पुत्र सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , सुखराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/6 हिस्सा , जसवीर कौर माता राजविंदर सिंह 1/6 हिस्सा , ()
1227	63//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.1391	10/2 - (2-15) गुरुमुख सिंह जतिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह ()
1228	63//11	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	हरजिंदर कौर वाइफ बलदेव सिंह सन तारा सिंह ()
1229	63//12/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.3237	बलदेव सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र आशा सिंह ()
1230	63//12/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0405	बलदेव सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र आशा सिंह ()
1231	63//13/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0961	बलदेव सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र आशा सिंह ()
1232	63//13/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	सुखविंदर सिंह राजपाल सिंह जसकरण सिंह सन करनैल सिंह बी बी १ २ हिंसा कर्मजीत सिंह सन

					सुख्तयार सिंह १ २ हिंसा ()
1233	63//18	निजी	सिंचित (चाही)	0.2554	बलदेव सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र आशा सिंह ()
1234	63//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	बलदेव सिंह पुत्र तारा सिंह पुत्र आशा सिंह ()
1235	63//2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1821	करनैल सिंह पुत्र प्रेम पुत्र सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , सुखराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/6 हिस्सा , जसवीर कौर माता राजविंदर सिंह 1/6 हिस्सा , ()
1236	63//22/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0228	घरबचन कौर पत्नी केवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरबजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1237	63//23	निजी	सिंचित (चाही)	0.3743	गूरबचन कौर पत्नी केवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरबजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1238	63//24	निजी	सिंचित (चाही)	0.0506	घरबचन कौर पत्नी केवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरबजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1239	63//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0051	सुखविंदर सिंह - राजपाल सिंह जसकरण सिंह करनैल सिंह बी. बी.

					1/2 हिस्सा करमजीत सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह 1/2 हिस्सा ()
1240	63//9/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.1113	करनैल सिंह पुत्र प्रेम पुत्र सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , दिलबाग सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र झंडा सिंह 1/3 हिस्सा , सुखराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/6 हिस्सा , जसवीर कौर माता राजविंदर सिंह 1/6 हिस्सा , ()
1241	63//9/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.1492	हरजिंदर कौर पत्नी बलदेव सिंह पुत्र तारा सिंह ()
1242	66//21/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0607	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 446/1040 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 891/1040 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 891/1040 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 297/2080 हिस्सा ()
1243	67//14	निजी	सिंचित (चाही)	0.1818	घरबचन कौर पत्नी केवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरबजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1244	67//15/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0531	बलजिंदर सिंह पुत्र बिसन सिंह 148//1868 हिस्सा , सुखचैन सिंह पुत्र बिसन सिंह 628/1868 हिस्सा , गुरविंदर सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 200/1868 हिस्सा , परमजीत सिंह पुत्र सोचा सिंह 183/1868 हिंसा , सरबजीत सिंह -केवल सिंह पुत्र किरपाल सिंह 80/1868 हिंसा , , सतपाल सिंह पुत्र तरलोचन सिंह 314/1/2/1868 हिस्सा , राम सिंह पुत्र तरलोचन सिंह 314/1/2/1868 हिस्सा ()
1245	67//15/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0632	बलवीर सिंह पुत्र चरण सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/2 हिस्सा सुबमप्रीत सिंह so लवप्रीत सिंह 1/2 हिस्सा

					()
1246	67//16	निजी	सिंचित (चाही)	0.2984	बलवीर सिंह पुत्र चरण सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/2 हिस्सा सुबमप्रीत सिंह so लवप्रीत सिंह 1/2 हिस्सा ()
1247	67//17	निजी	सिंचित (चाही)	0.0152	बलवीर सिंह पुत्र चरण सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/2 हिस्सा सुबमप्रीत सिंह so लवप्रीत सिंह 1/2 हिस्सा ()
1248	67//25	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	अर्शप्रीत कौर पुत्री लखवीर सिंह पुत्र चरण सिंह 1/9 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र चरण सिंह 1/3 हिस्सा मंजीत कौर पत्नी व सुबमप्रीत सिंह पुत्र लखवीर सिंह 2/9 हिस्सा ()
1249	67//3	निजी	सिंचित (चाही)	0.1871	घरबचन कौर पत्नी कवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरवजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1250	67//4	निजी	सिंचित (चाही)	0.2048	घरबचन कौर पत्नी कवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरवजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1251	67//6	निजी	सिंचित (चाही)	0.0076	बलजिंदर सिंह पुत्र विशान सिंह 1/3 हिस्सा , सुखचैन सिंह पुत्र बिसन सिंह 1/3 हिस्सा , सतपाल सिंह , राम सिंह पुत्र तरलोचन सिंह 1/3 हिस्सा ()
1252	67//7	निजी	सिंचित (चाही)	0.3541	घरबचन कौर पत्नी कवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरवजीत सिंह पुत्र अमर सिंह

					1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1253	67//8	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	घरबचन कौर पत्नी कवलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 20/137 हिस्सा , मनदीप सिंह - जसकरण सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह 1/4 हिस्सा ,, बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह 468/3152 हिस्सा सरबजीत सिंह पुत्र अमर सिंह 1108/3152 हिस्सा , कमलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह 57/548 हिस्सा ()
1254	73//5/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	अर्शप्रीत कौर पुत्री लखवीर सिंघ पुत्र चरण सिंह 1/9 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र चरण सिंह 1/3 हिस्सा मंजीत कौर पत्नी सुवमप्रीत सिंह पुत्र लखवीर सिंह 2/9 हिस्सा ()
1255	74//1/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 446/1040 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 891/1040 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 891/1040 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 297/2080 हिस्सा ()
1256	74//1/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0025	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 590/1376 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 1179/5504 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 1179/5504 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 393/2752 हिस्सा ()
1257	74//1/3	निजी	सिंचित (चाही)	0.2124	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 446/140 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 891/4160 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 891/4160 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 297/2080 हिस्सा ()
1258	74//10	निजी	सिंचित (चाही)	0.22	(74/10/2) (4-7) सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 65/456 हिस्सा केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र

					किरपाल सिंह 98/228 हिस्सा हरदीश अंकुर पत्नी केवल सिंह 65/304 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 65/304 हिस्सा ()
1259	74//11/2/1	निजी	सिंचित (चाही)	0.0101	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 590/1376 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 1179/5504 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 1179/5504 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 393/2752 हिस्सा ()
1260	74//11/2/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0202	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 590/1376 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 1179/5504 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 1179/5504 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 393/2752 हिस्सा ()
1261	74//12	निजी	सिंचित (चाही)	0.1467	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 590/1376 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 1179/5504 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 1179/5504 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 393/2752 हिस्सा ()
1262	74//19	निजी	सिंचित (चाही)	0.2023	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 590/1376 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 1179/5504 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 1179/5504 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 393/2752 हिस्सा ()
1263	74//9/2	निजी	सिंचित (चाही)	0.0126	केवल सिंह -सरबजीत सिंह पुत्र किरपाल सिंह 590/1376 हिस्सा बलविंदर कौर पत्नी सरबजीत सिंह 1179/5504 हिस्सा हरदीश कौर पत्नी केवल सिंह 1179/5504 हिस्सा सुखविंदर कौर पत्नी किरपाल सिंह 393/2752 हिस्सा ()
1264	80	अन्य(मुश्तरका मालकन)	गैर मुमकिन(घगगर)	0.4249	अन्य(मुश्तरका मालकन) ()

1265	81	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन(घगगर)	0.1543	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1266	82	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.1214	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1267	86	अन्य(मुशतरका मालकन)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0733	अन्य(मुशतरका मालकन) ()
1268	9//5	निजी	सिंचित (चाही)	0.0481	जंगीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह पुत्र निहाल सिंह 1/2 हिस्सा , भूपिंदर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6 हिस्सा , जसविंदर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6 हिस्सा , हरदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र अर्जन सिंह 1/6 हिंसा , ()
1269	98	सरकारी(पंजाब सरकार)	गैर मुमकिन(रजवाहा)	0.22	सरकारी(पंजाब सरकार) ()
			कुल	206.9719597	

[फा. सं. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3925(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1445(E) dated 11 May, 2020 and S.O. 1713(E) dated 2 June, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Delhi - Amritsar - Katra National Highway No. NE- 5 on the stretch of land from Km. 135.2 to Km. 163.8 (patran) in the district of PATIALA in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Ajit(Punjabi)” and “Times of India(English)” both dated 22 May, 2020 and 07 June, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Delhi - Amritsar - Katra National Highway No. NE- 5 on the stretch of land from Km. 135.2 to Km. 163.8 (patran) in the district of PATIALA in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB		District: PATIALA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Patran					
Village: Banwala					
1	12//15	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	Gurdarshan Singh son Shamsher Singh son Jaswant Singh
2	12//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3288	Gurdarshan Singh son Shamsher Singh son Jaswant Singh
3	12//25	Private	Irrigated (chahi)	0.258	Gurdarshan Singh son Shamsher Singh son Jaswant Singh
4	12//4	Private	Irrigated (chahi)	0.129	Gurdarshan Singh son Shamsher Singh son Jaswant Singh
5	12//7	Private	Irrigated (chahi)	0.1062306	Gurdarshan Singh son Shamsher Singh son Jaswant Singh
6	13//20	Private	Irrigated (chahi)	0.2757	Lal singh son Mahinder singh son sampuran singh
7	13//21	Private	Irrigated (chahi)	0.2984	1.(13//21/1)- (5-2) Lal singh son Mahinder singh son sampuran singh, 2. (13//21/2) -(0-16) bikramdev singh sonhardev singh 1/2 hisa, gurdarshan singh son samsher singh 1/2 hisa,
8	131	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Pahi)	0.0051	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
9	136	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0506	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
10	146	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0303	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
11	18//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	sandeep kaur w/o jaspreetr singh 20/98 hissa harmesh singh s/o baru singh 20/98

					hissa parsini widow baru singh 40/98 hissa sukhwinder kaur wido va jaspreet singh son gurjeet singh 18/98 hissa
12	18//1/2	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.086	Lal singh son Mahinder singh son sampuran singh
13	18//10	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	1.(18//10/2) -(5-2) - Shukwinder kaur widow gurjeet singh 1/2 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 1/2 hissa 2. (18/10/1)- (2-10) amarjeet singh s/o arjan singh 44/50 Shukwinder kaur widow gurjeet singh 3/50 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 3/50 hissa
14	18//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	11/1 (0-8) Shukwinder kaur widow gurjeet singh 1/4 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 1/4 hissa lal singh son mahender singh 1/2 hissa 11/2 (7-4) Shukwinder kaur widow gurjeet singh 1/2 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 1/2 hissa
15	18//12	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Shukwinder kaur widow gurjeet singh 1/2 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 1/2 hissa
16	18//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1973	Shukwinder kaur widow gurjeet singh 1/2 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 1/2 hissa
17	18//2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Lal singh son Mahinder singh son sampuran singh
18	18//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3566	20/1 (6-19) - Shukwinder kaur widow gurjeet singh 1/2 hisa, Jasspreet singh s/o gurjeet singh 1/2 hissa, 20/2 (0-2) sukhwinder kaur wido va jaspreet singh son gurjeet singh son joginder singh 1/2 hisa, lal singh son mahinder singh 1/2 hisa,
19	18//21/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	jaswinder kaur wido va paramjeet son va karmjeet kaur douter balwinder singh B:B:
20	18//22	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	jaswinder kaur wido va paramjeet son va karmjeet kaur douter balwinder singh B:B:

21	18//9	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	sukhwinder kaur wido gurjeet singh 1/2hisa, jaspreet singh son gurjit singh 1/2 hisa,
22	19//15	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin (Tatiyan)	0.0228	Nagar panchayat doh
23	19//5	Government(Punjab Mandi Board)	Gair Mumkin	0.1821	Punjab Mandi Board
24	19//6	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin Dana Mandi	0.1012	Nagar panchayat deh
25	27//1	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.2074	jaswinder kaur wido va parmjeet singh son va karmjeet kaur douthar balwinder singh B:B:
26	27//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1163	parmjeet singh son of balwinder singh mistri
27	27//11/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0379	parmjeet singh son of balwinder singh mistri
28	27//11/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karmjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa,baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
29	27//12	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karmjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa,baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
30	27//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karmjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa,baljeet

					singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
31	27//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Shamsher singh s/o kashmir singh 291/1844 dharmindee singh karamjeet singh s/o shukhwant singh B: B: 114/211 hissa baljit kaur widow navkarandeep singh s/o shamsher singh 97/844 hissa mistri
32	27//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	Shamsher singh s/o kashmir singh 291/1844 dharmindee singh karamjeet singh s/o shukhwant singh B: B: 114/211 hissa baljit kaur widow navkarandeep singh s/o shamsher singh 97/844 hissa mistri
33	27//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karnjeet singh dharmindee singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
34	27//19	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karnjeet singh dharmindee singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
35	27//2	Private	Irrigated (chahi)	0.349	Bikramdev Singh son Hardev Singh son Jaswant Singh

36	27//20	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karnjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeer singh 674/1/4/3381 hissa
37	27//22	Private	Irrigated (chahi)	0.3136	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karnjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeer singh 674/1/4/3381 hissa
38	27//23/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karnjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeer singh 674/1/4/3381 hissa
39	27//23/2	Private	Irrigated (chahi)	0.172	Shamsher singh s/o kashmir singh 291/1844 dharminder singh karamjeet singh s/o shukhwant singh B: B: 114/211 hissa baljit kaur widow navkarandeep singh s/o shamsher singh 97/344 hissa mistri
40	27//26	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa,

					karmjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/3/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
41	27//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Harbhajan Singh son Hardev Singh son Jaswant Singh
42	27//9/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Bikramdev Singh son Hardev Singh son Jaswant Singh
43	27//9/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2074	sinderjeet kaur wido karnjeet singh son birbal singh 363/2/3/3381 hisa, mehrban singh son karnjeet singh 727/1/3/3381 hisa, karmjeet singh dharminder singh son sukhwant singh B:B: 352/1455 hisa, baljeet singh son pooran singh 335/3381 hisa, baljeet kaur wido navkirndeep singh 224/1/4/3381 hisa, shamsher singh son kasmeeer singh 674/1/4/3381 hissa
44	35//12	Private	Irrigated (chahi)	0.086	12/2 Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri
45	35//13	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri
46	35//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri
47	35//17	Private	Irrigated (chahi)	0.1391	1.(35//17/1) (0-13) Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri 2. (35//17/2) (2-2) kashmeer singh s/o parkash chand s/o uttam chand mistr
48	35//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	1.(35//18/1) (2-6) Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri 1.(35//18/2) (5-11)

					kashmeer singh s/o parkash chand s/o uttam chand mistri
49	35//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	kashmeer singh s/o parkash chand s/o uttam chand mistri
50	35//2	Private	Irrigated (chahi)	0.2377	1. (35//2/2) gurbej singh amratpal singh son gurunam singh son ajeet singh 1/4 hissa harbhajn singh son ajeet singh son singara singh 1/4 hissa balveer singh gumail singh mejar singh son karnel singh B.B. 1/2 hissa
51	35//23	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	Pritamdas son esar singh mistri
52	35//24	Private	Irrigated (chahi)	0.2175	24/1 kashmeer singh s/o parkash chand s/o uttam chand mistr
53	35//3/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	gurbej singh amratpal singh son gurunam singh son ajeet singh 1/4 hissa harbhajn singh son ajeet singh son singara singh 1/4 hissa balveer singh gumail singh mejar singh son karnel singh B.B. 1/2 hissa
54	35//3/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	1. (35//3/2/1) (4-10) harnek singh son lal singh 9/514 hissa kulwant singh jagjeet singh s/o shukhdev singh B: B: 158/514 hissa manpreet singh s/o sewa singh 347/1028 hissa magh singh s/o lal singh 347/1028 2. (35//3/2/2) (0-8) Shamsheer singh s/o kashmir singh 291/1844 karmjeet singh dharinder singh s/o shukhwant singh B: B: 114/211 hissa baljit kaur widow navkarandeep singh s/o shamsheer singh 97/344 hissa mistri
55	35//7	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri
56	35//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.3187	Surjit singh, baldev singh mohan singh kuldeep singh s/o kartar singh s/o sham singh mistri
57	35//8/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	balveer singh mejar singh son karneil singh son singara singh 314/1002

					hisa, harbhajan singh son ajeet singh 177/668 hisa, gurmail singh s/o karnail singh 157/1002 hissa amritpal singh gurbhej singh son gurunam singh 177/668
58	35//9	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	balveer singh mejar singh son karneil singh son singara singh 314/1002 hisa, harbhajan singh son ajeet singh 177/668 hisa, gurmail singh s/o karnail singh 157/1002 hissa amritpal singh gurbhej singh son gurunam singh 177/668
59	42//13	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
60	42//14	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
61	42//15	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.0405	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala

					Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
62	42//16	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
63	42//17	Private	Irrigated (chahi)	0.4021	Mukhtiar Singh son Sampurn Singh son Kahla Singh
64	42//18	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder

					singh 35/374 hissa
65	42//24	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	Mukhtiar Singh son Sampurn Singh son Kahla Singh
66	42//25	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.2226	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa (dar 2/1/2/88) gurdeep singh kashmeer singh son praksh chand 85/1/2/88
67	42//3/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
68	42//3/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Gurdeep Singh son Prakash Chand
69	42//4	Private	Irrigated (chahi)	0.2883	Gurdeep singh s/o prakash chand mistri
70	42//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	1. (42//7/1) -(3-4) , 2. (42//7/2) -(4-0) Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12

					Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
71	42//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	1 (42//8/1) (3-13) , 2. 42//8/2 -(0-1) Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
72	53//10	Private	Irrigated (chahi)	0.043	Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa
73	54//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	kulveer singh son mahinder singh son kartar singh

74	54//4/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0784	Mukhtiar Singh son Sampurn Singh son Kahla Singh
75	54//4/2	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.1517	kulveer singh son mahinder singh son kartar singh
76	54//5	Private	Irrigated (chahi)	0.306	5/1 (2-12) Gurdeep singh kashmeer singh son prakash chand 5/2 -(3-9) kulveer singh s/o mohinder singh
77	54//6	Private	Irrigated (chahi)	0.4628	6/1 (0-8) Mahinder Singh son Thakur Singh son Mala Singh 896/2/3/3740 Hisa, Kartar Kaur Mata Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa, Amarjeet Kaur widow Balkar Singh Thakur Singh 1/12 Hisa, Amandeep Singh son Balkar Singh son Thakar Singh 1/12 Hisa, Mandeep Kaur daughter Balkar Singh son Thakur Singh 1/12 Hisa dayal singh son thakur singh son malla singh 832/2/3/3740 hissa nishan singh son gurmukh singh 207/1870 hissa charna singh son mahinder singh 35/374 hissa 6/2 (0- 12) Gurdeep singh kashmeer singh son prakash chand 6/3 -(8-3) kulveer singh s/o mohinder singh
78	54//7	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	kulveer singh son mahinder singh son kartar singh
79	59/1	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Pahi)	0.0228	Provisnal GORV.
80	59min	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin Pahi, Drain	0.0278	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
81	68	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Tatiyan)	0.0101	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
82	74	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Pahi)	0.0051	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
83	75	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Road)	0.129	Mustarka Malkan Hasab Rasad Rakba Khewat
Village: Brass					
84	107//15	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274,JASVEER KAUR widow RAGVEER SINGH 209/2274
85	107//5	Private	Irrigated (chahi)	0.1922	KULWINDER SINGH

					SON MAHNDER SINGH 564/1973 HISA, JASWANT SINGH SON NISHAN SINGH 75/1973 HISSA, NILAM SINGLA WIFE SANJIV KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973, PINKI SINGLA WIFE PARDEEP KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 376/1973 HISSA, JAGTAR SINGH SON JASWANT SINGH 300/1973 HISA, SANJIV KUMAR 111/1973 HISA, VA PARDEEP KUMAR 149/1973 HISA, SON GIRDHARI LAL, GURDEEP SINGH- HARMEET SINGH SON JOGINDER SINGH BA:BA: 13/1973 HISA, GIRDHARI LAL SON MOTI LAL 120/193 HISA, HAMEER KAUR WIFE KAKU singh 120/1973
86	107//6	Private	Irrigated (chahi)	0.0759	SUPINDER SINGH SON SAMSHER SINGH SON BABU SINGH
87	108//1	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	KULWINDER SINGH SON MAHNDER SINGH 564/1973 HISA, JASWANT SINGH SON NISHAN SINGH 75/1973 HISSA, NILAM SINGLA WIFE SANJIV KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973, PINKI SINGLA WIFE PARDEEP KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 376/1973 HISSA, JAGTAR SINGH SON JASWANT SINGH 300/1973 HISA, SANJIV KUMAR 111/1973 HISA, VA PARDEEP KUMAR 149/1973 HISA, SON GIRDHARI LAL, GURDEEP SINGH- HARMEET SINGH SON JOGINDER SINGH BA:BA: 13/1973 HISA, GIRDHARI LAL SON MOTI LAL 120/193 HISA,

					HAMEER KAUR WIFE KAKU singh 120/1973
88	108//10	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	SUPINDER SINGH SON SAMSHER SINGH SON BABU SINGH 4
89	108//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3616	JAGWINDER SINGH SON RAGHVEER SINGH 2065/2274 JASVEER KAUR WINDOW RAGHVEER SINGH 209/2274
90	108//12	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274, JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH 209/2274
91	108//19	Private	Irrigated (chahi)	0.3288	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274, JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH 209/2274
92	108//2	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	KULWINDER SINGH SON MAHNDER SINGH 564/1973 HISA, JASWANT SINGH SON NISHAN SINGH 75/1973 HISSA, NILAM SINGLA WIFE SANJIV KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973, PINKI SINGLA WIFE PARDEEP KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 376/1973 HISSA, JAGTAR SINGH SON JASWANT SINGH 300/1973 HISA, SANJIV KUMAR 111/1973 HISA, VA PARDEEP KUMAR 149/1973 HISA, SON GIRDHARI LAL, GURDEEP SINGH- HARMEET SINGH SON JOGINDER SINGH BA:BA: 13/1973 HISA, GIRDHARI LAL SON MOTI LAL 120/193 HISA, HAMEER KAUR WIFE KAKU singh 120/1973
93	108//20	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274, JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH

					209/2274
94	108//21	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274,JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH 209/2274
95	108//22	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274,JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH 209/2274
96	108//23	Private	Irrigated (chahi)	0.0379	JAGWINDER SINGH SON RAGVEER SINGH 100/420, JASVEER KAUR WIFE RAGVEER SINGH 320/420
97	108//9	Private	Irrigated (chahi)	0.091	SUPINDER SINGH SON SAMSHER SINGH SON BABU SINGH
98	115//1	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274,JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH 209/2274
99	115//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.091	Pargat Singh son Dalveer Singh son Jeet Singh
100	115//13	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	GURPREET KAUR WIFE GURBAKSHISH SINGH 14/1/2/87 HISA,GURBAKHSHISH SINGH SON GURCHARN SINGH14/1/2/87 HISA, GURDEV KAUR WIFE GURCHARN SINGH 38/1/2/87 HISA, MAGHAR SON JANGEER 19/1/2/87 HISA
101	115//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	MAGHAR SINGH SON JANGEER SINGH SON SANTA SINGH
102	115//17	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	KRISHAN SLAL SON KHAJANCHI RAM
103	115//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1189	KRISHAN SLAL SON KHAJANCHI RAM
104	115//19/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0556	Gram Panchayat
105	115//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	JAGWINDER SINGH SON OF RAGVEER 2065/2274,JASVEER KAUR VIDHBA RAGVEER SINGH 209/2274

106	115//23/1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1846	SURJEET SINGH SON ATMA SINGH -JAGTAR SINGH SON ATMA SINGH
107	115//23/1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Pargat Singh son Dalveer Singh son Jeet Singh
108	115//23/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	KRISHAN SLAL SON KHAJANCHI RAM
109	115//24	Private	Irrigated (chahi)	0.2327	KRISHAN SLAL SON KHAJANCHI RAM
110	115//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	GURPREET KAUR WIFE GURBAKHS HIS SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURBKHS HIS SINGH SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURDEV KAUR WIFE GURCHARN SINGH SON GURBAKHASH SINGH 745/1309
111	115//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	GURPREET KAUR WIFE GURBAKHS HIS SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURBKHS HIS SINGH SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURDEV KAUR WIFE GURCHARN SINGH SON GURBAKHASH SINGH 745/1309
112	115//8/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1796	GURPREET KAUR WIFE GURBAKHS HIS SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURBKHS HIS SINGH SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURDEV KAUR WIFE GURCHARN SINGH SON GURBAKHASH SINGH 745/1309
113	115//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3313	GURPREET KAUR WIFE GURBAKHS HIS SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURBKHS HIS SINGH SON GURCHARN SINGH 282/1309 HISA, GURDEV KAUR WIFE GURCHARN SINGH SON GURBAKHASH SINGH 745/1309
114	131//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718

					SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA,PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV 877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH
--	--	--	--	--	--

					219/12718 HISA,
115	131//14	Private	Irrigated (chahi)	0.3616	<p>HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718 SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA,PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV</p>

					877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH 219/12718 HISA,
116	131//15	Private	Irrigated (chahi)	0.177	HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718 SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA, PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND

					SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV 877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE
					SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH 219/12718 HISA,
117	131//16	Private	Irrigated (chahi)	0.2984	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
118	131//17	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718 SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA,PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON

					MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV 877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH 219/12718 HISA,
119	131//24	Private	Irrigated (chahi)	0.1543	24/1 - (0-1) , 24/2 -(3-0) - Jai Singhs son Sukhdev Singh
120	131//25	Private	Irrigated (chahi)	0.3945	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
121	131//3	Private	Irrigated (chahi)	0.2048	JASPAL SINGH - AMREEK SINGH SON MEHMA BA: BA: 2/3 HISA, JAI SINGH SON SUKHDEV SINGH 1/3 HISA,
122	131//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3515	HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718 SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA,PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON

					<p>NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV 877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH 219/12718 HISA,</p>
123	131//6	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	<p>HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718 SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA,PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM</p>

					<p>SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV 877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH 219/12718 HISA,</p>
124	131/7	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	<p>HARNEK SINGH SON JANG SINGH 1710/12718 SIHA, JAI SINGH SON SUKHADEV SINGH 625/12718 HISS, JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH ,547/12718 HISA, AMRIK SINGH SON MEHMA ,384/1/2/12718 HISSA, SATNAM SINGH SO OF HARNEK ,640/12718 HISA, NAHAR SINGH SON BALDEAB 638/12718 GULZAR SINGH SON BALDEV SINGH 1180/1/2/12718 HISA, PARMJIT KAUR WIFE DHARM SINGH SON NACHHATER SINGH 310/12718 HISA, SUPINDER SINGH- BHUPINDER SINGH</p>

					SON JAI SINGH 1488/12718 HISA, PARAMJEET KAUR MOTHER BA; SATNAM SINGH SON NIRMAL SINGH 13/1/2/12718 HISA, PARGAT SINGH - MAKHAN SINGH SON NAHAR SINGH BA: BA: 892/12718 HISA, DARSAN SINGH SON GULJAR SINGH 349/12718 HISA, GURWINDER SINGH SON JAGPAL SINGH 429/12718 HISSA, JASWINDER SINGH SON AMREEK SINGH 478/12718 HISA, BIMLA DEVI WIFE LALI RAM SON PURI RAM 7/12718 HISA, SURESH KUMAR GOYAL SON KARM CHAND 638/12718, HISA, RANJEET KAUR WIFE JAGPAL SINGH SON MEHMA SINGH 478/1/2/12718 HISA, NARESH KUMAR GOYAL SON KARAM CHAND 319/12718 HISA, HARPAL SINGH SON JASDEV SINGH 1/12718 HISA, KARAM CHAND SON OF TELU RAM 66/12718HISA, SURJEET KAUR WIFE JAI SINGH SON SUKHDEV 877/12718 HISA, GURPREET KAUR WIFE SATGUR SINGH SON SURJEET SINGH 219/12718 HISA,
125	131//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	131//8/1-(1-9)-Jaspal Singh son of Mahma Singh 1/3 part Amrik Singh son of Mahma Singh 1/3 part Jai Singh son of Sukhdev Singh son of Jang Singh 1/3 part,131//8/2-(0- 13)Jaspal Singh son of Mahma Singh 1/2 part Amrik Singh son of Mahma Singh 1/2 part
126	132//21	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	GURMEL KAUR VIDHBA 376/3005 HISA, VA: JARNEL SINGH - SATPAL SINGH SON SUKHWINDER SINGH 1128/3005 HISA,

					KULDEEP SINGH SON CHHAJU SINGH 365/3005 HISSA, CHHAJU SINGH SON HARCHAND SINGH 640/1/2/3005 HISSA, YADWINDER SINGH- NIRBHE SINGH SON SURJEET SINGH VA:VA: 126/3005 HISSA, SATNAM SINGH MANPREET SINGH SON
					NIRMAL SINGH 361/3005 HISA, RAJINDER KAUR WIFE LAKHWINDER SINGH SON GURMEET SINGH 10/1/2/3005 HISAA,
127	134//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0683	GURMEL KAUR VIDHBA 376/3005 HISA, VA: JARNEL SINGH - SATPAL SINGH SON SUKHWINDER SINGH 1128/3005 HISA, KULDEEP SINGH SON CHHAJU SINGH 365/3005 HISSA, CHHAJU SINGH SON HARCHAND SINGH 640/1/2/3005 HISSA, YADWINDER SINGH- NIRBHE SINGH SON SURJEET SINGH VA:VA: 126/3005 HISSA, SATNAM SINGH MANPREET SINGH SON NIRMAL SINGH 361/3005 HISA, RAJINDER KAUR WIFE LAKHWINDER SINGH SON GURMEET SINGH 10/1/2/3005 HISAA,
128	134//1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	MAHINDER SINGH 694/3472 HISA, JAGINDER SINGH 534/3472 HISA, NARINDER SINGH 695/3472 HISSA , HARPAL SINGH 855/3472 HISA, SURJAN SINGH 694/3472 HISA, SON HAKAM SINGH,
129	134//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2352	MAHINDER SINGH 694/3472 HISA, JAGINDER SINGH 534/3472 HISA, NARINDER SINGH 695/3472 HISSA , HARPAL SINGH 855/3472 HISA, SURJAN

					SINGH 694/3472 HISA, SON HAKAM SINGH,
130	134//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3616	MAHINDER SINGH 694/3472 HISA, JAGINDER SINGH 534/3472 HISA, NARINDER SINGH 695/3472 HISSA , HARPAL SINGH 855/3472 HISA, SURJAN SINGH 694/3472 HISA, SON HAKAM SINGH,
131	134//12	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	MAHINDER SINGH 694/3472 HISA, JAGINDER SINGH 534/3472 HISA, NARINDER SINGH 695/3472 HISSA , HARPAL SINGH 855/3472 HISA, SURJAN SINGH 694/3472 HISA, SON HAKAM SINGH,
132	134//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
133	134//20	Private	Irrigated (chahi)	0.4021	20/1 - (6-14) , 20/2 - (1- 5)MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
134	134//21	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
135	135//15/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	MAHINDER SINGH 694/3472 HISA, JAGINDER SINGH 534/3472 HISA, NARINDER SINGH 695/3472 HISSA , HARPAL SINGH 855/3472 HISA, SURJAN SINGH 694/3472 HISA, SON HAKAM SINGH,
136	135//15/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0329	Hakam Singhs son Roshan Singh
137	135//15/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH

					HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
138	135//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
139	135//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
140	135//25/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	MAHINDER SINGH , JAGINDER SINGH , NARINDER SINGH HARPAL SINGH , SURJAN SINGH , SON HAKAM SINGH,B.B.
141	135//4	Private	Irrigated (chahi)	0.0379	TARLOK SHARMA - NAVJOT SHARMA - SHAHIL SARMA SON RAM KUMAR SON KESVA NAND VA:
142	135//5	Private	Irrigated (chahi)	0.3819	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
143	135//6/1	Private	Irrigated (chahi)	0.086	MAHINDER SINGH 694/3472 HISA, JAGINDER SINGH 534/3472 HISA, NARINDER SINGH 695/3472 HISSA , HARPAL SINGH 855/3472 HISA, SURJAN SINGH 694/3472 HISA, SON HAKAM SINGH,
144	135//6/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0936	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
145	147//1	Private	Irrigated (chahi)	0.0632	RANJIT SINGH SON JAGMEL SINGH 1/3 HISA, RAWINDER SINGH SON BALJEET SINGH 1/3 HISA, GURJASHAN SINGH SON HARJEET SINGH 1/3 HISA,
146	156	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0986	Gram Panchayat
147	16//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2605	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH

					SON SEESHA SINGH VA:VA:
148	16//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3794	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
149	16//12	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
150	16//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2276	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
151	16//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3414	20/1 - (3-2) , 20/2 - (3-13) - BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
152	16//21	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
153	16//22	Private	Irrigated (chahi)	0.3288	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
154	16//23	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Jasveer Kaur wife Satnam Singh son Harchand Singh
155	16//9	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
156	166	Government(Punjab Government)	Gair Mumkin(Drain)	0.1644	Maqbooja Mahkma P.W.D
157	17//15	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
158	172	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin Rasta	0.1012	Gram Panchayat
159	174	Government(Provisional Govt.)	Gair Mumkin (Rajwaha)	0.172	Provencial Government
160	31//1	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH -

					LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
161	31//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
162	31//12/1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	KASMEER SINGH RAGVEER SINGH SON MAHIL SINGH VA: MAHIL SINGH SON HARBANS SINGH VA:VA: 20/80 HISSA, PARMJEET KAUR WIFE DHARAM SINGH SON NACHHATER SINGH 60/80 HISA,
163	31//12/1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	KASMEER SINGHRAGVEER SINGH SON MAHIL SINGH VA: MAHIL SINGH SON HARBANS SINGH VA:VA:
164	31//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
165	31//13	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
166	31//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
167	31//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
168	31//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	KASMEER SINGH RAGVEER SINGH SON MAHIL SINGH VA: MAHIL SINGH SON HARBANS SINGH VA:VA: 20/80 HISSA, PARMJEET KAUR WIFE DHARAM SINGH SON NACHHATER SINGH 60/80 HISA,
169	31//2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	BALWINDER SINGH - MANJIT SINGH - LAKHWINDER SINGH SON SEESHA SINGH VA:VA:
170	31//2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.172	Jasveer Kaur wife Satnam Singh son Harchand Singh
171	31//22/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	GRAM Panchayat

172	31//23	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	GRAM Panchayat
173	31//24	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	MEJAR SINGH - CHHAJU SINGH - GURMEL SINGH BANT SINGH - GURPIYAR SINGH - HARPAL SINGHN SON CHANAN SINGH VA:VA:6/7 HISA, RAM SINGH - NIRMAL SINGH SON BARU SINGH 1/7 HISA,
174	31//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Paramjit Kaur wife Dharam Singh son Kapoor Singh
175	31//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
176	31//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3541	JASVEER SINGH URF SUKHVEER SINGH SON DHARAM SINGH
177	38//13	Common(Guru Granth Sahib)	Irrigated (chahi)	0.0809	Shri Guru Granth Sahib
178	38//14	Common(Gram Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.4046	GRAM PANCHAYET
179	38//15	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	NARINDER SINGH - BAL JINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 1/4 HISA, BAL WINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, JAGDEESH KAUR WIFE BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, SIMARANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 1/8 HISSA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 1/8 HISSA,
180	38//16	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	NARINDER SINGH - BAL JINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 1/4 HISA, BAL WINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, JAGDEESH KAUR WIFE BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, SIMARANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 1/8 HISSA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 1/8 HISSA,
181	38//17	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	NARINDER SINGH -

					BAL JINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 1/4 HISA, BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, JAGDEESH KAUR WIFE BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, SIMARANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 1/8 HISSA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 1/8 HISSA,
182	38//18	Common(Guru Granth Sahib)	Irrigated (chahi)	0.0025	Shri Guru Granth Sahib
183	38//24	Private	Irrigated (chahi)	0.2529	balwinder SINGH son rurh singh 127/1/2/347 hisa, baljinder singh - narinder singh so mukhtear singh 87/347 hisa , jasdeep kaur wife balwinder singh son rurh singh 46/347 hisa , simranjeet singh son palwinder singh 43/1/4/347 hisa, jagraj singh son joginder singh 43/1/4/347 hisa,
184	38//25	Private	Irrigated (chahi)	0.3237	NARINDER SINGH - BAL JINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 1/4 HISA, BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, JAGDEESH KAUR WIFE BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, SIMARANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 1/8 HISSA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 1/8 HISSA,
185	38//3	Common(Gram Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3187	GRAM PANCHAYET
186	38//4/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	CHARNJEET KAUR WIFE BABU SINGH 900/1331/1/2 HISA, JAGTAR SINGH SON GANGA SINGH 5/1331/1/2 , GURMEL SINGH SON CHANAN SINGH 39/1/2/1331/1/2 HISA, MEJAR SINGH SON CHANAN SINGH 141/1/2/1331/1/2 HISSA

					JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 46/1/2/1331/1/2 HISA,NARINDER SINGH - BALJINDER SINGH SON MUKHTEAR SINGH 93/1331/1/2 HISA, SIMRANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 46/1/2/1331/1/2 HISA,CHARNJEET KAUR WIFE BABU SINGH 60/1331/1/2 HISA,
187	38//4/2	Common(Gram Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.0506	GRAM PANCHAYET
188	38//6/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	CHARNJEET KAUR WIFE BABU SINGH 900/1331/1/2 HISA, JAGTAR SINGH SON GANGA SINGH 5/1331/1/2 , GURMEL SINGH SON CHANAN SINGH 39/1/2/1331/1/2 HISA, MEJAR SINGH SON CHANAN SINGH 141/1/2/1331/1/2 HISSA JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 46/1/2/1331/1/2 HISA,NARINDER SINGH - BALJINDER SINGH SON MUKHTEAR SINGH 93/1331/1/2 HISA, SIMRANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 46/1/2/1331/1/2 HISA,CHARNJEET KAUR WIFE BABU SINGH 60/1331/1/2 HISA,
189	38//7	Common(Gram Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3692	GRAM PANCHAYET
190	38//8	Common(Guru Granth Sahib)	Irrigated (chahi)	0.2023	Shri Guru Granth Sahib
191	388	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin(Drain)	0.0278	Gram Panchayat
192	389	Government(Punjab Govt.)	Gair Mumkin(Drain)	0.0329	Gram Panchayat
193	422	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin(Pahi)	0.0481	Gram Panchayat
194	423	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0582	Gram Panchayat
195	466	Common(Mustarka Malkan)	Gair Mumkin Rasta	0.0607	Gram Panchayat
196	467	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0051	Gram Panchayat

197	468	Common(Mustarka Malkan)	Gair Mumkin (Pahi)	0.0101	Gram Panchayat
198	55//15	Private	Irrigated (chahi)	0.2984	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA,BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
199	55//16	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA,BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
200	55//25/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0531	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA,BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
201	55//25/3	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH

					<p>140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480</p>
202	55//26	Private	Gair Mumkin	0.0051	<p>SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA,BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH</p>

					SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
203	55//4	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 255/694 HISA, ,NARINDER SINGH - BALJINDER SINGH SON MUKHTEAR SINGH VA:VA: 174/694 HISA, JASDEEP KAUR WIFE BALWINDER SINGH 46/347 HISA, SIMRANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 173/1388 HISA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 173/1388 HISA,
204	55//5/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1669	BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, ,NARINDER SINGH - BALJINDER SINGH SON MUKHTEAR SINGH 1/4 HISA, JASDEEP KAUR WIFE BALWINDER SINGH 1/4 HISA, SIMRANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 1/8 HISA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 1/8 HISA,
205	55//5/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA,BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
206	55//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA,BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH

					326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
207	55//7	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA, BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
208	56//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	NARINDER SINGH - BAL JINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 1/4 HISA, BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, JAGDEESH KAUR WIFE BALWINDER SINGH SON RURH SINGH 1/4 HISA, SIMARANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 1/8 HISSA, JAGRAJ SINGH SON JOGINDER SINGH 1/8 HISSA,
209	56//1/2	Private	Gair Mumkin	0.0303	GANGA SINGH SO AJMER SINGH 5/40492 HISA, MANJEET SINGH SON GURBACHAN SINGH 660/40492 HISA, VEER KAUR WIFE GURBACHAN SINGH 240/40492 HISA, GURMEL SINGH SON CHANAN SINGH 640/40492 HISA, MEJOR SINGH SON CHANAN SINGH 502/40492 HISA , RANJEET SINGH SON GURBACHAN SINGH 660/40492 HISA,

					<p>KULDEEP SINGH SON BANT SINGH 113/80984 HISA, LAKHWINDER SINGH SON BANT SINGH 113/80984 HISA, HARPAL SINGH SON CHANAN SINGH 580/40492 HISA, CHHAJU SINGH SON CHANAN SINGH 1420/40492 HISA, BANT SINGH SON CHANAN SINGH 1426/40492 HISSA GURPEYAR SINGH SON CHANAN SINGH 27/764 HISA, CHARNJEET KAUR DOUTHER BARU SINGH 960/40492 HISA, RAM SINGH SON BARU SINGH 650/40492 HISA, NIRMAL SINGH SON BARU SINGH 650/40492 HISA, HAJURA SINGH SON REHMGIRI 1/4 HISA, KARNEL SINGH - JARNEL SINGH SON NIRANJAN SINGH B:B: 1/8 HISA, BHAJNA SON KALA 1/8 HISA, ROOP CHAND SON HEMRAJ 279/11360 HISA, SATPAL SON HEMRAJ SINGH 279/11360 HISA, NIRMAL SINGH SON GURDEIAL SINGH 83/2272 HISA, DHAN SINGH SON GURDEIAL SINGH 93/5680 HISA, MAHINDER KAUR DOUTHER CHHOTU SINGH 203/11360 HISA , TARSEM SINGH SON KARTAR SINGH 409/5680, RURHU -MANI - DOUTHER KARTAR SINGH 51/5680 HISA, MEJOR SINGH SON MAHINDER SINGH 279/11360 HISA, SUKHJEET SINGH SON GURJANT SINGH 279/11360 HISA, DALEEP KAUR WIDO , JOGINDER SINGH , NARINDER SINGH, BALJINDER SINGH SON MUKHTEIAR SINGH 372/101230 HISA, SIMRANJEEAT SINGH SON PALWINDER</p>
--	--	--	--	--	---

					SINGH 93/101230 HISSA
210	56//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA, BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH
					SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
211	56//11	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA, BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH
					SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
212	56//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	GURPIYAR SINGH - GURMEL SINGH- BALJEET SINGH - GURTEJ SINGH SON MARHA SINGH SON PARTAP SINGH VA:VA:
213	56//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3819	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA, BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH

					SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
214	56//21/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	SHER SINGH 139/1/2/4540 HISA, BHURA SINGH 1020/1/2/4540 HISA, KHADK SINGH 1495/1.2.4540 HISA, VA GURDEYAL KAUR WIFE BHAN SINGH 326/4580 HISA, HARBANS KAUR VIDHBA 572/1/2/4540 HISA, JASWANT SINGH SON TARA SINGH 346/4540 HISA, SUDAGAR SINGH SON SUKHJINDER SINGH SON SHER SINGH 640/4540 HISA,
215	56//22	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	JOGINDER SINGH NARINDER SINGH BALGINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 621/3/4/1499 HISA, SIMRANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 207/1/4/1499 HISA, TARA SINGH SON NAHAR SINGH 25/1499 HISA, HARDEEP SINGH SON HARPAL SINGH 13/1499 HISA, AMANDEEP SINGH - RANJEET SINGH SON KULWANT SINGH VA:VA: 62/1499 HISA, BALWINDER SINGH SON RURH 117/1499 HISA , JAGDEESH KAUR WIFE BALWINDER SINGH 76/1499 HISA, TEJ KAUR WIFE BUDH SINGH 377/1499 HISA,
216	60//1	Private	Irrigated (chahi)	0.3515	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480

					<p>HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH, SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480, HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480</p>
217	60/10	Private	Irrigated (chahi)	0.2048	<p>DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH, SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON</p>

					<p>JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480</p>
218	60//11	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	<p>DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH</p>

					231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480
219	60//12	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480
220	60//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0531	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA,

					<p>KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480</p>
221	60//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	<p>DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR</p>

					SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH, SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480, HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480
222	60//18/3	Private	Irrigated (chahi)	0.1239	gurpeyar singh son chanan singh
223	60//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2757	BANT SINGH SON CHANAN SINGH 705/817 HISA, KULDEEP SINGH LAKHWINDER SINGH SON BANT SINGH VA:VA :112/817 HISA,
224	60//2	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	JOGINDER SINGH NARINDER SINGH BALJINDER SINGH SON MUKHTEYAR SINGH VA:VA: 621/3/4/1499 HISA, SIMRANJEET SINGH SON PALWINDER SINGH 207/1/4/1499 HISA, TARA SINGH SON NAHAR SINGH 25/1499 HISA, HARDEEP SINGH SON HARPAL SINGH 13/1499 HISA, AMANDEEP SINGH -RANJEET SINGH SON KULWANT SINGH VA:VA: 62/1499 HISA, BALWINDER SINGH SON RURH 117/1499 HISA , JAGDEESH KAUR WIFE

					BALWINDER SNGH 76/1499 HISA, TEJ KAUR WIFE BUDH SINGH 377/1499 HISA,
225	60//20	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	BANT SINGH SON CHANAN SINGH 705/817 HISA, KULDEEP SINGH LAKHWINDER SINGH SON BANT SINGH VA:VA :112/817 HISA,
226	60//22	Private	Irrigated (chahi)	0.2832	Swaran Singh s/o Jaswant Singh s/o Kala Singh 743/2643 part Balbir Kaur Widow Girdavar Singh s/o Amar Singh 1/6 Part Ranjit Singh s/o Gurdawal Singh s/o Amar Singh 1/6 part Sohan Singh s/o Amar Singh 1/6 part Balwinder Singh s/o Karnail Singh s/o Sadhu Singh 1/18 part Harjit Singh s/o Karnail Singh s/o Sadhu Singh 1/18 part Atma Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Amrik Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Ranjit Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Malkeet Singh S/o Harjinder Singh 1/36 part Gurmeet Kaur Widow Harjinder Singh 1/36 Part
227	60//23	Private	Irrigated (chahi)	0.2934	gurpeyar singh son chanan singh
228	60//26	Private	Gair Mumkin	0.0278	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH

					94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480
229	60//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR

					WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480
230	61/5	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	DARSAN SINGH 38/1/2/2480 HISA, RANVEER SINGH 140/2480 HISA, KARMJEET SINGH 28/1/2/2480 HISA, SON BHARPUR SINGH JASVEER SINGH 138/2480 HISA, JASVINDAR SINGH 858/2480 HISSA SON DLEEP SINGH, NRESH KUMAR 53/2480 HISA, CHARNDAS 135/2480 HISA, SON JAGNNATH , JORA SINGH 37/1/3/2480 HISA, GURPIYAR SINGH 21/1/3/2480 HISA, SARWAN SINGH 21/1/3/2480 SON BHAG SINGH,SUBASH SINGH SON JAGANNATH 94/2480 Hissa MEHANGA SINGH SON HAJURA SINGH 74/2480 HISSA , SLOCHNA DEVI WIFE NRESH KUMAR SON JAGNNATH 160/2480 HISA, KAMALJEET SINGH SON GURJANT SINGH 96/2480 HISA, SATEYA DEVI WIFE HEM RAJ SON RAMPRTAP 74/2480 HISA, AMARJEET KAUR WIFE NARDEV SNGH SON GAJAN SINGH 40/2480 HISA, GURWANT SINGH SON BALVEER SINGH 231/2480,HISA, SUKHPAL KAUR WIFE JASWINDER SINGH SON DLEEP SINGH 140/2480 HISA, RAJINDER KAUR WIFE SATNAM SINGH SON JARNEL SINGH 100/2480

231	81//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
232	81//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
233	81//14	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	Swaran Singh s/o Jaswant Singh s/o Kala Singh 743/2643 part Balbir Kaur Widow Girdavar Singh s/o Amar Singh 1/6 Part Ranjit Singh s/o Gurdawal Singh s/o Amar Singh 1/6 part Sohan Singh s/o Amar Singh 1/6 part Balwinder Singh s/o Karnail Singh s/o Sadhu Singh 1/18 part Harjit Singh s/o Karnail Singh s/o Sadhu Singh 1/18 part Atma Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Amrik Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Ranjit Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Malkeet Singh S/o Harjinder Singh 1/36 part Gurmeet Kaur Widow Harjinder Singh 1/36 Part
234	81//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Swaran Singh s/o Jaswant Singh s/o Kala Singh 743/2643 part Balbir Kaur Widow Girdavar Singh s/o Amar Singh 1/6 Part Ranjit Singh s/o Gurdawal Singh s/o Amar Singh 1/6 part Sohan Singh s/o Amar Singh 1/6 part Balwinder Singh s/o Karnail Singh s/o Sadhu Singh 1/18 part Harjit Singh s/o Karnail Singh s/o Sadhu Singh 1/18 part Atma Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Amrik Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Ranjit Singh s/o Joginder Singh s/o Jaswant Singh 46/2643 part Malkeet Singh S/o Harjinder Singh 1/36 part Gurmeet Kaur Widow Harjinder Singh 1/36 Part
235	81//17	Private	Irrigated (chahi)	0.3591	Gurjinderpal Singh son

					Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
236	81//18	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
237	81//2	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	gurpeyar singh son chanan singh
238	81//23	Private	Irrigated (chahi)	0.091	SINDERPAL KAUR DOUTHER MAGGAR SINGH SON ARJUN SINGH
239	81//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	SINDERPAL KAUR DOUTHER MAGGAR SINGH SON ARJUN SINGH
240	81//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	BALWINDER SINGH - GURTEJ SINGH SON PREM SINGH VA:VA: 2/3 HISA, SATEYA WIFE SUKHDEV SINGH 1/3 HISA,
241	81//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	BALWINDER SINGH - GURTEJ SINGH SON PREM SINGH VA:VA: 2/3 HISA, SATEYA WIFE SUKHDEV SINGH 1/3 HISA,
242	81//26	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
243	81//3	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
244	81//4	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
245	81//7	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
246	81//8	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Gurjinderpal Singh son Bakhshish Singh 1/2 hissa, Charanjit Singh son Kulwinder Singh 1/2 hissa,
247	81//9	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	gurpeyar singh son chanan singh
248	86//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH

					167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA,
249	86/20	Private	Irrigated (chahi)	0.129	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA:

					434/1721 HISA,
250	86//21	Private	Irrigated (chahi)	0.263	KULWINDER SINGH SON MAHNDER SINGH 564/1973 HISA, JASWANT SINGH SON NISHAN SINGH 75/1973 HISSA, NILAM SINGLA WIFE SANJIV KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973, PINKI SINGLA WIFE PARDEEP KUMAR SON GIRDHARI LAL 72/1/2/1973 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 376/1973 HISSA, JAGTAR SINGH SON JASWANT SINGH 300/1973 HISA, SANJIV KUMAR 111/1973 HISA, VA PARDEEP KUMAR 149/1973 HISA, SON GIRDHARI LAL, GURDEEP SINGH- HARMEET SINGH SON JOGINDER SINGH BA:BA: 13/1973 HISA, GIRDHARI LAL SON MOTI LAL 120/193 HISA, HAMEER KAUR WIFE KAKU Singh 120/1973
251	87//14	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH

					RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA,
252	87//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3566	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA.VA. 434/1721 HISA,
253	87//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3819	16/1 - (5-8) MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH ,

					SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA, 16/2 - (2- 3) - JAGWINDER SINGH SON RAGVEE SINGH 82/1/2/645 HISA,JASVEER KAUR WIDO RAGVEER SINGH 402/1/2/645 HISA, PREM CHAND SON HANSRAJ 160/645 HISA,
254	87//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	87//17/1MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA,
255	87//25	Private	Irrigated (chahi)	0.3136	JAGWINDER SINGH SON RAGVEER SINGH 82/1/2/645 HISA,JASVEER KAUR WIDO RAGVEER SINGH 402/1/2/645 HISA, PREM CHAND SON HANSRAJ 160/645 HISA,
256	87//26	Private	Irrigated (chahi)	0.0632	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER

					SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA,
257	87//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	SINDERPAL KAUR DOUTHER MAGGAR SINGH SON ARJUN SINGH
258	87//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3768	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH

					RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA,
259	87//5	Private	Irrigated (chahi)	0.1922	GIRDHARI LAL SON MOTI RAM 1/4 HISA, JAGTAR SINGH SON JASWANT SINGH 3/8 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 3/8
260	87//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3085	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH 60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA.VA. 434/1721 HISA,
261	87//7	Private	Irrigated (chahi)	0.263	MANDEEP SINGH SON JOGINDER SINGH 167/1721 HISA, HARBHAJN KAUR VIDHBA ,JASWINDER SINGH SON ARJAN SINGH 17/1721 HISA, SUKHWINDER SINGH - JAGTAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 334/1721 HISA , GURCHARN SINGH SON ARJUN SINGH 127/1721 HISA, LAKHWINDER SINGH SON NISHAN SINGH 60/1721 HISA, JAGTAR SINGH- SON JASWANT SINGH

					60/1721 HISA, RAM NATH - VIJE KUMAR - HAREESH KUMAR SON RAJPAL VA:VA: 320/1721 HISA, GURCHARN SINGH - JAGTAR SINGH , SUKHVINDAR SINGH SON ARJUN SINGH VA:VA: 202/1721 HISA, HARPAL SINGH RANJEET SINGH SON MOHAR SINGH VA:VA: 434/1721 HISA,
Village: Datal (173)					
262	14//1	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3794	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa,joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
263	14//10/2	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.2175	gram panmchayat
264	14//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Sukhwinder Singh Son Tahil Singh son Sohan Singh
265	14//12	Private	Irrigated (chahi)	0.4021	Sukhwinder Singh Son Tahil Singh son Sohan Singh
266	14//13	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	13/1 (0-19) jaswinder singh urf jaswant singh son tehel singh 13/2 (1-17) sukhwinder singh son tehel singh
267	14//17	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.002529	Major Singh son Karnail Singh son Sohan Singh 712/1032 hisa, Davinder Singh son Major Singh son karneil singh 320/1032 hisa,
268	14//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3288	Major Singh son Karnail Singh son Sohan Singh 712/1032 hisa, Davinder Singh son Major Singh sonson karneil singh 320/1032 hisa,
269	14//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2883	Major Singh son Karnail

					Singh son Sohan Singh 712/1032 hisa, Davinder Singh son Major Singh sonson karneil singh 320/1032 hisa,
270	14//2	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.1922	Gram Panchayt
271	14//22	Private	Irrigated (chahi)	0.091	Davinder Singh son Major Singh son Karnail Singh
272	14//23	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Davinder Singh son Major Singh son Karnail Singh
273	14//24	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Major Singh son Karnail Singh son Sohan Singh 712/1032 hisa, Davinder Singh son Major Singh sonson karneil singh 320/1032 hisa,
274	14//8/2	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.0076	Nagar Panchayat
275	14//9/1	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.0152	gram panmchayat
276	14//9/2	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3262	gram panmchayat
277	140	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Road)	0.0961	Nagar Panchayat
278	15//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa,joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
279	171	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Pahi)	0.0835	Nagar Panchayat
280	173	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0329	Gram Panchayat
281	182	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Pahi)	0.0228	Nagar Panchayat
282	188	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0531	Nagar Panchayat
283	189	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Khal)	0.0531	Nagar Panchayat
284	191	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Khal)	0.0379	Gram Panchayat

285	2//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Sikandar Singh son Nirmal Singh son Buta Singh 1/2 hissa, Maan Singh son Nirmal Singh son Buta Singh 15/34 hissa, manjeet kaur wife mehel singh son santa singh - 1/17 Hissa,
286	2//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3338	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa, joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
287	2//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2832	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa, joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
288	2//25/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa, joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
289	26//14	Private	Irrigated (chahi)	0.2327	Utar singh urf avtar singh , chamkaur singh urf angrej singh , satpal singh son jangeer singh -3/4 hissa, amritpal singh son sahib singh urf sab singh 1/4 hissa,

290	26//15	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3262	Nagar Panchayat
291	26//16	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3338	Nagar Panchayat
292	26//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Utar singh urf avtar singh , chamkaur singh urf angrej singh , satpal singh son jangeer singh -3/4 hissa, amritpal singh son sahib singh urf sab singh 1/4 hissa,
293	26//25	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.129	Nagar Panchayat
294	26//3	Private	Irrigated (chahi)	0.2782	jaswider singh urf jaswant singh son tehel singh son mohan singh
295	26//4/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1922	jaswider singh urf jaswant singh son tehel singh son mohan singh
296	26//4/2	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.1265	Gram Panchayat
297	26//5	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.0025	Nagar Panchayat
298	26//6	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.1416	Nagar Panchayat
299	26//7	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.3996	Nagar Panchayat
300	26//8	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.0733	Nagar Panchayat
301	27//11	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.0253	Nagar Panchayat
302	27//20	Private	Irrigated (chahi)	0.263	sukhjinder kaur wido heera singh son avtar singh 1/2 hisa , samsher singh son avtar singh 1/2 hisa ,
303	27//21	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	sukhjinder kaur wido heera singh son avtar singh 1/2 hisa , samsher singh son avtar singh 1/2 hisa ,
304	27//22	Private	Irrigated (chahi)	0.1087	1. (27/22/4) (0-4) gurpinder singh - surinder singh son samsher singh B:B:, 2. (27//22/1) -(0-5) gurbhinder singh -surinder singh son mahinder singh 20/47 hisa, sukhdev singh son dleep singh 20/47 hisa, avtar singh son jngeer sibgh 7/47 hisa, 3. (27//22/2) -(1-14) avtar singh son jangeer singh
305	3//11	Common(Nagar	Irrigated (chahi)	0.1568	Gram Panchayat

		Panchayat)			
306	3//20/1	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.1315	Gram Panchayat
307	3//20/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1644	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa, joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
308	3//21	Private	Irrigated (chahi)	0.3996	Balveer Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 437/1/2/1239 hissa, Satnam Singh son Jeet Singh son Hakam Singh 412/1239 hissa, joginder singh son balka singh 97/1/2/1239 hisa, sukhwinder singh son balka singh son hakam singh 97/1/2/1239 hisa, surjeet singh harmanpreet singh son darsan singh B:B: 97/1239 hissa, Amarjeet Singh s/o Hira singh -97 12 1239 Hissa,
309	3//22/1	Common(Nagar Panchayat)	Irrigated (chahi)	0.043	Gram Panchayat
310	36//1	Private	Irrigated (chahi)	0.306	Gurpinder Singh , Surinder Singh son Sucha Singh b:b:
311	36//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Maluk Singh son Karma Singh 1284/1/3/3384 hissa, pargat singh son maan singh 627/2/3/3384 hissa, kulwant kaur wido karam singh 408/2/3/3384 hisa, surjeet kaur wido maan singh 435/2/3/3384 hisa, satpal singh son maan singh 627/2/3/3384,
312	36//12	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	Maluk Singh son Karma Singh 1284/1/3/3384 hissa, pargat singh son maan singh 627/2/3/3384 hissa, kulwant kaur wido karam singh 408/2/3/3384 hisa, surjeet kaur wido maan singh 435/2/3/3384 hisa, satpal singh son maan singh 627/2/3/3384,

313	36//13	Private	Irrigated (chahi)	0.3212	Maluk Singh son Karma Singh 1284/1/3/3384 hissa, pargat singh son maan singh 627/2/3/3384 hissa, kulwant kaur wido karam singh 408/2/3/3384 hisa, surjeet kaur wido maan singh 435/2/3/3384 hisa, satpal singh son maan singh 627/2/3/3384,
314	36//14/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Maluk Singh son Karma Singh 1284/1/3/3384 hissa, pargat singh son maan singh 627/2/3/3384 hissa, kulwant kaur wido karam singh 408/2/3/3384 hisa, surjeet kaur wido maan singh 435/2/3/3384 hisa, satpal singh son maan singh 627/2/3/3384,
315	36//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Gurcharan Singh son Saun Singh son Sher Singh
316	36//16	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Gurcharan Singh son Saun Singh son Sher Singh
317	36//17	Private	Irrigated (chahi)	0.2858	Gurcharan Singh son Saun Singh son Sher Singh
318	36//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3541	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
319	36//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Gurtej Singh - Gurbhej Singh son Sher Singh son Bahal Singh
320	36//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3414	Gurpinder Singh , Surinder Singh son Sucha Singh b:b:
321	36//23	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
322	36//24	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Gurcharan Singh son Saun Singh son Sher Singh
323	36//25	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Gurcharan Singh son Saun Singh son Sher Singh
324	36//3/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Gurpinder Singh , Surinder Singh son Succha Singh b:b:
325	36//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1922	Maluk Singh son Karma Singh 1284/1/3/3384 hissa, pargat singh son maan singh 627/2/3/3384 hissa, kulwant kaur wido karam singh 408/2/3/3384 hisa, surjeet kaur wido maan singh 435/2/3/3384 hisa,

					satpal singh son maan singh 627/2/3/3384,
326	36//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3945	Maluk Singh son Karma Singh 1284/1/3/3384 hissa, pargat singh son maan singh 627/2/3/3384 hissa, kulwant kaur wido karam singh 408/2/3/3384 hisa, surjeet kaur wido maan singh 435/2/3/3384 hisa, satpal singh son maan singh 627/2/3/3384,
327	37//5/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	sukhdev singh son dleep singh 298/388 hisa, davinder kaur wife sukhdev singh 90/388 hisa,
328	49//15	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	Gurtej Singh - Gurbhej Singh son Sher Singh son Bahal Singh
329	49//16	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Gurtej Singh - Gurbhej Singh son Sher Singh son Bahal Singh
330	49//4	Private	Irrigated (chahi)	0.2782	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
331	49//5	Private	Irrigated (chahi)	0.3591	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
332	49//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3869	Gurtej Singh - Gurbhej Singh son Sher Singh son Bahal Singh
333	49//7	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	Gurtej Singh - Gurbhej Singh son Sher Singh son Bahal Singh
334	50//1	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
335	50//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
336	50//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
337	50//12	Private	Irrigated (chahi)	0.0733	Charanjit Kaur wife Balkar Singh
338	50//18	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Satpal Singh son Maluk Singh 1/2 Hissa, Manjinder Singh Jatinder Singh son

					Satpal Singh B:B: 1/2 Hissa,
339	50//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2908	Charanjit Kaur wife Balkar Singh
340	50//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	Diljeet Singh son kapur singh 1/2 hisa, Bikramjeet singh son diljeet singh 1/2 hisa ,
341	50//21	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.0986	21/2 - Daljit Singh son Kapur Singh 1/2 hissa, Bikramjit Singh son Daljit Singh 1/2 hissa
342	50//22	Private	Irrigated (chahi)	0.4021	Charanjit Kaur wife Balkar Singh
343	50//23	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	Manjeet kaur wife mehel singh son santa singh
344	56//20	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:
345	56//21	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:
346	57//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	datar singh son harbhajan singh 13/30 hisa, puspinder singh datar singh 1/15 hisa, shamsher singh son avtar singh 8359/60270 hisa, sukhjinder kaur wido heera singh 8359/60270 hisa , gurpreet singh son avtar singh 3133/20090 hisa, avtar singh son harbhajan singh 1/15 hisa,
347	57//14/1	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	datar singh son harbhajan singh 13/30 hisa, puspinder singh datar singh 1/15 hisa, shamsher singh son avtar singh 8359/60270 hisa, sukhjinder kaur wido heera singh 8359/60270 hisa , gurpreet singh son avtar singh 3133/20090 hisa, avtar singh son harbhajan singh 1/15 hisa,
348	57//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:
349	57//15	Private	Irrigated (chahi)	0.091	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:

350	57//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3111	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:
351	57//17	Private	Irrigated (chahi)	0.2934	Kulwant Kaur wife Gurdev Singh son Nirmal Singh
352	57//18	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kulwant Kaur wife Gurdev Singh son Nirmal Singh
353	57//2	Private	Irrigated (chahi)	0.2529	Charanjit Kaur wife Balkar Singh
354	57//24	Private	Irrigated (chahi)	0.0759	harbhajan singh 192//1/2/1582 hisa, pargat singh 281/1/2/1582 hisa, son santokh singh , kpoor singh son darbara singh son sant singh 10/1582 hisa, gurdev singh son nirmal singh 964/1582 hisa, sukhwinder kaur douter jarnel dingh 101/1582 balveer kaur daughter santokh singh 33/1582 hisa,
355	57//25/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2883	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:
356	57//25/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0936	Jasveer kaur wido B: harpreet singh son B: mandeep kaur douter charnjeet singh B:B:
357	57//3	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	manjeet kaur wife mehel singh son santa singh
358	57//4	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	datar singh son harbhajan singh 13/30 hisa, puspinder singh datar singh 1/15 hisa, shamsher singh son avtar singh 8359/60270 hisa, sukhjinder kaur wido heera singh 8359/60270 hisa , gurpreet singh son avtar singh 3133/20090 hisa, avtar singh son harbhajan singh 1/15 hisa,
359	57//7	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	datar singh son harbhajan singh 13/30 hisa, puspinder singh datar singh 1/15 hisa, shamsher singh son avtar singh 8359/60270 hisa, sukhjinder kaur wido heera singh 8359/60270 hisa , gurpreet singh son avtar singh 3133/20090 hisa, avtar singh son harbhajan singh 1/15 hisa,
360	57//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.3591	datar singh son harbhajan

					singh 13/30 hisa, puspinder singh datar singh 1/15 hisa, shamsher singh son avtar singh 8359/60270 hisa, sukhjinder kaur wido heera singh 8359/60270 hisa , gurpreet singh son avtar singh 3133/20090 hisa, avtar singh son harbhajan singh 1/15 hisa,
361	57//8/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	manjeet kaur wife mehel singh son santa singh
362	57//9	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	manjeet kaur wife mehel singh son santa singh
363	74//5	Private	Irrigated (chahi)	0.2276	5/1 (2-10) jasveer kaur wido va harpreet singh son va mandeep kaur douter charnjeet singh B:B: 5/2 (2-0) sukhwinder son mahinder
364	74//6	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	gurdev singh son nirmal singh
365	75//1	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Mahinder Singh son of Dhara Singh son of Vasava Singh
366	75//10/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0759	sukhwinder singh -sukhpal singh nishan singh son mahinder singh B:B:
367	75//10/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2883	jasraj singh son thakur singh son amreek singh
368	75//11	Private	G.M. according to CLU	0.1366	jasraj singh son thakur singh son amreek singh
369	75//12	Private	G.M. according to CLU	0.3844	thakur singh son amreek singh son sudagar singh
370	75//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	Mahinder Singh son of Dhara Singh son of Vasava Singh
371	75//17/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Mahinder Singh son of Dhara Singh son of Vasava Singh
372	75//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3313	Mahinder Singh son of Dhara Singh son of Vasava Singh
373	75//19	Private	G.M. according to CLU	0.2757	thakur singh son amreek singh son sudagar singh
374	75//2	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	Mahinder Singh son of Dhara Singh son of Vasava Singh
375	75//20	Private	G.M. according to CLU	0.0025	Sukhraj Kaur wife Thakur Singh son Amrik Singh
376	75//22	Private	G.M. according to CLU	0.0455	thakur singh son amreek

					singh son sudagar singh
377	75//23/1	Private	Gair Mumkin,Irrigated (chahi)	0.3439	Mahinder Singh son of Dhara Singh son of Vasava Singh
378	75//23/2	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin	0.0202	Nagar Panchayat
379	75//9	Private	Irrigated (chahi)	0.2757	Sukhpal Singh-, Nissan Singh , Sukhvinder Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh B:B:
Village: Galoli (207)					
380	104//5	Private	Agriculture	0.2984	Ranjit Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa, Baldev Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa, Jaspal Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa , Gurmeet Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa
381	104//6	Private	Agriculture	0.0835	Ranjit Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa, Baldev Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa, Jaspal Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa , Gurmeet Singh son Bison Singh son Natha Singh 1/4 hissa
382	105//1	Private	Agriculture	0.3288	gurmej singh son kesar singh 1.2 hissa jagjeet singh , keval jeet sing son jarnel singh B.B. 1/2 hissa
383	105//10	Private	Agriculture	0.4021	gurmej singh son kesar singh 1.2 hissa jagjeet singh , keval jeet sing son jarnel singh B.B. 1/2 hissa
384	105//11	Private	Agriculture	0.2681	gurmej singh son kesar singh 1.2 hissa jagjeet singh , keval jeet sing son jarnel singh B.B. 1/2 hissa
385	105//12	Private	Agriculture	0.3187	dinesh kumari wife jaipal chadda
386	105//19	Private	Agriculture	0.1442	Gyan Singh son Tek Singh 1/18 hissa, Ranjit Kaur wife Harcharan Singh son Indra Singh 1/48 hissa, baljeet singh son sukhvinder sing 1/60 hissa veerindra kaur daughter mahendra singh 11/432 hissa rapendra kaur

					<p>bidhawa amendra singh 1/108 hisaa jaijeet singh son amendra singh 1/108 hissaa amar pratap singh son amendra singh 1/108 hissa jagpal singh son jugendra singh 1/108 hissa rajvirendra singh son jugendra sing 1/108 hissa shamsher kaur wife inder sing 1/48 hissa ranjeet kaur wife sukhvindre sing 1/120 hissaa kamaljeet kaur widow gurpreet singh 1/36 hissa amar singh son vasant singh 1/54 hissa jagjeet singh son kehar singh 1/90 hissaa charanjeet singh son kehar singh 1/90 hissa gurucharan singh son guruvachh singgh 1/36 hissaa jaspal singh son jugendra singh 1/108 hissa kaka singh urf baldev singh 1/36 hissa gardev kaur wife shamsher singh 1/96 hissa baljinder kaur daughter shamsher singh 1/192 hissa pirtpal kaur wife surjeet singh 1/96 hissa sukhveer kaur d/o surjeet singh 1/192 hissaa harveer kaur d/o surjeet singh 1/192 hissa surendra kaur d/o rajendra singh 1/72 hissa balvindr kaure d/o rajendra singh 1/72 hissa sukhvinder kaur d./o gurucharan singh 1/60 hissaa ranjeet singh son kehar singh 1/90 hissa baljeet kaur d/o shukhvunder singh 1/120 hissaa balveer singh son dasonda singh 1/36 hissa bhagvan singh son dansoda singh 1/192 hissa sheep kaur d/o dansonda singh 1/576 hissa ama jeet kaur d/o bhagwan singh 1/128 hissaa devendra kaur d/o bhgwan singh 1/128 hissa harvans kaur wife praduman singh 1/64 hissa prem kaur d/o gurucharan singh 1/36 hissa sukhvinder kaur d/o gurucharan singh 1/36 hissa harendra kaur d/o gurucharan singh 1/36 hissaa ajeet inder singh son hardev kaur 1/36 hissa sukhpal inder kaur d/o jugendra singh 1/36 hissa</p>
--	--	--	--	--	--

					jagdeesh kaur d/o jugendra singh 1/36 hissa hajendra kaur doughtr joginder singh 1/36 hissa charnjeet singh son ikbal singh 1/54 hissa joginder kaur widow mahinder singh 1/144 hissa charnjeet kaur d/o ikbal singh 1/1216 hissa shamser kaur wife karanl udde singh 8/675 hissa, bjinderveer singh urf bjinderbal singh 11/675 hissa, son kanal udde singh bhagwan kaur wife balwant singh 1/36 hissa balveer kaur d/o balwant singh 1/36 hissa hakam kaur wife jashmer singh 1/36 hissa, baldev kaur wife sardool singh 1/36 hissa, rasnil singh son kuldeep singh 1/18 hissa, charnjeet kaur wife gurcharn singh 1/36 hissa gurbachan singh son kartar singh 1/36 hissa,
387	105//2	Private	Agriculture	0.0025	gurmej singh son kesar singh 1.2 hissa jagjeet singh , keval jeet sing son jarnel singh B.B. 1/2 hissa
388	105//20	Private	Agriculture	0.0556	Gyan Singh son Tek Singh 1/18 hissa, Ranjit Kaur wife Harcharan Singh son Indra Singh 1/48 hissa, baljeet singh son sukhvinder sing 1/60 hissa veerindra kaur daughter mahendra singh 11/432 hissa rapendra kaur bidhawa amendra singh 1/108 hisaa jaijeet singh son amendra singh 1/108 hissa amar pratap singh son amendra singh 1/108 hissa jagpal singh son jugendra singh 1/108 hissa rajvirendra singh son jugendra sing 1/108 hissa shamsher kaur wife inder sing 1/48 hissa ranjeet kaur wife sukhvindre sing 1/120 hissa kamaljeet kaur widow gurpreet singh 1/36 hissa amar singh son vasant singh 1/54 hissa jagjeet singh son kehar singh 1/90 hissa charanjeet singh son kehar singh 1/90 hissa gurucharan singh son guruvachh singgh 1/36

					<p>hissa jaspal singh son jugendra singh 1/108 hissa kaka singh urf baldev singh 1/36 hissa gardev kaur wife shamsher singh 1/96 hissa baljinder kaur daughter shamsher singh 1/192 hissa pirtpal kaur wife surjeet singh 1/96 hissa sukhveer kaur d/o surjeet singh 1/192 hissa harveer kaur d/o surjeet singh 1/192 hissa surendra kaur d/o rajendra singh 1/72 hissa balvindr kaure d/o rajendra singh 1/72 hissa sukhvinder kaur d./o gurucharan singh 1/60 hissa ranjeet singh son kehar singh 1/90 hissa baljeet kaur d/o shukhvunder singh 1/120 hissa balveer singh son dasonda singh 1/36 hissa bhagwan singh son dansoda singh 1/192 hissa sheep kaur d/o dansonda singh 1/576 hissa ama jeet kaur d/o bhagwan singh 1/128 hissa devendra kaur d/o bhgwan singh 1/128 hissa harvans kaur wife praduman singh 1/64 hissa prem kaur d/o gurucharan singh 1/36 hissa sukhvinder kaur d/o gurucharan singh 1/36 hissa harendra kaur d/o gurucharan singh 1/36 hissa ajeet inder singh son hardev kaur 1/36 hissa sukhpal inder kaur d/o jugendra singh 1/36 hissa jagdeesh kaur d/o jugendra singh 1/36 hissa hajendra kaur doughtr joginder singh 1/36 hissa charnjeet singh son ikbal singh 1/54 hissa joginder kaur widow mahinder singh 1/144 hissa charnjeet kaur d/o ikbal singh 1/1216 hissa shamser kaur wife karanl udde singh 8/675 hissa, bjinderveer singh urf bjinderbal singh 11/675 hissa, son kanal udde singh bhagwan kaur wife balwant singh 1/36 hissa balveer kaur d/o balwant singh 1/36 hissa hakam kaur wife jashmer singh 1/36 hissa, baldev kaur wife sardool singh 1/36 hissa, rasnil singh son</p>
--	--	--	--	--	---

					kuldeep singh 1/18 hissa, charnjeet kaur wife gurcharn singh 1/36 hissa gurbachan singh son kartar singh 1/36 hissa,
389	105//9/1	Private	Agriculture	0.0784	dinesh kumari wife jaipal chadda
390	105//9/2	Private	Agriculture	0.0683	dinesh kumari wife jaipal chadda
391	157	Common(Shamlat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0733	Shamlat patti
392	185	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Khal)	0.0379	mushtarka malkan
393	190	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Khal)	0.0228	mushtarka malkan
394	196	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Khal)	0.0354	mushtarka malkan
395	197	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Khal)	0.0354	mushtarka malkan
396	20//11	Private	Agriculture	0.1998	bagicha singh so Darwara singh 61/922 hissa. - Bakshis singh so Darwara singh 1/2 hissa. Raspal singh son bageecha singh 100/461 hissa harpal singh son bageecha singh 100/461 hissa
397	20//12	Private	Agriculture	0.0025	bagicha singh so Darwara singh 61/922 hissa. - Bakshis singh so Darwara singh 1/2 hissa. Raspal singh son bageecha singh 100/461 hissa harpal singh son bageecha singh 100/461 hissa
398	20//18	Private	Agriculture	0.0025	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
399	20//19	Private	Agriculture	0.2478	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
400	20//20	Private	Agriculture	0.4046	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
401	20//21	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.22	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
402	20//22	Private	Agriculture	0.4046	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
403	20//23	Private	Agriculture	0.1922	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.

404	21//12	Private	Agriculture	0.0101	mahinder Kaur Vidhava Baj Singh 1/3 hissa suba singh son baj singh Singh 265/2757 hissa, harnam singh son Suba Singh 218/919 hissa Baj Singh 265/2757 hissa_jagwinder singh son suba singh 1/3 hissa
405	21//14	Private	Agriculture	0.4856	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
406	21//15/1	Private	Agriculture	0.3035	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
407	21//15/2	Private	Agriculture	0.0905	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
408	21//16/1	Private	Agriculture	0.1871	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
409	21//16/2	Private	Agriculture	0.1087	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
410	21//17/1	Private	Agriculture	0.091	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
411	21//18/1	Private	Agriculture	0.0025	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
412	21//25/1	Private	Agriculture	0.0051	Bakhshish Singh son of Darbara Singh son of Lachhman Singh 1/2 part Saranjit Kaur wife Bagicha Singh son Darbara Singh 1/2 part
413	21//6	Private	Agriculture	0.1062	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
414	21//7	Private	Agriculture	0.1821	jatinder Kaur wife satwinder singh son jasveer singh
415	21//8	Private	Agriculture	0.1113	mahinder Kaur Vidhava Baj Singh 1/3 hissa suba singh son baj singh Singh 265/2757 hissa, harnam singh son Suba Singh 218/919 hissa Baj Singh 265/2757 hissa_jagwinder singh son suba singh 1/3 hissa
416	21//9	Private	Agriculture	0.043	mahinder Kaur Vidhava Baj Singh 1/3 hissa suba singh son baj singh Singh

					265/2757 hissa, harnam singh son Suba Singh 218/919 hissa Baj Singh 265/2757 hissa,jagwinder singh son suba singh 1/3 hissa
417	290	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0733	Nagar panchayat
418	31//13/2	Private	Agriculture	0.0531	parbjot kaur wife nishan singh 61/182 hissa bageecha singh son darbara sungh 5/182 hissa mahendra singh son bishan singh 15/91 hissa bakhseesh singh son darbarra singh 5/182 hissa jasveer kaur wife tahal singh 61/182 hissa nirmal jeet kaur wife gurmeet singh 5/91 hissa palram son mohan lal 5/91 hissa
419	31//14/1	Private	Agriculture	0.3111	parbjot kaur wife nishan singh 61/182 hissa bageecha singh son darbara sungh 5/182 hissa mahendra singh son bishan singh 15/91 hissa bakhseesh singh son darbarra singh 5/182 hissa jasveer kaur wife tahal singh 61/182 hissa nirmal jeet kaur wife gurmeet singh 5/91 hissa palram son mohan lal 5/91 hissa
420	31//14/2	Private	Agriculture	0.0708	Nirmaljeet kaur wife gurmeet singh son wajeerr singh
421	31//15/1	Private	Agriculture	0.0126	Nirmaljeet kaur wife gurmeet singh son wajeerr singh
422	31//15/2	Private	Agriculture	0.2428	Bagicha Singh son of Darbara Singh son of Lachhman Singh 5/182 part Bakhsis Singh son of Darbara Singh son of Lachhman Singh 5/182 part nirmaljeet kaur wife Gurmeet Singh son of Wazir Singh 5/91 part palram son Mohan Lal son Sankar Ram 5/91 part Jasveer Kaur Patni Man Singh 61/182 Part Prabhjot Kaur wife Nissan Singh 61/182 part
423	31//16	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.4046	Lakhwinder Singh son of Inder Singh 1/8 part Suba

					Singh ,Darshan Singh son of Subeg Singh 64/1/2/516 surender pal singh ravinder pal singh son bharpur singh 89/1032 hissa part Virsa Singh son of Wazir Singh 1/4 hissa Amritveer Kaur daughter Virsa Singh 65/516 part Harmanveer Singh son of Virsa Singh 2/43 part Mahinder Kaur Widow va jaspal singh, harpal Singh Son mardeep kaur daughter jagjeet singh B.B. 12/1376 hissa harendra kaur wife virasa singh 10/43 hissa
424	31//2	Private	Agriculture	0.2175	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
425	31//25/1	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.043	Samlat patti rajputa hasbrast
426	31//25/2	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0835	Lakhwinder Singh son of Inder Singh 1/8 part Suba Singh ,Darshan Singh son of Subeg Singh 64/1/2/516 surender pal singh ravinder pal singh son bharpur singh 89/1032 hissa part Virsa Singh son of Wazir Singh 1/4 hissa Amritveer Kaur daughter Virsa Singh 65/516 part Harmanveer Singh son of Virsa Singh 2/43 part Mahinder Kaur Widow va jaspal singh, harpal Singh Son mardeep kaur daughter jagjeet singh B.B. 12/1376 hissa harendra kaur wife virasa singh 10/43 hissa
427	31//3	Private	Agriculture	0.3996	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
428	31//4	Private	Agriculture	0.1012	bagicha singh -Bakshis singh so Darwara singh so Lachhman singh b: :b hissa.
429	31//6	Private	Agriculture	0.0228	Bagicha Singh son of Darbara Singh son of Lachhman Singh 5/182 part Bakhsis Singh son of Darbara Singh son of Lachhman Singh 5/182 part nirmaljeet kaur wife Gurmeet Singh son of Wazir Singh 5/91 part palram son Mohan Lal son Sankar Ram 5/91 part

					Jasveer Kaur Patni Man Singh 61/182 Part Prabhjot Kaur wife Nissan Singh 61/182 part
430	31//7	Private	Agriculture	0.3566	garmeet singh son wajeer singh 164/640 hissa virasa singh son wajeer singh 141/640 hissa bageecha singh son darbara singh 160/640 hissa bksheesh singh son darbara singh 160/640 hissa nirmal jeet kaur wife gurmeet singh 15/640 hissa
431	31//8	Private	Agriculture	0.3085	garmeet singh son wajeer singh 164/640 hissa virasa singh son wajeer singh 141/640 hissa bageecha singh son darbara singh 160/640 hissa bksheesh singh son darbara singh 160/640 hissa nirmal jeet kaur wife gurmeet singh 15/640 hissa
432	31//9/1	Private	Agriculture	0.0051	garmeet singh son wajeer singh 164/640 hissa virasa singh son wajeer singh 141/640 hissa bageecha singh son darbara singh 160/640 hissa bksheesh singh son darbara singh 160/640 hissa nirmal jeet kaur wife gurmeet singh 15/640 hissa
433	32//20	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.1037	Joga Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 872/1/4/6461 hissa, Jaswant Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 1672/1/4/6461 hissa Hisedaran Suba Singh son Subog Singh 1695/1/4/6461 hissa darsan singh son subeg singh 849/1/4/6461 hissa, amartpal singh - gurpal singh son joga singh B:B: 800/6461 hissa, harpreet singh - sandeep singh munesh son darsan singh B:B: 572/6461 hissa,
434	32//21	Private	Agriculture	0.3237	Joga Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 872/1/4/6461 hissa, Jaswant Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 1672/1/4/6461 hissa Hisedaran Suba Singh son

					Subog Singh 1695/1/4/6461 hissa darsan singh son subeg singh 849/1/4/6461 hissa, amartpal singh - gurpal singh son joga singh B:B: 800/6461 hissa, harpreet singh - sandep singh munesh son darsan singh B:B: 572/6461 hissa,
435	32//22	Private	Agriculture	0.0303	Joga Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 872/1/4/6461 hissa, Jaswant Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 1672/1/4/6461 hissa Hisedaran Suba Singh son Subog Singh 1695/1/4/6461 hissa darsan singh son subeg singh 849/1/4/6461 hissa, amartpal singh - gurpal singh son joga singh B:B: 800/6461 hissa, harpreet singh - sandep singh munesh son darsan singh B:B: 572/6461 hissa,
436	44//1	Private	Agriculture	0.3515	Joga Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 872/1/4/6461 hissa, Jaswant Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 1672/1/4/6461 hissa Hisedaran Suba Singh son Subog Singh 1695/1/4/6461 hissa darsan singh son subeg singh 849/1/4/6461 hissa, amartpal singh - gurpal singh son joga singh B:B: 800/6461 hissa, harpreet singh - sandep singh munesh son darsan singh B:B: 572/6461 hissa,
437	44//10	Private	Agriculture	0.0455	kartar singh son amar singh
438	44//12	Private	Agriculture	0.2428	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hissa satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
439	44//13	Private	Agriculture	0.3869	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar

					singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
440	44//14	Private	Agriculture	0.0556	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
441	44//16	Private	Agriculture	0.0025	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
442	44//17	Private	Agriculture	0.3035	kartar singh son amar singh
443	44//18	Private	Agriculture	0.349	kartar singh son amar singh
444	44//19	Private	Agriculture	0.0177	kartar singh son amar singh
445	44//2	Private	Agriculture	0.2377	Joga Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 872/1/4/6461 hissa, Jaswant Singh son Gajan Singh son Sohal Singh 1672/1/4/6461 hissa Hisedaran Suba Singh son Subog Singh 1695/1/4/6461 hissa darsan singh son subeg singh 849/1/4/6461 hissa, amartpal singh - gurpal singh son joga singh B:B: 800/6461 hissa, harpreet singh - sandep singh munesh son darsan singh B:B: 572/6461 hissa,
446	44//23	Private	Agriculture	0.1037	kartar singh son amar singh
447	44//24	Private	Agriculture	0.3591	kartar singh son amar singh
448	44//25/1	Private	Agriculture	0.1087	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh

					955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
449	44/25/2	Private	Agriculture	0.0253	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
450	44/8	Private	Agriculture	0.1568	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
451	44/9	Private	Agriculture	0.3136	barmprkash singh son gurnam singh son amar singh 15/149 sissa, kartar singh son amar singh son nrayan singh 573/2384 hiss satnam singh son amar singh son nrayan singh 955/2384 hiss joga singh son srinder singh 77/298 hissa,
452	45/5	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.0303	Virsha Singh Hisar transferred, Kunida Kawar Indrapal Singh shamlat patti Hasab rast
453	57/15	Private	Agriculture	0.1821	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hiss Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hiss, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hiss, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hiss ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hiss
454	57/16	Private	Agriculture	0.0101	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hiss Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hiss, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hiss, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hiss ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hiss

455	57//4	Private	Agriculture	0.2251	Kulwant Singh son Kirpal Singh 140/459 hissa, balwant singh so Kirpal singh 1290263/2322999 hissa Arshdeep singh so surinder singh 471/3374 hissa
456	57//5	Private	Agriculture	0.3616	Kulwant Singh son Kirpal Singh 140/459 hissa, balwant singh so Kirpal singh 1290263/2322999 hissa Arshdeep singh so surinder singh 471/3374 hissa
457	57//6	Private	Agriculture	0.3768	Heera singh son gurucharan singh son khem singh
458	57//7	Private	Agriculture	0.0303	Heera singh son gurucharan singh son khem singh
459	58//1	Private	Agriculture	0.0329	Kulwant Singh son Kirpal Singh
460	58//10	Private	Agriculture	0.2327	Pramjit Singh , Satbir Singh son Gurbachan Singh
461	58//11	Private	Agriculture	0.3971	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
462	58//12	Private	Agriculture	0.0582	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
463	58//19	Private	Agriculture	0.2681	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
464	58//20	Private	Agriculture	0.3515	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son

					Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
465	58//21	Private	Agriculture	0.1467	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
466	58//22	Private	Agriculture	0.4021	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
467	58//23	Private	Agriculture	0.086	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
468	65//21	Private	Agriculture	0.0101	Nachhattar Singh Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh son Mal Singh 1/6 hissa, darshan singh - Norang Singh Putr Garpial Singh 2/9 hissa, chhoti devi widow lal Singh 1/6 hissa, kuldip singh so nachhattar singh 1/12 hissa ,Manpreet singh -gursevak singh so Jarnail singh 1/12 b: b: hissa. himmat singh kirt singh son sateesh kumar 1/9 hissa
469	66//1	Private	Agriculture	0.0025	darshan singh son gurpyal singh 1/9 hissa himmat singh son sateesh kumar 1/9 hissa harpreet singh son narang singh 1/9 hissa manpreet singh son jarnel singh 1/6 hissa kuldeep

					singh son nachhattar singh 1/6 hissa satguru singh son lal singh 1/3 hissa
470	66//12	Private	Agriculture	0.0025	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
471	66//13	Private	Agriculture	0.301	Satgur Singh baggarh son Lal Singh 1/3 hissa, Darshan Singhso Gulpial Singh 1/9 hissa Manpreet singhso jarnail singh 1/6 hissa Kuldip singh so Nachhattar singh1/6 hissa Himmant singh, so satis kumar 1/9 hissa harpreet singh so gulpial singh 1/9 hissa
472	66//14	Private	Agriculture	0.3288	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhattar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gulpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhattar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gulpial singh b:b: 1/9 hissa
473	66//15	Private	Agriculture	0.0025	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhattar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gulpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhattar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gulpial singh b:b: 1/9 hissa
474	66//16	Private	Agriculture	0.1467	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhattar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa,

					Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa
					Kuldip singh sop Nachhatar singh 1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
475	66//17	Private	Agriculture	0.4021	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh 1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
476	66//18	Private	Agriculture	0.086	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh 1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
477	66//2	Private	Agriculture	0.3288	Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
478	66//24	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.2681	Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 b:b: hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/3 hissa, Darshan Singh -Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail

					singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh so Nachhatar singh 1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
479	66/3	Private	Agriculture	0.301	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
480	66/4	Private	Agriculture	0.0025	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
481	66/7	Private	Agriculture	0.1163	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
482	66/8	Private	Agriculture	0.4046	darshan singh son gurpyal singh 1/9 hissa himmat singh son sateesh kumar 1/9 hissa harpreet singh son narang singh 1/9 hissa manpreet singh son jarnel singh 1/6 hissa kuldeep singh son nachhattar singh 1/6 hissa satguru singh son lal singh 1/3 hissa
483	66/9	Private	Agriculture	0.1163	,Navjot singh so Pramjit Singh 1/9 hissa Hira singh son Gurbachan Singh 1/3 hissa, Satbir Singh son Gurbachan Singh son Khem Singh 1/3 hissa, jagpal singh so parmjit singh 1/9 hissa ,Jaswinder kaur wo parmjit singh 1/9 hissa
484	81/15	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0379	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar

					singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
485	81//26	Private	Agriculture	0.086	Nachhatar Singh Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh son Mal Singh 1/6 hissa, darshan singh - Norang Singh Putr Gurpial Singh 2/9 hissa, chhoti devi widow lal Singh 1/6 hissa, kuldip singh so nachhattar singh 1/12 hissa ,Manpreet singh -gursevak singh so Jarnail singh 1/12 b: b: hissa. himmat singh kirt singh son sateesh kumar 1/9 hissa
486	81//4	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0101	Nachhatar Singh Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh son Mal Singh 1/6 hissa, darshan singh - Norang Singh Putr Gurpial Singh 2/9 hissa, chhoti devi widow lal Singh 1/6 hissa, kuldip singh so nachhattar singh 1/12 hissa ,Manpreet singh -gursevak singh so Jarnail singh 1/12 b: b: hissa. himmat singh kirt singh son sateesh kumar 1/9 hissa
487	81//5	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.3288	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
488	81//6	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.2377	Rajindra Kaur wife Satgur

					Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
489	82//1	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.172	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
490	82//10	Private	Agriculture	0.3718	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa

491	82//11	Private	Agriculture	0.3844	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
492	82//12	Private	Agriculture	0.2074	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
493	82//18	Private	Agriculture	0.0405	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so

					Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
494	82//19	Private	Agriculture	0.3869	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
495	82//20	Private	Agriculture	0.2074	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
496	82//21	Private	Agriculture	0.0228	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar

					singh 207/2498 hissa Jarnail Singh son Joginder Singh 228/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Garpial Singh 549/4996 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498
					Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 127/1/2/1249 hissa
497	82//22	Private	Agriculture	0.3718	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
498	82//23	Private	Agriculture	0.2428	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
499	82//9	Private	Agriculture	0.0228	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 69/1249 hissa, Norang Singh son Gurpial Singh son Mal Singh 549/4996 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 414/2498 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 551/2498 hissa, Darshan Singh son Gurpial Singh 549/4996 hiss aAjit singh so hari singh so

					Ganga singh 10/1249 hissa Chhoti devi vidva lal singh 69/1249 hissa Binder kaur wo gurpial singh 46/1249 hissa Manpreet singh so Jarnail singh 103/2498 hissa Gursewak singh so jarnail singh 103/2498 Kuldip singh sop Nachhatar singh 103/1249 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh 92/1249 hissa
500	86//20	Private	Agriculture	0.0025	Jagjit singh -Kewaljit singh so jarnail singh b: b: hissa
501	86//21	Private	Agriculture	0.1163	Jagjit singh -Kewaljit singh so jarnail singh b: b: hissa
502	87//13	Private	Agriculture	0.1113	satnam singh so va Pritam kaur vidva sohan singh b:b: 1/6 hissa Ranjeet singh- Baldev singh -jaspal singh gurmeet singh so bishan singh b;b: 1/3 hissa Hardeep singh so bawa singh 1/12 hissa Gurbhinder singh - kulvir singh so Niranjan singh b:b: 1/6 hissa harpreet singh so gurnam singh 1/12 hissa kulvir kaur vidva va sandip singh so Balwinder singh b:b: 1/12 hissa Gurjit singh so niranjan singh 1/12 hissa
503	87//14	Private	Agriculture	0.4046	Gurmej singh so kesar singh
504	87//15	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.086	Gurmej singh so kesar singh 2/3 hissa Jagjit singh - Kewaljit singh so jarnail singh b: b 1/3: hissa
505	87//16	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.2984	Gurmej singh so kesar singh 2/3 hissa Jagjit singh - Kewaljit singh so jarnail singh b: b 1/3: hissa
506	87//17	Private	Agriculture	0.3288	Jagjit singh -Kewaljit singh so jarnail singh b: b: hissa
507	87//2	Private	Agriculture	0.1619	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so

					jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
508	87//24	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.1113	Jagjit singh -Kewaljit singh so jarnail singh b: b: hissa
509	87//25	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.3844	Jagjit singh -Kewaljit singh so jarnail singh b: b: hissa
510	87//3	Private	Agriculture	0.3541	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
511	87//4	Private	Agriculture	0.0607	Jagjit singh -Kewaljit singh so jarnail singh b: b: hissa
512	87//7	Private	Agriculture	0.2731	Gurmej singh so kesar singh
513	87//8	Private	Agriculture	0.3212	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
514	87//9	Private	Agriculture	0.0101	Rajindra Kaur wife Satgur Singh 1/6 hissa, Nachhatar singh -Jarnail Singh son Joginder Singh 1/6 hissa, Satgur Singh son Lal Singh 1/6 hissa, Darshan Singh - Norang singh so Gurpial Singh 2/9 hissa Manpreet singh- Gursewak singh so jarnail singh b:b: 1/12 hissa Kuldip singh sop Nachhatar singh1/12 hissa Himmant singh -Kimat singh so satis

					singh so Gurpial singh b:b: 1/9 hissa
Village: Gulzarpur Tharua					
515	28//18/2	Private	Agriculture	0.0101	Sukhwinder Kaur Widow va parwinder Singh son of Gurinder Singh son of Gurdeep Singh b:b: 1/2 part Sukhwinder Kaur wife Bhupinder Singh son Gulzar Singh 466/1/2/1003part HARBHINDER SINGH so Chanchal singh 35/1003 hissa
516	28//22	Private	Agriculture	0.129	Sukhwinder Kaur Widow va parwinder Singh son of Gurinder Singh son of Gurdeep Singh b:b: 1/2 part Sukhwinder Kaur wife Bhupinder Singh son Gulzar Singh 466/1/2/1003part HARBHINDER SINGH so Chanchal singh 35/1003 hissa
517	28//23	Private	Agriculture	0.0607	Sukhwinder Kaur Widow va parwinder Singh son of Gurinder Singh son of Gurdeep Singh b:b: 1/2 part Sukhwinder Kaur wife Bhupinder Singh son Gulzar Singh 466/1/2/1003part HARBHINDER SINGH so Chanchal singh 35/1003 hissa (dar 2/24 hissa) tajinder singh urf tajinder pal singh son pritan singh
518	309	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0405	Jumla Mustrka Malkan Deh
519	310	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0051	Jumla Mustrka Malkan Deh
520	46//12	Private	Agriculture	0.0481	Narinder kaur wo harbhej singh so arjun singh 1/2 hissa Sandeep kaur wo Ranjit singh so arjun singh 1/2 hissa
521	46//13	Private	Agriculture	0.4021	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
522	46//14/1	Private	Agriculture	0.1315	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo

					harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
523	46//14/2	Private	Agriculture	0.0025	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
524	46//17/1	Private	Agriculture	0.1821	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
525	46//17/2	Private	Agriculture	0.0582	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
526	46//18	Private	Agriculture	0.3237	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
527	46//2	Private	Agriculture	0.2529	Sukhwinder Singh son of Hardeep Singh son of Jagat Singh
528	46//23	Private	Agriculture	0.2529	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 1/3 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 1/3 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 1/3
529	46//24	Private	Agriculture	0.3439	Satwant Kaur Widow 1/5 hissa Ranjodh Singh , jorawar Singh son of Surinder Singh son of kartar singh 4/5 part
530	46//3	Private	Agriculture	0.2327	Sukhwinder Singh son Hardeep Singh son Jagat Singh
531	46//7	Private	Agriculture	0.0152	inderjit singh so hardeep singh so Jagat singh
532	46//8	Private	Agriculture	0.3794	Indrajit Singh son Hardeep Singh son Jagat Singh
533	46//9	Private	Agriculture	0.2023	Indrajit Singh son Hardeep Singh son Jagat Singh 15/160 hissa sukhwinder Singh son Hardeep Singh son Jagat Singh 145/160 hissa

534	47//13/2	Private	Agriculture	0.2655	Ajit singh so Tara singh
535	47//14	Private	Agriculture	0.4046	Ajit singh so Tara singh mustri
536	47//15	Private	Agriculture	0.1492	Bhupinder Singh son of Kartar Singh son of Charanjit Singh
537	47//16	Private	Agriculture	0.1492	Bhupinder Singh son of Kartar Singh son of Charanjit Singh
538	47//17	Private	Agriculture	0.4046	Hardeep singh , Nabab singh so Joginder singh b: b: Hissa 751/1/2/1263 hissa Kapoor singh -Gurdiyal singh so Gurbachan singh b:b: hissa 511/1/2/1263
539	47//18	Private	Agriculture	0.2276	Hardeep singh , Nabab singh so Joginder singh b: b: Hissa 751/1/2/1263 hissa Kapoor singh -Gurdiyal singh so Gurbachan singh b:b: hissa 511/1/2/1263
540	47//23/1	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0202	Hardeep singh , Nabab singh so Joginder singh b: b: Hissa 751/1/2/1263 hissa Kapoor singh -Gurdiyal singh so Gurbachan singh b:b: hissa 511/1/2/1263
541	47//23/2/1	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0961	Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Gurdial Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 45/232 part Hardeep Singh Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/2 part Parsinder Kaur wife Gurdial Singh son Gurbachan Singh 13/232 part
542	47//23/2/2	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0101	Jain widow va Bhana singh -Gulab ram -Garib das - Fakir ram so foola ram so Budh ram .
543	47//24	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.4046	Kapur Singh-Gurdiyal singh so Gurbachan Singh son of Kandhara Singh B:B hissa
544	47//25	Private	Agriculture	0.1543	Kapur Singh-Gurdiyal singh so Gurbachan Singh son of Kandhara Singh B:B hissa
545	47//26	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0025	Vikramjit Singh son of Janki Das son of Dhani

					Ram 1/2 part Sanjeev Kumar son Janki Das son Dhani Ram 1/2 part
546	47//3	Private	Agriculture	0.2175	Ranjit kaur wo Paramjit singh so Arjun singh 76/258 hissa Narinder kaur wo harbhej singh 76/258 hissa Sandip kaur wo Ranjit singh so Arjun singh 76/258 Satwant Kaur Widow 10/430 hissa va Ranjodh Singh jorawar Singh son of Surinder Singh son of kartar singh 40/430 part
547	47//4	Private	Agriculture	0.3844	Satwant Kaur Widow 1/5 hissa Ranjodh Singh jorawar Singh son of Surinder Singh son of kartar singh 4/5 part
548	47//5	Private	Agriculture	0.0076	Satwant Kaur Widow 1/5 hissa Ranjodh Singh jorawar Singh son of Surinder Singh son of kartar singh 4/5 part
549	47//6	Private	Agriculture	0.0506	Satwant Kaur Widow 1/5 hissa Ranjodh Singh jorawar Singh son of Surinder Singh son of kartar singh 4/5 part
550	47//7	Private	Agriculture	0.4046	Jaswant Singh son of Balveer Singh
551	47//8	Private	Agriculture	0.2175	Jaswant Singh son of Balveer Singh
552	63//10	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0025	Lakhibir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
553	63//11/1	Private	Gair Mumkin	0.1012	Virsa singh so Vazir singh so Khuspal singh
554	63//11/2	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.1517	Lakhibir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part

555	63//12	Private	Agriculture	0.0354	Daljit Singh son Jaimal Singh son Tara Singh Pata Kuninda Indian Lim 1/20 Pata Gurinda Baqi Bila Pata 19/20 2/5 Hisa, Sheela Devi wife Vija Indra Singh son Gaje Singh 3/5 Hissa
556	63//19	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.0329	Gram panchayat
557	63//20	Private	Agriculture	0.2023	Lakhibir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
558	63//21	Private	Agriculture	0.4046	Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Gurdial Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Jaswinder Singh son of Subeg Singh son of Ganda Singh 1/15 part Baghel Singh son of Subeg Singh son of Ganda Singh 1/15 part Yadwinder Singh son of Subeg Singh son of Ganda Singh 1/15 part Harvel Singh son of Subeg Singh son of Ganda Singh 1/15 part Sandeep Singh son of Sisa Singh son of Subeg Singh 1/15 part (NOTE. - khewat total rakba 16-0 Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh sold 8-0)
559	63//22	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.2605	Gram panchayat
560	63//23	Private	Agriculture	0.0025	Gram panchayat
561	64//14/1	Private	Agriculture	0.1163	Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1043/10572 Part Gurdial

					Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Sukhwinder Kaur wife Joginder Singh son Kandhara Singh 1/6 part Baljinder Kaur wife Kapur Singh son Gurbachan Singh 400/2643 part
562	64//14/2	Private	Agriculture	0.0152	Lakhbir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
563	64//15	Private	Agriculture	0.4046	Lakhbir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
564	64//16	Private	Agriculture	0.1973	Lakhbir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
565	64//17/1	Private	Agriculture	0.0152	Lakhbir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
566	64//17/2	Private	Agriculture	0.1189	Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh

					1043/10572 Part Gurdial Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/6 part Sukhwinder Kaur wife Joginder Singh son Kandhara Singh 1/6 part Baljinder Kaur wife Kapur Singh son Gurbachan Singh 400/2643 part
567	64/24	Private	Agriculture	0.0152	Satnam Singh son of Hazara Singh son of Lahina Singh 153/823 part Kashmir Singh son of Hazara Singh son of Lahina Singh 159/823 part Davinder Singh son of Gurcharan Singh son of Hazara Singh 54/823 part Jasveer Singh son of Gurcharan Singh son of Hazara Singh 6421/82300 part Lakhwinder Kaur Widow Nasabar Singh Son of Hazara Singh 36/823 Part Paramjit Singh son of Nasabar Singh son of Hazara Singh 95/1646 Part Harwinder Singh son of Nasabar Singh son of Hazara Singh 95/1646 Part Lakhwinder Singh son of Jangir Singh son of Hazara Singh 59/1646 Part Sadha Singh son of Jangir Singh son of Hazara Singh 4/823 part Rajinder Singh son of Kashmir Singh son of Hazara Singh 95/823 part Amarjit Kaur Widow Sukhwinder Singh Son of Jangir Singh 59/6584 Part Bhagat Singh son of Sukhwinder Singh son of Jangir Singh 59/6584 part Kulwinder Kaur wife Bhagat Singh son Sukhwinder Singh 3/6584 part Sukhwinder Singh son of Jangir Singh son of Hazara Singh 23/2469 part Nasabar Singh son of Hazara Singh son of Lahina Singh 35/1646 Part Jangir Singh son of Hazara Singh

					son of Lahina Singh 15/1646 Part Gurcharan Singh son of Hazara Singh son of Lahina Singh 35/1646 Part Jaskirat Singh son of Harwinder Singh
					son of Sadha Singh 55/823 part
568	64/25	Private	Agriculture	0.2099	Lakhbir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh 1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
569	64//4/1	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.0228	Hardeep singh , Nabab singh so Joginder singh b: b: Hissa 751/1/2/1263 hissa Kapoor singh -Gurdiyail singh so Gurbachan singh b:b: hissa 511/1/2/1263
570	64//4/2	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.3439	Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Gurdial Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 45/232 part Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Parsinder Kaur wife Gurdial Singh son Gurbachan Singh 13/232 part
571	64//5/2	Private	Agriculture, Gair Mumkin	0.2276	Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Gurdial Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 45/232 part Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Parsinder Kaur wife Gurdial Singh son Gurbachan Singh 13/232 part
572	64//6	Private	Agriculture	0.3465	Lakhbir Singh son of Jangir Singh son of Tara Singh

					1/2 part Jasveer Singh son of Mahinga Singh son of Tara Singh 1/4 part Sahib Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part Jatinderpal Singh son of Nirmal Singh son of Mahinga Singh 1/8 part
573	64/7	Private	Agriculture	0.2934	Kapur Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Gurdial Singh son of Gurbachan Singh son of Kandhara Singh 45/232 part Hardeep Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Nawab Singh son of Joginder Singh son of Kandhara Singh 1/4 part Parsinder Kaur wife Gurdial Singh son of Gurbachan Singh 13/232 part
574	66/1	Private	Agriculture	0.2175	Gram panchayat
575	66/10	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.0051	Gram panchayat
576	66/2	Common(Gram Panchayat)	Agriculture	0.4046	Gram panchayat
577	66/3	Private	Agriculture	0.2655	Gram panchayat
578	66/4	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0101	Gram panchayat
579	66/7	Private	Agriculture	0.1568	Gram panchayat
580	66/8	Private	Agriculture	0.2251	Gram panchayat
581	66/9	Private	Agriculture	0.2327	Gram panchayat
582	75	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	1.0849	Gram panchayat
Village: Lalwa(178)					
583	12/5	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Manga Singh son of Seva Singh son of Matab Singh
584	4/16	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	Gurjit singh-harjit singh son of gurbachan singh-678/1212 hissa,gurbachan singh son of mangal singh - 534/1212 hissa
585	4/25	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	Gurjit singh-harjit singh son of gurbachan singh-678/1212 hissa,gurbachan singh son of mangal singh - 534/1212 hissa
Village: Shutrana (200)					

586	1031	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0708	gram panchayaat deh shareaam
587	1048	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0986	gram panchayaat deh shareaam
588	1076	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.1492	gram panchayaat deh shareaam
589	111//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikkal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikkal singh 1200/3646 hissa
590	111//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3414	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkal singh
591	111//16	Private	Irrigated (chahi)	0.1366	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkal singh
592	111//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkal singh
593	111//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0784	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkal singh
594	111//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkal singh
595	111//5/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	Balkar Singh son Ghasita Singh son Sulkhan Singh
596	111//5/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	Balkar Singh son Ghasita Singh son Sulkhan Singh
597	111//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Balkar Singh son Ghasita Singh son Sulkhan Singh
598	111//7	Private	Irrigated (chahi)	0.1973	, Jagseer Singh son Samparun Singh son Iqbal singh 47/78 Hisa, Avtar Kaur widow woBakhshish Singh son Iqbal Singh 20/78 Hisa, Bhupinder Singh son Baksheesh Singh son Iqbal Singh11/78 HISA
599	112//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh790/1680 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 50/1680 hissa nirmal singh so kartar singh so Teja singh 201/1680 hissa, Gurbhajan singh so kartar singh so Teja singh 269/1/2/1680 hissa,Rajwant singh so kartar singh so Teja singh 51/1/2/1680 hissa, Paramjit kaur wo Rajwant singh so kartar singh 218/1680 hissa, Gurbaj singh -nirmal

					singh so kartar singh 33/1/3/1680 hissa palwinderpal singh -amarjit singh so Nirmal singh so kartar singh 66/2/3 /1680 hissa
600	112//11	Private	Irrigated (chahi)	0.2681	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkbal singh
601	112//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1189	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
602	112//20	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkbal singh
603	112//21/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2757	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkbal singh
604	112//21/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	Jagsir singh so Sampuran singh so Ikkbal singh
605	112//22	Private	Irrigated (chahi)	0.3515	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
606	112//23/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
607	127//1	Private	Irrigated(chahi)	0.0607	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
608	127//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kartar Kaur daughter Teja Singh son Sundar Singh
609	127//12	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai

					partap singh 150/3909
610	127//13	Private	Irrigated (chahi)	0.3212	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa,bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
611	127//14	Private	Irrigated (chahi)	0.2605	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa,bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
612	127//16	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 1/2 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 1/2 hissa
613	127//17	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 1/2 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 1/2 hissa
614	127//18	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.1087	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa,bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
615	127//2	Private	Irrigated (chahi)	0.2554	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
616	127//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0759	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa,bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar

					singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
617	127//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1947	Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 1/2 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 1/2 hissa
618	127//25	Private	Irrigated (chahi)	0.349	Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 1/2 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 1/2 hissa
619	127//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
620	127//7	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa, bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
621	127//8	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa, bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
622	127//9	Private	Irrigated (chahi)	0.1745	Jai Pratap Singh son Chanan Singh son Randhir Singh 2629//3909 His, Gurrparteet Singh son Jai Pratap Singh son Chanan Singh 1130/3909 His kamljeet kaur wife jai partap singh 150/3909
623	151//15	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	nirmal Singh son Kartar Singh son Teja Singh 201/1/4/1786 Hissa, Gurbhajan Singh son Kartar Singh son Teja Singh 253/1/4/1786 Hissa, Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 893/1786 Hissa, Pramjit Kaur wife

					Rajwant Singh son Kartar Singh 170//1786 Hisa,rajwant singh son kartar singh son teja singh 83/1/4/1786 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son
					Joginder Singh son Kartar Singh 83/1/4/1786 hissa gurbaj singh -kulwinder singh - amarjeet singh son nirmal singh son kartar singh 102/1786 hissa,
624	151//4/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	nirmal Singh son Kartar Singh son Teja Singh 201/1/4/1786 Hisa, Gurbhajan Singh son Kartar Singh son Teja Singh 253/1/4/1786 Hisa, Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 893/1786 Hisa, Pramjit Kaur wife Rajwant Singh son Kartar Singh 170//1786 Hisa,rajwant singh son kartar singh son teja singh 83/1/4/1786 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 83/1/4/1786 hissa gurbaj singh -kulwinder singh - amarjeet singh son nirmal singh son kartar singh 102/1786 hissa,
625	151//5	Private	Irrigated (chahi)	0.3566	nirmal Singh son Kartar Singh son Teja Singh 201/1/4/1786 Hisa, Gurbhajan Singh son Kartar Singh son Teja Singh 253/1/4/1786 Hisa, Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 893/1786 Hisa, Pramjit Kaur wife Rajwant Singh son Kartar Singh 170//1786 Hisa,rajwant singh son kartar singh son teja singh 83/1/4/1786 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 83/1/4/1786 hissa gurbaj singh -kulwinder singh - amarjeet singh son nirmal singh son kartar singh 102/1786 hissa,
626	151//6	Private	Irrigated (chahi)	0.177	Amarjit singh-Gurbaz singh -Palwinderpal singh so Joginder Singh son Kartar Singh 9/240 Jaskarn ingh-jaspal singh so Joginder Singh son Kartar

					Singh 60/240hissa , Rajwant Singh son Kartar Singh son Teja Singh 60/240 HISA, Gurbhajan Singh Son Kartar Singh son Teja Singh 60/240 Hisa,
					Nirmal Singh Son Kartar Singh son Teja Singh 51/240 His
627	152//1	Private	Irrigated (chahi)	0.215	Sukhwinder Kaur widow Satnam Singh son Amar Singh b:b: 71/284 Hisa, dalraj singh so Satnam Singh son Amar Singh b:b: 71/284 Hisa, gurdev Singh son Amar Singh 71/142Hisa,
628	152//10/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	Sukhwinder Kaur widow Satnam Singh son Amar Singh b:b: 71/284 Hisa, dalraj singh so Satnam Singh son Amar Singh b:b: 71/284 Hisa, gurdev Singh son Amar Singh 71/142Hisa,
629	152//10/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	Amar Singh son Vasan Singh son Ladha Singh
630	152//10/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	amaritpal singh son baljeet sinh son hari singh 1/2 hissa,labh singh son hari singh son lok singh 1/2 hissa
631	152//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3288	nirmal Singh son Kartar Singh son Teja Singh 201/1/4/1786 Hisa, Gurbhajan Singh son Kartar Singh son Teja Singh 253/1/4/1786 Hisa, Dalip Singh son Teja Singh son Sundar Singh 893/1786 Hisa, Pramjit Kaur wife Rajwant Singh son Kartar Singh 170//1786 Hisa,rajwant singh son kartar singh son teja singh 83/1/4/1786 hissa, jaskarn singh- jaspal singh son Joginder Singh son Kartar Singh 83/1/4/1786 hissa gurbaj singh -kulwinder singh - amarjeet singh son nirmal singh son kartar singh 102/1786 hissa,
632	152//12/1	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.1517	Lakhbir Singh son Jangir Singh son Tara Singh 1/2 son, Jasveer Singh son Mahinga Singh son Tara Singh 1/4 Hisa, Sahib

					Singh son Nirmal Singh son Mahinga Singh 1/8 Hisa, Jatindrapal Singh son Nirmal Singh son Mahinga Singh 1/8 His
633	152//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1694	Sadha Singh son Kartar Singh 320/650 HISA, Kashmir Singh son SADHA SINGH 82/1/2/650 HISA, NARINDER SINGH SON SADHA SINGH 82/1/2/650 HISA PAGAT SINGH SON JOGINDER SINGH 82/1/2/650 HISA, MALKIT SINGH SON BALWANT SINGH 82/1/2/650 HISA
634	152//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Sadha Singh son Kartar Singh 320/650 HISA, Kashmir Singh son SADHA SINGH 82/1/2/650 HISA, NARINDER SINGH SON SADHA SINGH 82/1/2/650 HISA PAGAT SINGH SON JOGINDER SINGH 82/1/2/650 HISA, MALKIT SINGH SON BALWANT SINGH 82/1/2/650 HISA
635	152//18	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	raj kumar son sam lal 80/614 hissa , krishan kumar son sam lal 80/307 hissa, khusbi douter meyor ram 20/307 hissa, meyor ram son hardev ram 77/614 hisa, gulshan kumar son hardev ram 77/614 hissa, bhag singh son sham lal 80/614 hissa, harmesh bhai douter sadhu ram son gehna ram 40/614 hissa,manjeet kaur wife sukhwindersingh son jangeer singh 80/614 hissa parmjeet kaur wife baljeet singh son jangeer singh 80/614 hissa,
636	152//19	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa,bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa

637	152//20/1	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.0733	,NirankaR singh son JOGINDER singh 1/2 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 1/2 hissa,
638	152//20/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh Hissedar
639	152//22	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 Hissa,bakshis singh son sucha singh son sunder singh 71/206 hissa, gurjinder singh son joginder singh son sucha singh 8/103 hissa, Nirankar singh sojoginder singh so Suchha singh 8/103 hissa
640	152//23	Private	Irrigated (chahi)	0.3794	raj kumar son sam lal 80/614 hissa , krishan kumar son sam lal 80/307 hissa, khusbi douter meyor ram 20/307 hissa, meyor ram son hardev ram 77/614 hisa, gulshan kumar son hardev ram 77/614 hissa, bhag singh son sham lal 80/614 hissa, harmesh bhai douter sadhu ram son gehna ram 40/614 hissa,manjeet kaur wife sukhwindersingh son jangeer singh 80/614 hissa parmjeet kaur wife baljeet singh son jangeer singh 80/614 hissa,
641	152//24	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	raj kumar son sam lal 80/614 hissa , krishan kumar son sam lal 80/307 hissa, khusbi douter meyor ram 20/307 hissa, meyor ram son hardev ram 77/614 hisa, gulshan kumar son hardev ram 77/614 hissa, bhag singh son sham lal 80/614 hissa, harmesh bhai douter sadhu ram son gehna ram 40/614 hissa,manjeet kaur wife sukhwindersingh son jangeer singh 80/614 hissa parmjeet kaur wife baljeet singh son jangeer singh 80/614 hissa,
642	152//9/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Amar Singh son Vasan Singh son Ladha Singh
643	152//9/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	labh kaur wife kaur singh son maghar singh

644	164//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	narinder kaur wife sukhwinder singh urf sukha singh so gurdeyal singh 508/5688 hissa, partap singh son sukhwinder singh son gurdeyal singh 519/1/4/5688 hissa,harwinder singh son sukhwinder singh son gurdeyal singh 348/1/4/5688 hissa, varyam singh son gurdeyal singh 631/5688 hissa,baghel singh son gurdeyal singh son gopal singh 737/5688 hissa, kuldeep singh son gurdeyal singh son gopal singh 508/1/2/5688 hissa, harddep singh son gurdeyal singh son gopal singh 720/5688 hissa, gurdeyal singh son gopal singh 777/5688 hissa, baljeet singh son jaswant singh 28/1/2/5688 hissa, kamjeet singh - ram singh son balwinder singh son guralp singh 910/1/2/5688 hissa,
645	164//20	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.1922	Harjindetr kaur wop paramjit singh 1/2 hissa mandeep kaur do jaswant singh so maan singh 1/8 hissa sandip singh so jaswant singh so maan singh 1/8 hissa ,Paramjit singh so joginder singh so bhan singh 1/4 hissa
646	164//21	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.3869	Harjindetr kaur wop paramjit singh 1/2 hissa mandeep kaur do jaswant singh so maan singh 1/8 hissa sandip singh so jaswant singh so maan singh 1/8 hissa ,Paramjit singh so joginder singh so bhan singh 1/4 hissa
647	164//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Harjindetr kaur wop paramjit singh 1/2 hissa mandeep kaur do jaswant singh so maan singh 1/8 hissa sandip singh so jaswant singh so maan singh 1/8 hissa ,Paramjit singh so joginder singh so bhan singh 1/4 hissa
648	165//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Sinder Singh son Hazur Singh
649	165//14	Private	Irrigated (chahi)	0.306	sukhwinder singh-baljit

					singh so jangir singh so ujar singh 2239/3382 hissa jaswinder kaur widow jangir singh so ujjager singh 1143/3382 hissa
650	165//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	sukhwinder singh-baljit singh so jangir singh so ujar singh 2239/3382 hissa jaswinder kaur widow jangir singh so ujjager singh 1143/3382 hissa
651	165//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	Harjindetr kaur wop paramjit singh 1/2 hissa mandeep kaur do jaswant singh so maan singh 1/8 hissa sandip singh so jaswant singh so maan singh 1/8 hissa ,Paramjit singh so joginder singh so bhan singh 1/4 hissa
652	165//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0683	Harjindetr kaur wop paramjit singh 1/2 hissa mandeep kaur do jaswant singh so maan singh 1/8 hissa sandip singh so jaswant singh so maan singh 1/8 hissa ,Paramjit singh so joginder singh so bhan singh 1/4 hissa
653	165//2	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 hissa Bakhsis singh so suchha singh so sundar singh 1/2 hissa
654	165//25	Private	Irrigated (chahi)	0.2175	Harjindetr kaur wop paramjit singh 1/2 hissa mandeep kaur do jaswant singh so maan singh 1/8 hissa sandip singh so jaswant singh so maan singh 1/8 hissa ,Paramjit singh so joginder singh so bhan singh 1/4 hissa
655	165//3	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 hissa Bakhsis singh so suchha singh so sundar singh 1/2 hissa
656	165//4	Private	Irrigated (chahi)	0.258	sukhwinder singh-baljit singh so jangir singh so ujar singh 2239/3382 hissa jaswinder kaur widow jangir singh so ujjager singh 1143/3382 hissa
657	165//6	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	sukhwinder singh-baljit singh so jangir singh so

					ujagar singh 2239/3382 hissa jaswinder kaur widow jangir singh so ujjager singh 1143/3382 hissa
658	165//7	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	sukhwinder singh-baljit singh so jangir singh so ujagar singh 2239/3382 hissa jaswinder kaur widow jangir singh so ujjager singh 1143/3382 hissa
659	165//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	Joginder Singh son Sucha Singh son Sundar Singh 1/2 hissa Bakhsis singh so suchha singh so sundar singh 1/2 hissa
660	188//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kuldip singh -vipal jeet singh so amrik singh so inder singh b:b: hissa
661	189//1	Private	Irrigated (chahi)	0.301	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
662	189//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Rajmalkit kaur wo malook singh so kartar singh 40/458 hissa Surjeet kaur wo boota singh so kartar singh 40/458 hissa sachin kumar so sikraram soBachna Ram 40/458 hissa muni ram so assy ram so Bhakha Ram 149/458 Hisa, Banta Ram Putra Aisi Ram Putra Bakha Ram 149/458 Hisa, boota singh so Kartar singh so sohal singh 40/458 ,malook singh so kartar singh so sohal singh 40/458 hissa
663	189//12	Private	Irrigated (chahi)	0.2832	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva Singh -Gurwinder Singh son Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
664	189//13	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.3566	Om Prakash son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 Hissa, Bila Ram - Sher Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 HISA, Daler Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 926/9485 HISA, Bachno Bai widow Gyan Chand son Gahina Ram 131/1897 HISA,

					Kulvir Kaur wife Gurwinder Singh son Amir Singh 40/271 HISA
665	189//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Om Prakash son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 Hissa, Bila Ram - Sher Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 HISA, Daler Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 926/9485 HISA, Bachno Bai widow Gyan Chand son Gahina Ram 131/1897 HISA, Kulvir Kaur wife Gurwinder Singh son Amir Singh 40/271 HISA
666	189//17	Private	Irrigated (chahi)	0.2175	Om Prakash son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 Hissa, Bila Ram - Sher Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 HISA, Daler Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 926/9485 HISA, Bachno Bai widow Gyan Chand son Gahina Ram 131/1897 HISA, Kulvir Kaur wife Gurwinder Singh son Amir Singh 40/271 HISA
667	189//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3869	Om Prakash son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 Hissa, Bila Ram - Sher Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 12/35 HISA, Daler Singh son Gyan Chand son Gahina Ram 926/9485 HISA, Bachno Bai widow Gyan Chand son Gahina Ram 131/1897 HISA, Kulvir Kaur wife Gurwinder Singh son Amir Singh 40/271 HISA
668	189//19/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
669	189//2	Private	Irrigated (chahi)	0.258	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
670	189//23	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva

					Singh -Gurwinder Singhson Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
671	189//24	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.3971	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva Singh -Gurwinder Singhson Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
672	189//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
673	189//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Rajmalkit kaur wo malook singh so kartar singh 40/458 hissa Surjeet kaur wo boota singh so kartar singh 40/458 hissa sachin kumar so sikraram soBachna Ram 40/458 hissa muni ram so assy ram so Bhakha Ram 149/458 Hisa, Banta Ram Putra Aisi Ram Putra Bakha Ram 149/458 Hisa, boota singh so Kartar singh so sohal singh 40/458 ,malook singh so kartar singh so sohal singh 40/458 hissa
674	189//9	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva Singh -Gurwinder Singh son Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
675	200//1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	gajinder singh so variam singh so amar singh
676	200//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	balwinmder singh so Asha singh so kartar singh 200/360hissa ,bhawandeep singh so Balwinder singh so Asha singh 160/360 hissa
677	200//11/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	Princepal singh so pargat singh so gurmukh singh b:b: 35/142 hissa Sukhwinder singh so Gurmukh singh 35/142 hissa Mohinder singh so teja singh so Mohinder singh 72/142 hissa
678	200//11/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1973	Princepal singh so pargat singh so gurmukh singh b:b: 35/142 hissa

					Sukhwinder singh so Gurmukh singh 35/142 hissa Mohinder singh so teja singh so Mohinder singh 72/142 hissa
679	200//12	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	Wazir Singh son Variyam Singh son Amar Singh
680	200//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	malak singh so Fakir singh so Karam singh
681	200//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	Wazir Singh son Variyam Singh son Amar Singh
682	200//20/1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	Kapoor kaur vidva Balkar singh so Teja singh 1/3 hissa Jagprit singh soBalkar singh so Teja singh 1/3 hissa kulwinder kaur d/o balkar singh s/o teja singh 1/3 hissa,
683	200//20/1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	balwinder singh so Asha singh so kartar singh 200/360hissa ,bhawandeep singh so Balwinder singh so Asha singh 160/360 hissa
684	200//20/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	balwinder singh so Asha singh so kartar singh 16/58 hissa ,bhawandeep singh so Balwinder singh so Asha singh 12/58 hissa, buta singh - mluk singh son kartar singh son siona singh b: b: 30/58 hissa,
685	200//21	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Kapoor kaur vidva Balkar singh so Teja singh 1/3 hissa Jagprit singh soBalkar singh so Teja singh 1/3 hissa kulwinder kaur d/o balkar singh s/o teja singh 1/3 hissa,
686	200//22	Private	Irrigated (chahi)	0.2504	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son son Khamisa Ram
687	200//23/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0784	malak singh so Fakir singh so Karam singh 114/140 hissa Kashmir Chand- Dalveer Chand son Diyala Ram son Khamisa Ram 26/140 hissa
688	201//15	Private	Irrigated (chahi)	0.2504	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa

689	201//16	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
690	201//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva Singh -Gurwinder Singhson Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
691	201//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva Singh -Gurwinder Singhson Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
692	201//5	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
693	201//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	Buta Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 His, Maluk Singh son Kartar Singh son Saun Singh 1/2 Hisa
694	201//7/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	Surinder Singh son Maluk Singh son Kartar Singh 1/2 Hisa, Pratap Singh- Seva Singh -Gurwinder Singhson Buta Singh son Kartar Singh 1/2 b:b: Hisa,
695	224//1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son son Khamisa Ram 3/4 Hisa, Mahindra Lal son Virabhan son Diyala Ram 1/4 Hissa
696	224//13	Private	Irrigated (chahi)	0.2327	Kashmir Chand- Dalveer Chand son Diyala Ram son son Khamisa Ram 398/944 Hisa, , Jaga Ram son Diyala Ram son Khamisha Ram 233/944 Hisa, Mahinder Lal son Veerabhan son Diyala Ram 233/944
697	224//14	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Kashmir Chand- Dalveer Chand son Diyala Ram son son Khamisa Ram 398/944 Hisa, , Jaga Ram son Diyala Ram son Khamisha Ram 233/944 Hisa, Mahinder Lal son Veerabhan son Diyala Ram

					233/944
698	224//15	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Kashmir Chand- Dalveer Chand son Diyala Ram son son Khamisa Ram 398/944 Hisa, , Jaga Ram son Diyala Ram son Khamisha Ram 233/944 Hisa, Mahinder Lal son Veerabhan son Diyala Ram 233/944
699	224//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	Jangir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 230/5048 Hisa, Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 1244/5048 Hisa, Sinder Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 150/5048 Hisa, Malak Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 381/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh 461/1/3/5048 Hisa, Sahib Putra Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Karnail Singh son Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Amar Kaur widow Harnam 117/5048 Hisa, navdeep Singh son Amar Singh son Karma Singh 140/5048 Hisa, manjit kaur wo Ranjit singh so Gurnam singh 40/5048 hissa Savarnjit Kaur widow Angraj Singh son Harnam Singh 157/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Angrej Singh son Harnam Singh 197/5048 Hisa, Angraj Singh son Sinder Singh Putra Fakir Singh 632/1/3/5048 Hisa, Rajveer Singh son Malak Singh son Fakir Singh 115/1/3/5048Hisa, Raj kaur widow va kewaljeet kaur -Sarbjit kaur -Amandeep kaur do Mohar singh so Harnam singh b;b: 394/1/3/5048
700	224//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	Ameer singh so karam singh so boota singh
701	224//17/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1138	Jangir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 230/5048 Hisa, Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 1244/5048

					Hisa, Sinder Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 150/5048 Hisa, Malak Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 381/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh 461/1/3/5048 Hisa, Sahib Putra Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Karnail Singh son Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Amar Kaur widow Harnam 117/5048 Hisa, navdeep Singh son Amar Singh son Karma Singh 140/5048 Hisa,manjit kaur wo Ranjit singh so Gurnam singh 40/5048 hissa Savarnjit Kaur widow Angraj Singh son Harnam Singh 157/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Angrej Singh son Harnam Singh 197/5048 Hisa, Angraj Singh son Sinder Singh Putra Fakir Singh 632/1/3/5048 Hisa, Rajveer Singh son Malak Singh son Fakir Singh 115/1/3 /5048Hisa, Raj kaur widow va kewaljeet kaur -Sarbjit kaur -Amandeep kaur do Mohar singh so Harnam singh b,b. 394/1/3/5048
702	224//17/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2301	Mukhtear Singh son Mahajan Singh son Hazara Singh 1/2 Hissa, Jagtar Singh son Mahajan Singh son Hazara Singh 1/2 Hissa,
703	224//18	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Mukhtear Singh son Mahajan Singh son Hazara Singh 1/2 Hissa, Jagtar Singh son Mahajan Singh son Hazara Singh 1/2 Hissa,
704	224//2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son Khamisa Ram 3/4 Hisa, ,, Mahinder Lal son Veerabhan son Diyala Ram 1/4 hissa,
705	224//2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2074	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son Khamisa Ram 3/4 Hisa, ,, Mahinder

					Lal son Veerabhan son Diyala Ram 1/4 hissa,
706	224//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	MukhteaR Singh son Mahajan Singh son Hazara Singh 1/2 Hissa, Jagtar Singh son Mahajan Singh son Hazara Singh 1/2 Hissa,
707	224//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1189	gagndeeP singh son gurmukh singh son fkeer singh 32/1/3/47 hissa gurjeet singh son didar singh son gopal singh 3/47 hissa anoop singh son didar son gopal singh 3/47 hissa sukhwinder singh lakhwinder singh son nirmol singh son tara singh 2/2/3/47 hissa joginder singh son darsan singh son keshar singh 6/47 hissa,
708	224//25/1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.258	gagndeeP singh son gurmukh singh son fkeer singh 121/140 hissa gurjeet singh- anoop singh son didar son gopal singh 7/3/4/140 hissa sukhwinder singh lakhwinder singh son nirmol singh son tara singh 3/1/2/140 hissa joginder singh son darsan singh son keshar singh 7/3/4/140 hissa,
709	224//25/1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	gagndeeP singh son gurmukh singh son fkeer singh 121/140 hissa gurjeet singh- anoop singh son didar son gopal singh 7/3/4/140 hissa sukhwinder singh lakhwinder singh son nirmol singh son tara singh 3/1/2/140 hissa joginder singh son darsan singh son keshar singh 7/3/4/140 hissa,
710	224//3/1	Private	Irrigated (chahi)	0.258	Kashmir Chand Diyalā Ram son son Khamisa Ram 1/2 Hissa, - Dalveer chand son Diyalā Ram son son Khamisa Ram 1/2 Hissa,
711	224//3/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0708	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son son Khamisa Ram 3/4 Hissa, Mahindra Lal son Virabhan son Diyalā Ram 1/4 Hissa
712	224//4/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Kashmir Chand Diyalā

					Ram son son Khamisa Ram 1/2 Hisa,- Dalveer chand son Diyala Ram son son Khamisa Ram 1/2 Hisa,
713	224//7	Private	Irrigated (chahi)	0.177	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son son Khamisa Ram 3/4 Hisa, Mahindra Lal son Virabhan son Diyala Ram 1/4 His
714	224//8	Private	Irrigated (chahi)	0.3996	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son son Khamisa Ram 3/4 Hisa, Mahindra Lal son Virabhan son Diyala Ram 1/4 His
715	224//9	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	Kashmir Chand- Dalveer Chand -Jaga Ram son Diyala Ram son son Khamisa Ram 3/4 Hisa, Mahindra Lal son Virabhan son Diyala Ram 1/4 His
716	225//21	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	Jangir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 230/5048 Hisa, Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 1244/5048 Hisa, Sinder Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 150/5048 Hisa, Malak Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 381/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh 461/1/3/5048 Hisa, Sahib Putra Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Karnail Singh son Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Amar Kaur widow Harnam 117/5048 Hisa, navdeep Singh son Amar Singh son Karma Singh 140/5048 Hisa,manjit kaur wo Ranjit singh so Gurnam singh 40/5048 hissa Savarnjit Kaur widow Angraj Singh son Harnam Singh 157/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Angrej Singh son Harnam Singh 197/5048 Hisa, Angraj Singh son Sinder Singh Putra Fakir Singh 632/1/3/5048 Hisa, Rajveer Singh son Malak Singh son Fakir Singh 115/1/3

					/5048Hisa, Raj kaur widow va kewaljeet kaur -Sarbjit kaur -Amandeep kaur do Mohar singh so Harnam singh b;b: 394/1/3/5048
717	234//1	Private	Irrigated (chahi)	0.3237	Jangir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 230/5048 Hisa, Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 1244/5048 Hisa, Sinder Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 150/5048 Hisa, Malak Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 381/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh 461/1/3/5048 Hisa, Sahib Putra Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Karnail Singh son Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Amar Kaur widow Harnam 117/5048 Hisa, navdeep Singh son Amar Singh son Karma Singh 140/5048 Hisa,manjit kaur wo Ranjit singh so Gurnam singh 40/5048 hissa Savarnjit Kaur widow Angraj Singh son Harnam Singh 157/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Angrej Singh son Harnam Singh 197/5048 Hisa, Angraj Singh son Sinder Singh Putra Fakir Singh 632/1/3/5048 Hisa, Rajveer Singh son Malak Singh son Fakir Singh 115/1/3
					/5048Hisa, Raj kaur widow va kewaljeet kaur -Sarbjit kaur -Amandeep kaur do Mohar singh so Harnam singh b;b: 394/1/3/5048
718	234//10/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1492	Jangir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 230/5048 Hisa, Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 1244/5048 Hisa, Sinder Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 150/5048 Hisa, Malak Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 381/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh

					461/1/3/5048 Hisa, Sahib Putra Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Karnail Singh son Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Amar Kaur widow Harnam 117/5048 Hisa, navdeep Singh son Amar Singh son Karma Singh 140/5048 Hisa, manjit kaur wo Ranjit singh so Gurnam singh 40/5048 hissa Savarnjit Kaur widow Angraj Singh son Harnam Singh 157/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Angrej Singh son Harnam Singh 197/5048 Hisa, Angraj Singh son Sinder Singh Putra Fakir Singh 632/1/3/5048 Hisa, Rajveer Singh son Malak Singh son Fakir Singh 115/1/3/5048 Hisa, Raj kaur widow va kewaljeet kaur -Sarbjit kaur -Amandeep kaur do Mohar singh so Harnam singh b;b: 394/1/3/5048
719	234//10/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2301	Gyan Chand son Ram Chand 47/93 hissa harbans laal so raam chand 46/93 hissa
720	234//11	Private	Irrigated (chahi)	0.2074	Gyan Chand son Ram Chand
721	234//12/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1897	Gyan Chand son Ram Chand
722	234//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	Jaspal Singh son Lal Chand son Kalu Ram
723	234//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	harbans Lal son Ram Chand son Kala Ram
724	234//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	harbans Lal son Ram Chand son Kala Ram
725	234//17/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh
726	234//18	Private	Irrigated (chahi)	0.2959	Jaspal Singh son Lal Chand son Kalu Ram
727	234//19	Private	Irrigated (chahi)	0.3515	Gyan Chand son Ram Chand
728	234//2	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Jangir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 230/5048 Hisa, Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 1244/5048

					Hisa, Sinder Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 150/5048 Hisa, Malak Singh Putra Fakir Chand Putra Karma Chand 381/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh 461/1/3/5048 Hisa, Sahib Putra Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Karnail Singh son Harnam Singh son Diwan Singh 394/1/3/5048 Hisa, Amar Kaur widow Harnam 117/5048 Hisa, navdeep Singh son Amar Singh son Karma Singh 140/5048 Hisa,manjit kaur wo Ranjit singh so Gurnam singh 40/5048 hissa Savarnjit Kaur widow Angraj Singh son Harnam Singh 157/5048 Hisa, Gagandeep Singh son Angrej Singh son Harnam Singh 197/5048 Hisa, Angraj Singh son Sinder Singh Putra Fakir Singh 632/1/3/5048 Hisa, Rajveer Singh son Malak Singh son Fakir Singh 115/1/3 /5048Hisa, Raj kaur widow va kewaljeet kaur -Sarbjit kaur -Amandeep kaur do Mohar singh so Harnam singh b.b. 394/1/3/5048 Dar 1/1/4/5 hissa Amir Singh Putra Karma Chand Putra Buta Singh 3/3/4/5 Hisa,
729	234//20	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Gyan Chand son Ram Chand 17/30 ,Diwan chand so raam chand 13/30 hissa
730	234//22	Private	Irrigated (chahi)	0.1189	Divan Chand son Ram Chand son Kala Ram
731	234//23/1/1	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.0303	Gyan Chand son Ram Chand 20/540 Hisa, Divan Chand son Ram Chand 20/540 Hisa, Harbans Lal son Ram Chand 20/540 Hisa, Jaspal Singh son Lal Chand son Kala Ram 8/9 Hisa
732	234//23/1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Gyan Chand son Ram Chand 20/540 Hisa, Divan Chand son Ram Chand 20/540 Hisa, Harbans Lal son Ram Chand 20/540

					Hisa, Jaspal Singh son Lal Chand son Kala Ram 8/9 Hisa
733	234//23/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2529	Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh
734	234//24	Private	Irrigated (chahi)	0.1366	Gagandeep Singh son Gurmukh Singh son Fakir Singh
735	234//9	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	Harbans Lal son Ram Chand son Kala Ram
736	235//4	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Gurjit Singh son Didar Singh son Gopal Singh 179/1/4/877 Hisa, Anup Singh son Didar Singh son Gopal Singh 179/1/4/877 Hisa, , Lakhwinder Singh son Nirmol Singh son Tara Singh 80/877 Hisa, Sukhwinder Singh son Nirmol Singh son Tara Singh 80/877 Hisa darsan singh son kesar singh 358/1/2/877 hissa
737	235//5	Private	Irrigated (chahi)	0.2655	Narinder Kaur wife sukhwinder Singh son Nirmal Singh 1/2 HIS, Narinder Kaur wife Lakhivinder Singh son Nirmal Singh 1/2 HIS
738	235//6/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Narinder Kaur wife sukhwinder Singh son Nirmal Singh 1/2 HIS, Narinder Kaur wife Lakhivinder Singh son Nirmal Singh 1/2 HIS
739	257//14	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	amaritpal singh son Gurbachan Singh 254/3/4/1755 Hisa, Shravan Singh son Sardara Singh 438/3/4/1755 Hisa, Sukhwinder Singh son Sardara Singh 18/3/4/1755 Hisa, Apar Singh son Gurcharan Singh son Sardara Singh 292/1/2/1755 Hisa, Surjit Kaur widow Gurcharan Singh son Sardara 146/1/4/1755 His, bagga singh son ajit singh 110/1755 hissa harjinder kaur wife bagga singh son ajit singh 74/1755 hissa bhupinder singh son sukhwinder singh son sardara singh 320/1755

740	257//15/1	Private	Gair Mumkin	0.3768	bagga singh son ajit singh 76/3/4/151 hissa harjeet kaur wife labh singh son mukhteyar singh singh49/3/4/151 hissa dilwinder kaur sif kasmir singh son bhagwan singh 18/151 atar bai widow lehna ram va; pathani bai kashmiro bai dalviro bai d/o va balveer chand kashmir chand parkash chand son tota ram 6/1/2/151 hissa
741	257//15/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	amaritpal singh son Gurbachan Singh 254/3/4/1755 Hisa, Shravan Singh son Sardara Singh 438/3/4/1755 Hisa, Sukhwinder Singh son Sardara Singh18/3/4/1755 Hisa, Apar Singh son Gurcharan Singh son Sardara Singh 292/1/2/1755 Hisa, Surjit Kaur widow Gurcharan Singh son Sardara 146/1/4/1755 His, bagga singh son ajit singh 110/1755 hissa harjinder kaur wife bagga singh son ajit singh 74/1755 hissa bhupinder singh son sukhwinder singh son asarda singh 320/1755
742	257//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2377	amaritpal singh son Gurbachan Singh 254/3/4/1755 Hisa, Shravan Singh son Sardara Singh 438/3/4/1755 Hisa, Sukhwinder Singh son Sardara Singh18/3/4/1755 Hisa, Apar Singh son Gurcharan Singh son Sardara Singh 292/1/2/1755 Hisa, Surjit Kaur widow Gurcharan Singh son Sardara 146/1/4/1755 His, bagga singh son ajit singh 110/1755 hissa harjinder kaur wife bagga singh son ajit singh 74/1755 hissa bhupinder singh son sukhwinder singh son asarda singh 320/1755
743	257//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0936	Shravan Singh son Sardara Singh son Chanda Singh 1/2 son sukhwinder Singh son Sardara Singh son

					Chanda Singh 1/2
744	257//17/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	amritpal singh son suba singh son pala singh
745	257//25/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Shravan Singh son Sardara Singh son Chanda Singh 1/2 son sukhwinder Singh son Sardara Singh son Chanda Singh 1/2
746	257//25/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0329	Shravan Singh son Sardara Singh son Chanda Singh 1/2 son sukhwinder Singh son Sardara Singh son Chanda Singh 1/2
747	257//25/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	Thakar Das son Naib Raj son Ram Chand 176/870 Hisa, Banarsi Lal son Naib Raj son Ram Chand 176/870 Hisa, , Ram Kumar son Lachman Das 80/870 Hisa, Anok Singh Putra Kartar Singh Putra Bud Singh145/870Hisa, Sundara Bai daughter Naib Raj 21/870 Hisa, Sukhwinder Singh Putra Sardara Singh Putra Chanda Singh15/1/2/870 His, Shravan SinghUtr Sardara Singh, son of Chanda Singh 15/1/2/870 hissa Gurnam kaur wo Swarn singh so sardara singh 58/870 hissa
748	257//3	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	Ram Sarup Putra Ram Chand Putra Budh Ram 1/5 Hisa, Omprakash Putra Ram Chand Putra Budha Ram 1/5 Hisa, balu Ram Putra Ram Chand Putra Budha Ram 1/5 Hisa, , Rajwinder Kaur wife Gagandeep Singh son Gurmukh Singh 2/5
749	257//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3237	Harbhagwan son Karma Chand son budh Ram 1/5 Hisa, Pradeep Kumar son Sundar Das 2/5 Hisa, Bhimsain son Karma Chand son budh Ram 1/5 His, Bharat Lal Putt Shri Karma Chand son budh Ram 1/5 his,
750	257//5	Private	Gair Mumkin	0.0202	Arjun das so atama ram so mewa ram 244591/1541736 hissa Randhir kaur wo Jaspal singh so Darshan singh

					107/1323 hissa Surinder kaur wo Sukhamritpal singh so Darshan singh 107/1323 hissa Surjit kaur wo paramjit singh so darshan singh 107/1323 hissa harjinder kaur wo bagga singh so ajit singh 80/874 hissa harjit kaur wo labh singh so Mukhtiar singh 89/2646 hissa Dalwinder kaur wo kashmeer singh so Narian singh 151/2646 hissa rajvir singh so Malik nsingh so faker singh 829/3528 hissa
751	257//6	Private	Irrigated (chahi)	0.2276	Arjun das so atama ram so mewa ram 244591/1541736 hissa Randhir kaur wo Jaspal singh so Darshan singh 107/1323 hissa Surinder kaur wo Sukhamritpal singh so Darshan singh 107/1323 hissa Surjit kaur wo paramjit singh so darshan singh 107/1323 hissa harjinder kaur wo bagga singh so ajit singh 80/874 hissa harjit kaur wo labh singh so Mukhtiar singh 89/2646 hissa Dalwinder kaur wo kashmeer singh so Narian singh 151/2646 hissa rajvir singh so Malik nsingh so faker singh 829/3528 hissa
752	257//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	amaritpal singh son Gurbachan Singh 254/3/4/1755 Hisa, Shraavan Singh son Sardara Singh 438/3/4/1755 Hisa, Sukhwinder Singh son Sardara Singh 18/3/4/1755 Hisa, Apar Singh son Gurcharan Singh son Sardara Singh 292/1/2/1755 Hisa, Surjit Kaur widow Gurcharan Singh son Sardara 146/1/4/1755 His, bagga singh son ajit singh 110/1755 hissa harjinder kaur wife bagga singh son ajit singh 74/1755 hissa bhupinder singh son sukhwinder singh son asarda singh 320/1755
753	257//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	amaritpal singh son Gurbachan Singh

					254/3/4/1755 Hisa, Shravan Singh son Sardara Singh 438/3/4/1755 Hisa, Sukhwinder Singh son Sardara Singh 18/3/4/1755 Hisa, Apar Singh son Gurcharan Singh son Sardara Singh 292/1/2/1755 Hisa, Surjit Kaur widow Gurcharan Singh son Sardara 146/1/4/1755 His, bagga singh son ajit singh 110/1755 hissa harjinder kaur wife bagga singh son ajit singh 74/1755 hissa bhupinder singh son sukhwinder singh son asarda singh 320/1755
754	258//11/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	harjeet kaur wife labh singh son mukhteyar singh
755	258//11/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	bagga singh son ajit singh 46/189 hissa harjeet kaur wife labh singh son mukhtiar singh 65/2/3/252 hissa Dalwinder kaur wo kashmir singh so Narain singh 57/252 Kaila wo Nafe singh so Ram sharan 17/189 hissa razad wo mahinder singh so ram sharan 17/189 hissa Kamala wo sattyavan so ram sharan 17/189 hissa
756	258//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kaila wo Nafe singh so Ram sharan 1/3 hissa razad wo mahinder singh so ram sharan 1/3 hissa Kamala wo sattyavan so ram sharan 1/3 hissa
757	258//20	Private	Irrigated (chahi)	0.2858	Kaila wo Nafe singh so Ram sharan 1/3 hissa razad wo mahinder singh so ram sharan 1/3 hissa Kamala wo sattyavan so ram sharan 1/3 hissa
758	258//21	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:
759	258//22/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1391	Kaila wo Nafe singh so Ram sharan 264/1650 hissa razad wo mahinder singh so ram sharan 264/1650hissa Kamala wo sattyavan so ram sharan 264/1650 hissa Ramesh Kumar -, Deep chand -

					Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:286/550 hissa
760	265//1	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh so daya singh b: b: hissa
761	265//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:
762	265//12/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:
763	265//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Surjit kumar so Parlad ram so Fateh chand 9/298 hissa kulwant kaur widow ram lal so fateh chand 9/298 hissa Bhim sain so fateh chand 9/298 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 84/1/4/596 va neej rehan Jasveer singh so piyara singh so ishar singh 84/596 hissa .Sham laal so fateh chand so lala ram 102/596 hissa chaudhri ram so fateh chand so lala ram 18/596 hissa shamo bai do fateh chand so lala ram 1/596 hissa Kashtmeer singh -balvir singh amrik singh so shingara singh b: b: 1011/2384 hissa
764	265//13	Private	Irrigated (chahi)	0.4021	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:
765	265//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	Surjit kumar so Parlad ram so Fateh chand 9/298 hissa kulwant kaur widow ram lal so fateh chand 9/298 hissa Bhim sain so fateh chand 9/298 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 84/1/4/596 va neej rehan Jasveer singh so piyara singh so ishar singh 84/596 hissa .Sham laal so fateh chand so lala ram 102/596 hissa chaudhri ram so fateh chand so lala ram 18/596 hissa shamo bai

					do fateh chand so lala ram 1/596 hissa Kashmeer singh -balvir singh amrik singh so shingara singh b: b: 1011/2384 hissa
766	265//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Surjit kumar so Parlad ram so Fateh chand 9/298 hissa kulwant kaur widow ram lal so fateh chand 9/298 hissa Bhim sain so fateh chand 9/298 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 84/1/4/596 va neej rehan Jasveer singh so piyara singh so ishar singh 84/596 hissa .Sham laal so fateh chand so lala ram 102/596 hissa chaudhri ram so fateh chand so lala ram 18/596 hissa shamo bai do fateh chand so lala ram 1/596 hissa Kashmeer singh -balvir singh amrik singh so shingara singh b: b: 1011/2384 hissa
767	265//17	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	Surjit kumar so Parlad ram so Fateh chand 9/298 hissa kulwant kaur widow ram lal so fateh chand 9/298 hissa Bhim sain so fateh chand 9/298 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 84/1/4/596 va neej rehan Jasveer singh so piyara singh so ishar singh 84/596 hissa .Sham laal so fateh chand so lala ram 102/596 hissa chaudhri ram so fateh chand so lala ram 18/596 hissa shamo bai do fateh chand so lala ram 1/596 hissa Kashmeer singh -balvir singh amrik singh so shingara singh b: b: 1011/2384 hissa
768	265//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3111	Surjit kumar so Parlad ram so Fateh chand 9/298 hissa kulwant kaur widow ram lal so fateh chand 9/298 hissa Bhim sain so fateh chand 9/298 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 84/1/4/596 va neej rehan Jasveer singh

					so piyara singh so ishar singh 84/596 hissa .Sham laal so fateh chand so lala ram 102/596 hissa chaudhri ram so fateh chand so lala ram 18/596 hissa shamo bai
					do fateh chand so lala ram 1/596 hissa Kashmeer singh -balvir singh amrik singh so shingara singh b: b: 1011/2384 hissa
769	265//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kashmeer singh Amrik singh -Balbir singh so Shingara singh so Labh singh 21/30hissa Charanjit lkaur vidva va Rupinder singh -karamjit singh -mangal singh so Fakir singh so shingara singh 7/30 Pritam kaur -Charanjit kaur do Shingara singh so labh singh b;b: 2/30hissa
770	265//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3768	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:
771	265//23/1	Private	Gair Mumkin	0.0101	Jagseer Singh son Samprun Singh son Iqbal Singh 1/4 Hissa, Avtar Kaur daughter Bakhsh Singh 1/8 Hissa, Kuljit Kaur daughter Bakhsh Singh 1/8 Hissa, Sucha Singh son Barkat Singh 1/8 Hissa, Gurnam Singh son Gyan Singh 3 / 40 HISA, Ramesh Kaur widow Gyan Singh 1/80 HISA, Jaswinder Kaur daughter Gyan Singh 1/80 HISA, Beant Kaur son Gyan Singh 1/80 HISA, Narinder Kaur daughter Gyan Singh 1/80 HISA, Balkar Singh son Amar Singh 1/ 4 part
772	265//23/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	Kashmeer singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa balvir singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa amrik singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 7/30 HISSA . PRITAM kaur , charanjit kaur do shingara singh so labh singh b:b:

					2/30 hissa
773	265//24/1	Private	Gair Mumkin	0.0152	Jagseer Singh son Samprun Singh son Iqbal Singh 1/4 Hissa, Avtar Kaur daughter Bakhsh Singh 1/8 Hissa, Kuljit Kaur daughter Bakhsh Singh 1/8 Hissa, Sucha Singh son Barkat Singh 1/8 Hissa, Gurnam Singh son Gyan Singh 3 / 40 HISA, Ramesh Kaur widow Gyan Singh 1/80 HISA, Jaswinder Kaur daughter Gyan Singh 1/80 HISA, Beant Kaur son Gyan Singh 1/80 HISA, Narinder Kaur daughter Gyan Singh 1/80 HISA, Balkar Singh son Amar Singh 1/ 4 part
774	265//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.3819	Kashmeer singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa balvir singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa amrik singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 7/30 HISSA . PRITAM kaur , charanjit kaur do shingara singh so labh singh b:b: 2/30 hissa
775	265//25/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Kashmeer singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa balvir singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa amrik singh so shingara singh so laBH SINGH 7/30 hissa charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh 7/30 HISSA . PRITAM kaur , charanjit kaur do shingara singh so labh singh b:b 2/30 hissa
776	265//25/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Karanpreet singh - Sharanpreet singh s0 Amrik singh so ishar singh 28/108 hissa Sutjit singh so piyara singh so ishar singh 8/108 hissa Kuldip kaur vidva va khushpreet singh so jaswinder singh so piyara singh 72/108 hissa

777	265//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Kaila wo Nafe singh so Ram sharan va razad wo mahinder singh so ram sharan va Kamala wo sattyavan so ram sharan 74/160 b:b: hissa Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya Ram b:b:86/160 hissa
778	265//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya singh b:b:
779	265//8/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya singh b:b:
780	265//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3566	Ramesh Kumar -, Deep chand - Varinder kumar son Nachhattar Singh son Diya singh b:b:
781	287//15	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Jagseer Singh son Samparun Singh son Iqbal singh
782	287//16	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Jagseer Singh son Samparun Singh son Iqbal singh
783	287//4/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh s/o labh singh 94/5/6/748 hissa Kashmeer singh -balvir singh- amrik singh so shingara singh b: b: 523/1/2/748 hissa ,charanjit kaur pritam kaur do Fakir singh so shingara singhb:b 49/2/3/748 : hissa Bhupinder singh so bakhsis singh so Iqbal singh 80/748 hissa
784	287//4/3	Private	Irrigated (chahi)	0.22	charanjit kaur widow va Rupinder singh ,karamjit singh mangal singh so fakir singh so shingar singh s/o labh singh 94/5/6/748 hissa Kashmeer singh -balvir singh- amrik singh so shingara singh b: b: 523/1/2/748 hissa ,charanjit kaur pritam kaur do Fakir singh so shingara singhb:b 49/2/3/748 : hissa Bhupinder singh so bakhsis singh so Iqbal singh 80/748

					hissa
785	287//5	Private	Irrigated (chahi)	0.3895	Sawarn kaur vidva va Maninder singh ,Sukhwinder singh putran va Sarabjit kaur do Sucha singh so Barkat singh b:b: 4/5 hissa Harpreet kaur vidva va Harman singh so Jaswinder singh so suchha singh b:b: 1/5 hissa.
786	287//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3591	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
787	287//7/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
788	288//1	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
789	288//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2782	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
790	288//11	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
791	288//12	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
792	288//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Bikramjit Singh son Kabal Singh son Dalip Singh
793	288//19	Private	Irrigated (chahi)	0.3566	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
794	288//20	Private	Irrigated (chahi)	0.2858	bhupinder singh so bakhsis

					singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
795	288//21	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
796	288//22/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2377	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
797	288//22/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	bhupinder singh so bakhsis singh so Ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar Kaur widow bakhsis singh so Ikbal singh 1200/3646 hissa
798	288//23	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	Sukhdip kaur patni vikkaramjit singh so kabal singh
799	292//20	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	davinder Singhs son Samprun Singh 2/160hissa Harjit singh so Tajinder singh so sampooran singh 40/1/2/160 hissa Kuldip singh so Sampooran singh 117/1/2/160 hissa
800	292//21	Private	Irrigated (chahi)	0.129	Kuldeep Singhs son Sampoorn Singh
801	293//13	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	Karanpreet singh - Sharanpreet singh so Amrik singh so ishar singh 20/160hissa Surjit singh so piyara singh so ishar singh 140/160 hissa
802	293//14	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Baljit kaur vidva va Jatinder singh so surjit singhso bakhsis singh b. b. hissa
803	293//15	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	Baljit kaur vidva va Jatinder singh so surjit singhso bakhsis singh b. b. hissa
804	293//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1669	Baljit kaur vidva va Jatinder singh so surjit singhso bakhsis singh b. b. hissa
805	293//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	Davinder Singhs son

					Samprun Singh
806	293//17/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1619	Baljit kaur vidva va Jatinder singh so surjit singhso bakhshis singh b. b. hissa
807	293//17/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	Davinder Singhs son Samprun Singh
808	293//2	Private	Irrigated (chahi)	0.1973	jasvir singh so Pyara Singh son Isar Singh 126/632 hissa Surjeet singh so piyara singh so ishar singh 94/632 Amrik singh singh so piyara singh so ishar singh 126/632 hissa kuldip kaur vidva Jaswinder singh so piyara singh 127/632 jissa Navjeet kaur ,tiraptjeet kaur ,ranjeet kaur puttrian Balbir singh so piyara singh 159/632
809	293//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Davinder Singhs son Samprun Singh
810	293//25	Private	Irrigated(chahi)	0.3237	Davinder Singhs son Samprun Singh 132/138hissa Kuldip singh so Sampooran singh6/138 hissa
811	293//3	Private	Irrigated(chahi)	0.3945	jasvir singh so Pyara Singh son Isar Singh 126/632 hissa Surjeet singh so piyara singh so ishar singh 94/632 Amrik singh singh so piyara singh so ishar singh 126/632 hissa kuldip kaur vidva Jaswinder singh so piyara singh 127/632 jissa Navjeet kaur ,tiraptjeet kaur ,ranjeet kaur puttrian Balbir singh so piyara singh 159/632
812	293//4	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Sukhwinder kaur vidva Bhagwant Singh1/3 hissa Pargat singh surinder singh so bhagwant singh so ishar singh b:b: 2/3 hissa
813	293//6	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Sukhwinder kaur vidva Bhagwant Singh1/3 hissa Pargat singh surinder singh so bhagwant singh so ishar singh b:b: 2/3 hissa
814	293//7	Private	Irrigated (chahi)	0.306	Baljit kaur vidva va Jatinder singh so surjit singhso bakhshis singh ब:ब: हिस्स
815	293//8	Private	Irrigated (chahi)	0.3414	Amrik singh so piyara

					singh so ishar singh
816	293//9	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Bhupinder singh son Bakhsis singh son ikbal singh 2446/3646 hissa Avtar kaur vidva Bakhsis singh so ikkbal singh 1200/3646
817	346	Government(Punjab Government)	Gair Mumkin	0.1846	punjab govt.makbooja dep. Canal forest dep.
818	36//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	Gulzar Singh son Jeet Singh va Tehal Singh - Didar singh -Mukhtiar singh so jeet sinhgh b:b:1093/1193 Hissa,mejor singh so Gulzar Singh son Jeet Singh 25/1103 hissa Kawalpreet kaur wo didar singh 25/1103 hissa Sarbjit kaur wo Mukhtiar singh 25/1193 hissa Balwant singh so Tehal singh 25/1193 hissa
819	36//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	Gurbhej singh -Harbhej singh so manjit singh so kartar singh 1/3 hissa manider singh so Darshan singh so Kartar singh 1/3 hissa bachan singh so Kartar singh 1/3 hissa
820	36//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Gurdip singh -Rahul kumar so ishvar singh so rabbi ram b: b: 1/3 hissa hardeep singh -Minish kumar so bhim singh so rabbi ram 1/3 hissa neelam rani vidva baneet chohan so va anjali do darshan singh so rabbi ram 1/3 hissa
821	36//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	Balkar Singh -Samasher Singh son Mansa Singh son Mohar Singh
822	36//21	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Balkar Singh -Samasher Singh son Mansa Singh son Mohar Singh
823	36//22	Private	Irrigated (chahi)	0.2327	Gurdip singh -Rahul kumar so ishvar singh so rabbi ram b: b: 1/3 hissa hardeep singh -Minish kumar so bhim singh so rabbi ram 1/3 hissa neelam rani vidva va baneet chohan so va anjali do darshan singh so rabbi ram 1/3 hissa
824	37//14	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	Sukha Singh ,- Sukhwinder Singh - Nishan Singh son Mahinder Singh son Dhara

					Singh
825	37//15	Private	Irrigated (chahi)	0.263	Gulzar Singh son Jeet Singh va Tehal Singh - Didar singh -Mukhtiar singh so jeet singh b:b:1093/1193 Hisa,mejor singh so Gulzar Singh son Jeet Singh 25/1103 hissa Kawalpreet kaur wo didar singh 25/1103 hissa Sarbjit kaur wo Mukhtiar singh 25/1193 hissa Balwant singh so Tehal singh 25/1193 hissa
826	37//16	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	simarjeet kaur wo manga singh so milkha singh 101/608 Avtar singh so mansa singh 389/6004 hissa Balkar Singh son Mansa Singh 161/1501 HISA,surinder singh-joginder singh so Manga Singh son Milkha Singh 61/1216 HISA, Shamsher Singh son Mansa Singh son Mohar Singh 13485/24016 HISA,
827	37//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	simarjeet kaur wo manga singh so milkha singh 101/608 Avtar singh so mansa singh 389/6004 hissa Balkar Singh son Mansa Singh 161/1501 HISA,surinder singh-joginder singh so Manga Singh son Milkha Singh 61/1216 HISA, Shamsher Singh son Mansa Singh son Mohar Singh 13485/24016 HISA,
828	37//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1947	Palmavneet Singh son Kirpal Singh son Dhara Singh 1/2 HISA, Amanpunit Singh son Kirpal Singh son Dhara Singh 1/2 HISA
829	37//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3945	Palmavneet Singh son Kirpal Singh son Dhara Singh 1/2 HISA, Amanpunit Singh son Kirpal Singh son Dhara Singh 1/2 HISA
830	37//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	Gulzar Singh son Jeet Singh va Tehal Singh - Didar singh -Mukhtiar singh so jeet singh b:b:1093/1193 Hisa,mejor singh so Gulzar Singh son

					Jeet Singh 25/1103 hissa Kawalpreet kaur wo didar singh 25/1103 hissa Sarbjit kaur wo Mukhtiar singh 25/1193 hissa Balwant singh so Tehal singh 25/1193 hissa
831	37//6	Private	Irrigated (chahi)	0.2959	Gulzar Singh son Jeet Singh va Tehal Singh - Didar singh -Mukhtiar singh so jeet sinhgh b:b:1093/1193 Hisa,mejor singh so Gulzar Singh son Jeet Singh 25/1103 hissa Kawalpreet kaur wo didar singh 25/1103 hissa Sarbjit kaur wo Mukhtiar singh 25/1193 hissa Balwant singh so Tehal singh 25/1193 hissa
832	37//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Sukha Singh ,- Sukhwinder Singh - Nishan Singh son Mahinder Singh son Dhara Singh
833	37//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	Palmavneet Singh son Kirpal Singh son Dhara Singh 1/2 HISA, Amanpunit Singh son Kirpal Singh son Dhara Singh 1/2 HISA
834	417	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0936	gram panchayaat deh shareaam
835	42//1	Private	Irrigated (chahi)	0.177	Balkar Singh -Samasher Singh son Mansa Singh son Mohar Singh
836	42//10/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	sahib singh -Gulab singh - gurtej singh so gehal singh so Milkha singh 1/2 hissa - manga singh so milkha singh so hira singh 1/2hissa
837	42//12	Private	Irrigated (chahi)	0.0885	surjit singh so diwan singh so khushal singh 1/2 hissa Sukhchain singh so jangir singh so santA SINGH 1/2 hissa
838	42//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1998	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 1/3 hissa shamsher singh - Avtar singh so mansa singh so mehar singh 2/3 hissa
839	42//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	sahib singh -Gulab singh - gurtej singh so gehal singh so Milkha singh 1/2 hissa manga singh so milkha singh 1/2 hissa

840	42//14	Private	Irrigated (chahi)	0.1669	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 1/3 hissa shamsher singh - Avtar singh so mansa singh so mehar singh 2/3 hissa
841	42//16	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Amarjit Kaur wife Samasher Singh son Mansa Singh 1/2 hissa , Hardeep Kaur wife Avtar Singh son Mansa Singh 1/2 hissa
842	42//17	Private	Irrigated (chahi)	0.3794	Amarjit Kaur wife Samasher Singh son Mansa Singh 10/160 hissa , Hardeep Kaur wife Avtar Singh son Mansa Singh 10/160 hissa Balkar singh so mansa singh so mehar singh 45080/113760 hissa shamsher singh so mansa singh so mehar singh 54460/227520 hissa Avtar singh so mansa singh so mehar singh 1321180/16608960 hissa Gurwinder singh so Avtar singh 5600/34880 hissa
843	42//18	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	Gurbhej singh -Gulab singh -sahib singh so gehal singh so milkha singh 1/3 hissa manga singh -balla singh so milkha singh 2/3 b:b: hissa
844	42//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3996	Balkar Singh -Samasher Singh son Mansa Singh son Mohar Singh
845	42//23	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	Gurnam singh so jangir singh so Lakha singh 1/6 hissa Gurmeet singh so jangir singh so Lakha singh 1/6 hissa boota singh so jangir singh so Lakha singh 1/6 hissa Avtar singh so Lakha singh 66/1/2/773 hissa davinder singh so Avtarsingh so Lakha singh 320/773 hissa
846	42//24	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	Amarjit Kaur wife Samasher Singh son Mansa Singh 1/2 hissa , Hardeep Kaur wife Avtar Singh son Mansa Singh 1/2 hissa
847	42//25	Private	Irrigated (chahi)	0.258	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 322/711 hissa shamsher singh so mansa singh so piyara singh 389/1422 hissa Avtar singh so mansa singh so mehar singh

					9437/103806 hissa Gurwinder singh so Avtar singh somansa singh 40219 hissa
848	42//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Bhajan ram -sukhdev ram so Bant Ram Putra Ramjilal 1/4 Hisa, Sant Ram -bedi ram Putra Ramjilal Putra Faman Ram 1/2Hisa, Bhagwani devi woJagat Ram Putra Ramjilal 1/12 Hisa, lakhwinder singh- raj kumar so jagat singh so ram ji lal 2/12hissa
849	42//7	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Bhajan ram -sukhdev ram so Bant Ram Putra Ramjilal 1/4 Hisa, Sant Ram -bedi ram Putra Ramjilal Putra Faman Ram 1/2Hisa, Bhagwani devi woJagat Ram Putra Ramjilal 1/12 Hisa, lakhwinder singh- raj kumar so jagat singh so ram ji lal 2/12hissa
850	42//8	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 322/711 hissa shamsher singh so mansa singh so piyara singh 389/1422 hissa Avtar singh so mansa singh so mehar singh 9437/103806 hissa Gurwinder singh so Avtar singh somansa singh 40219 hissa dar 34/142 Bhajan ram -sukhdev ram so Bant Ram Putra Ramjilal 1/4 Hisa, Sant Ram -bedi ram Putra Ramjilal Putra Faman Ram 1/2Hisa, Bhagwani devi woJagat Ram Putra Ramjilal 1/12 Hisa, lakhwinder singh- raj kumar so jagat singh so ram ji lal 2/12hissa dar 73/142 hissa Balkar singh so mansa singh so mehar singh 1/3 hissa shamsher singh -Avtar singh so mansa singh so mehar singh 2/3 hissa dar40/142
851	42//9	Private	Irrigated (chahi)	0.2959	surjit singh so diwan singh so diwan singh so khushal singh 1/2 hissa Sukhchain singh so jangir singh so santA SINGH 1/2 hissa

852	61/10	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Surjit kaur vidva va daljit kaur -Rupinder kaur do Kapoor singh so diwan singh b; b: 23/4/10/899 hissa Gurjinder singh so Kapoor singh so diwan singh 164/8/10/899 Darshan soingh so diwan singh so Chanda singh 178/2/10/899 hissa Jarnail singh so diwan singh so Chanda singh 178/2/10/899 Gurbans singh sodiwan singh so Chanda singh 188/2/10/899 hissa Kulwant kaur vidva Makhan singh so diwan singh 27/899 hissa Sukhchan singh so makhan singh so diwan singh 42/6/10/899 hissa Kanwalnarain singh somakhan singh so diwan singh 42/6/10/899 hissa Palwinder kaur domakhan singh so diwan singh 27/899 hissa Sarbjit kaur domakhan singh so diwan singh 27/899 hissa
853	61/11	Private	Irrigated (chahi)	0.3768	darshan singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa baaj singh so fakir singh so sajjan singh 59/328 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa dar36/156 hissa Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa dar120/156
854	61/12	Private	Irrigated (chahi)	0.1922	darshan singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa baaj singh so fakir singh so sajjan singh 59/328 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh

					269/1312 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 269/1312 hissa dar 24/160 hissa Surjit kaur vidva va daljit kaur -Rupinder kaur do Kapoor singh so diwan singh b; b: 23/4/10/899 hissa Gurjinder singh so Kapoor singh so diwan singh 164/8/10/899 Darshan soingh so diwan singh so Chanda singh 178/2/10/899 hissa Jarnail singh so diwan singh so Chanda singh 178/2/10/899 Gurbans singh sodiwan singh so Chanda singh 188/2/10/899 hissa Kulwant kaur vidva Makhan singh so diwan singh 27/899 hissa Sukhchan singh so makhan singh so diwan singh 42/6/10/899 hissa Kanwalnarain singh somakhan singh so diwan singh 42/6/10/899 hissa Palwinder kaur domakhan singh so diwan singh 27/899 hissa Sarbjit kaur domakhan singh so diwan singh 27/899 hissa dar 136/160
855	61/18	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	sinder kaur wo Satnam singh 60/242 hissa Narinder singh -Kuldip singh -Gurcharan singh -malook singh -Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh b;b; 1/3 hissa Jaswant singh -Nidhan singh so surjit singh so sajjan singh b;b; 20/2/3/242 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 269/3936 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 59984 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 269/3936 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh b:b: 269/3936 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 269/3936 hissa
856	61/19/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1846	sinder kaur wo Satnam

					singh 60/242 hissa Narinder singh -Kuldip singh -Gurcharan singh - malook singh -Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh b;b; 1/3 hissa Jaswant singh -Nidhan singh so surjit singh so sajjan singh b;b; 20/2/3/242 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 269/3936 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 59984 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 269/3936 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh b.b. 269/3936 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 269/3936 hissa
857	61//19/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
858	61//20/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
859	61//20/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
860	61//21	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947

					hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
861	61/22	Private	Irrigated (chahi)	0.3085	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
862	61/23	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
863	61/9	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Surjit kaur vidva va daljit kaur -Rupinder kaur do Kapoor singh so diwan singh b; b: 23/4/10/899 hissa Gurjinder singh so Kapoor singh so diwan singh 164/8/10/899 Darshan soingh so diwan singh so Chanda singh 178/2/10/899 hissa Jarnail singh so diwan singh so Chanda singh 178/2/10/899 Gurbans singh sodiwan singh so Chanda singh 188/2/10/899 hissa Kulwant kaur vidva Makhan singh so diwan singh 27/899 hissa Sukhchan singh so makhan singh so diwan singh 42/6/10/899 hissa Kanwalnarain singh somakhan singh so diwan singh 42/6/10/899 hissa Palwinder kaur domakhan singh so diwan singh 27/899 hissa Sarbjit kaur domakhan singh so diwan singh 27/899 hissa
864	62/4	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 322/711 hissa shamsher singh so mansa singh so piyara singh 389/1422 hissa Avtar singh so mansa singh so mehar singh

					9437/103806 hissa Gurwinder singh so Avtar singh somansa singh 40219 hissa
865	62//5	Private	Irrigated (chahi)	0.3085	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 322/711 hissa shamsher singh so mansa singh so piyara singh 389/1422 hissa Avtar singh so mansa singh so mehar singh 9437/103806 hissa Gurwinder singh so Avtar singh somansa singh 40219 hissa
866	62//7/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Balkar singh so mansa singh so mehar singh 322/711 hissa shamsher singh so mansa singh so piyara singh 389/1422 hissa Avtar singh so mansa singh so mehar singh 9437/103806 hissa Gurwinder singh so Avtar singh somansa singh 40219 hissa
867	73//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 1/2 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 1/2hissa dar 76/160 Bhupinder singh so nirvair singh so Pritam singh 84/160 hissa
868	73//14/1	Private	Irrigated(chahi)	0.0835	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa dar 19/40 Bhupinder singh so nirvair singh so Pritam singh 21/40 hissa
869	73//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2529	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh

					170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
870	73//15	Private	Irrigated (chahi)	0.2175	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
871	73//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336

					hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
872	73//17/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/103336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
873	73//17/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Bhupinder Singh son Niravir Singh son Pritam Singh
874	73//2	Private	Irrigated (chahi)	0.1265	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler

					singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
875	73/24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
876	73/25	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj

					singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
877	73/26	Private	Irrigated(chahi)	0.0809	kehar singh so Nihal singh
878	73/3/1	Private	Irrigated(chahi)	0.3035	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
879	73/3/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	gram panchayaat deh shareaam
880	73/7/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1922	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/103336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
881	73/7/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b;

					813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
882	73/8	Private	Irrigated (chahi)	0.2832	Jatinder kaur vidva va Arman singh so va Daler singh so gurnam singh so Shingara singh b;b; 813/1/2/1947 hissa Sinder kaur wo Satnam singh so shingara singh 480/1947 hissa Satnam singh so shingara singh so Bhadar singh 653/1/2/1947 hissa
883	74/20	Private	Irrigated (chahi)	0.0531	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan sinhg 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
884	74/21	Private	Irrigated (chahi)	0.2858	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib

					singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan sinhgh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
885	74/22/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Jaswant singh so malook singh so Kartar singh 1/3 hissa Davinder kaur malook singh so Kartar singh 1/3 hissa rajwant kaur do malook singh so Kartar singh 41/924 hissa Sukhwinder kaur wo Sher singh so Santa singh 89/308 hissa
886	92/1	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan sinhgh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
887	92/10	Private	Irrigated (chahi)	0.2453	sinder kaur wo Satnam

					<p>singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa</p>
888	92//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	<p>sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan singh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa</p>

889	92//12	Private	Irrigated (chahi)	0.3794	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/103336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan sinhgh 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa (number dobble) Jagjit Singh son Joginder Singh son Fakir Singh 146/711 Hisa, Amarjeet Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa, Manjit Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa Manjit singh so jagjit singh so joginder singh 565/1422 hissa
890	92//13	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	Jagjit Singh son Joginder Singh son Fakir Singh 146/711 Hisa, Amarjeet Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa, Manjit Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa Manjit singh so jagjit singh so joginder singh 565/1422 hissa
891	92//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Kashmir Singh son Balkar Singh son Amar Chand
892	92//18	Common(Asthan Bibdian Baitmam Najiro)	Irrigated(chahi)	0.392	Asathan Bibriya Baitamam Naziro Widow Roshan Kha. Putra Fazlu
893	92//19	Common(Asthan Bibdian	Irrigated(chahi)	0.1669	Asathan Bibriya Baitamam

		Baitmam Najiro)			Naziro Widow Roshan Kha. Putra Fazlu
894	92//2	Private	Irrigated (chahi)	0.1517	Jagjit Singh son Joginder Singh son Fakir Singh 146/711 Hisa, Amarjeet Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa, Manjit Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa
895	92//22	Common(Asthan Bibdian Baitmam Najiro)	Irrigated(chahi)	0.0025	Asathan Bibriya Baitmam Naziro Widow Roshan Kha. Putra Fazlu
896	92//23/1	Common(Asthan Bibdian Baitmam Najiro)	Irrigated(chahi)	0.1189	Asathan Bibriya Baitmam Naziro Widow Roshan Kha. Putra Fazlu
897	92//23/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1037	Jagseer Singh son Samparun Singh son Iqbal singh
898	92//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0379	Jagseer Singh son Samparun Singh son Iqbal singh
899	92//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2655	Kashmir Singh son Balkar Singh son Amar Chand
900	92//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Kashmir Singh son Balkar Singh son Amar Chand
901	92//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Jagjit Singh son Joginder Singh son Fakir Singh 146/711 Hisa, Amarjeet Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa, Manjit Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa Manjit singh so jagjit singh so joginder singh 565/1422 hissa
902	92//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	Jagjit Singh son Joginder Singh son Fakir Singh 146/711 Hisa, Amarjeet Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa, Manjit Singh son Jagjit Singh son Joginder Singh 565/1422 Hisa Manjit singh so jagjit singh so joginder singh 565/1422 hissa
903	93//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	sinder kaur wo Satnam singh 40/3336 hissa Narinder singh so Jangir singh so Sajjan singh 429/2/10/3336 hissa Kuldip singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336

					hissa Gurcharan singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Malook singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Sahib singh so Jangir singh so Sajjan singh 170/7/10/3336 hissa Jaswant singh -nidhan singh so surjit singhj so sajjan singh 112/3336 hissa Darshan singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/336 hissa Baaj singh so Fakir singh so sajjan singh 158/1/3336 hissa palwinder singh so fakir singh so sajjan singh 238/1/3/3336 hissa Nishan singh so fakir singh so sajjan sinhg 162/1/3/3336 hissa Karnail singh so fakir singh so sajjan singh 198/1/2/3336 hissa
904	942	Government(Govt. of India)	Gair Mumkin	0.0354	bharat sarkar Makbooja Aabpasi kunida gaan
905	964	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0303	gram panchayaatshareaam
906	994	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0177	gram panchayaatshareaam
907	995	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0556	gram panchayaat deh shareaam
Village: Tambuwala					
908	101	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Khal)	0.1366	Nagar Panchayat
909	102	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0481	Nagar Panchayat
910	109	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0303	Nagar Panchayat
911	11//14	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	Harbhajan singh-Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
912	11//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Harbhajan singh-Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
913	11//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Harbhajan singh-Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
914	11//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Harbhajan singh-Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
915	11//16/3	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	Hardeep Singh Mutbanna son Karnail Singh

916	11//16/4min	Private	Irrigated (chahi)	0.2074	Jasvir singh so Soorat singh
917	11//17/1	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.1189	Jasvir singh so Soorat singh
918	11//24	Private	Irrigated (chahi)	0.086	Amarjeet Singh - Joga Singh- Randhir Singh son Dara Singh b:b: hissa
919	11//25	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Amarjeet Singh - Joga Singh- Randhir Singh son Dara Singh b:b: hissa
920	11//4/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	sada singh son sohan singh
921	11//4/3	Private	Irrigated (chahi)	0.1846	harbhajan singh- Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: 57/73 hissa magee singh son baaru singh etc. 16/73 hissa khewat no. 231
922	11//4/4	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Hardeep Singh Mutbanna son Karnail Singh
923	11//5	Private	Irrigated (chahi)	0.2453	Harbhajan singh- Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
924	11//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Harbhajan singh- Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
925	11//7/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	Hardeep Singh Mutbanna son Karnail Singh
926	11//7/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1037	Harbhajan singh- Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: hissa
927	11//7/3	Private	Irrigated (chahi)	0.0835	Jasveer Singh son Surat Singh 1/3 hissa, Hardeep Singh Mutbanna son Karnail Singh 1/3 hissa, Nirmal Singh son Jarnail Singh 1/6 hissa, , Gurbachan Kaur wife Balveer Singh son Sohan Singh 1/6 hissa
928	12//20/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Hardeep Singh Mutbanna son Karnail Singh
929	12//20/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	Hardeep Singh Mutbanna son Karnail Singh 12//20/2/2
930	12//21/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Nirmal Singh son Jarnail Singh 108/217 hissa, Gurtej Singh son Jarnail Singh 40/217 hissa Gurbachan Kaur wife Balveer Singh 69/217hissa
931	12//21/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Amarjeet Singh - Joga Singh- Randhir Singh son Dara Singh b:b: hissa

932	13//1	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	1/1 (0-17) nirmal singh son jarnail singh 13/17 hissa jasveer singh son surat singh 3/17 hissa gurbachan kaur wife balveer singh 1/17 hissa , 1/2 (1-3) jasveer singh son surat singh 1/2 hissa gurbachan kaur wife balveer singh 1/4 hissa nirmal singh son jarnail singh 1/4 hissa
933	13//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Nirmal Singh son Jarnail Singh son Jinder Singh 35/445 hissa, Jasveer Singh son Shurrat Singh son Jinder Singh 111/445 hissa, Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh 50/1/2/445 hissa, , Fakir Singh son Sohan Singh 50/1/2/445 hissa, , Gurbachan Kaur wife Balbir Singh son Sohan Singh 36/445 hissa Harbhajan singh-Gurcharan Singh son Hardeep Singh b:b: 111/445 hissa Bag singhso sares singh 31/1/2/445 hissa Harjinder kaur wo jaswinder singh 19/445 hissa
934	13//11	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	Surjit Kaur widow va , Bhol Singh- Madha Singh- Satveer Singh- Lachhman Singh son Maga Ram b:b:hissa
935	13//20/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	20/1/2 fakeer singh son sohan singh va balvbeer singh son sohan singh 3/4 hissa lakhwinder singh jasant singh nidhan singh rajvant singh son preetam singh 1/4 hissa
936	13//20/2	Private	Irrigated (chahi)	0.215	20/2/1 (1-7) Surjit Kaur widow va , Bhol Singh- Madha Singh- Satveer Singh- Lachhman Singh son Maga Ram b:b:hissa , 20/2/2 (2-18) fakeer singh son sohan singh va balvbeer singh son sohan singh 3/4 hissa lakhwinder singh jasant singh nidhan singh rajvant singh son preetam singh 1/4 hissa
937	13//21	Private	Irrigated (chahi)	0.2554	21/1 (2-2) 21/2 (2-19) Balveer Singh son Sohan

					Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa
					harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035
938	14//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Amarjeet Singh - Joga Singh- Randhir Singh son Dara Singh b:b: hissa
939	14//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2453	Pritam Singh son Bhag Singh son Narayan Singh
940	14//25	Private	Irrigated (chahi)	0.1237	Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa
					harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035
941	14//4	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Nirmal Singh son Jarnail Singh 1/6 hissa, jasveer singh son surat singh 2/3 hissa gurbachan kaur wife balveer singh 1/6 hissa
942	14//5	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	Nirmal Singh son Jarnail Singh 1/6 hissa, jasveer singh son surat singh 2/3 hissa gurbachan kaur wife balveer singh 1/6 hissa
943	14//6	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.3794	Amarjeet Singh - Joga Singh- Randhir Singh son Dara Singh b:b: hissa
944	14//7/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Balwinder Singh son Harnam Singh
945	16//15	Private	Gair Mumkin	0.1619	Pritam Singh son Bhag Singh son Narayan Singh
946	16//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	Pritam Singh son Bhag Singh son Narayan Singh
947	16//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Balihan Singh Janpal Singh son Palvinder Singh son Gurnam Singh b:b: hissa,
948	16//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Balihan Singh Janpal Singh son Palvinder Singh son Gurnam Singh b:b: hissa,
949	16//5	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa

					harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035
950	16//6/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1442	Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035
951	16//6/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0582	Pritam Singh son Bhag Singh son Narayan Singh 22/23 hissa Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035 dar 1/23
952	17//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1669	Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035
953	17//10	Private	Irrigated (chahi)	0.3187	Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh353/1035 hissa, Fakir Singh son Sohan Singh son Isar Singh 353/1035 hissa,Jasvir kaur wo Balkar singh 260/1035 hissa harjinder kaur wo jaswinder singh 70/1035
954	17//11	Private	Irrigated (chahi)	0.2175	Pritam Singh son Bhag Singh son Narayan Singh
955	17//20	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	Pritam Singh son Bhag Singh son Narayan Singh
956	20//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2984	Raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh b:b: hissa
957	20//11	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	Raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh 120/144 hissa Harchand Singh son Jagat Singh 24/144 hissa
958	20//12	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	sarbjeet kaur daughter dalel singh

959	20//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	Harchand Singh son Jagat Singh
960	20//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3237	Raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh
961	20//21/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2099	Raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh b:b: hissa
962	20//21/2	Private	Irrigated (chahi)	0.043	Raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh b:b: hissa
963	20//22/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2478	Harchand Singh son Jagat Singh
964	20//22/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh 1/3 hissa harchand singh son jagat singh 1/3 hissa daler singh urf dalel singh son jagan singh 1/3 hissa
965	20//9	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.0835	raj kaur widow va Jarnail singh -gursewak singh so Joginder singh 1/2 hissa harchand singh son jagat singh 1/2 hissa
966	21//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Balihan Singh Janpal Singh son Palvinder Singh son Gurnam Singh b:b: hissa,
967	23//1	Private	Irrigated (chahi)	0.2048	Malook singh so Fakeer singh
968	23//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa
969	23//11	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Ajaib Singh son Amarjeet Singh 8/45 hissa, Baldev Kaur widow Amarjeet Singh 1/15 hissa, Baldev Kaur Mata Gurtej Singh 2/45 hissa, Jaswinder Kaur widow Gutej Singh 1/9 hissa, Avtar Singh son Gurtej Singh 216/1393 hissa, Baldev Kaur Mata Gurjant Singh 2/45 hissa, Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/9 Issa, Prit Pal Singh, son Gurjant Singh, 6266/62685 hissa, gurjinder Kaur wife Ajaib Singh, son of Amarjit Singh 1/45 hissa,

970	23//12	Private	Irrigated (chahi)	0.3869	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa
971	23//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa
972	23//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa
973	23//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	Surjit Singh-gurdeep Singh son Amrik Singh
974	23//19/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2807	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa
975	23//19/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
976	23//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa
977	23//20	Private	Irrigated (chahi)	0.1037	Ajaib Singh son Amarjeet

					Singh 8/45 hissa, Baldev Kaur widow Amarjeet Singh 1/15 hissa, Baldev Kaur Mata Gurtej Singh 2/45 hissa, Jaswinder Kaur widow Gutej Singh 1/9 hissa, Avtar Singh son Gurtej Singh 216/1393 hissa, Baldev Kaur Mata Gurjant Singh 2/45 hissa, Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/9 Issa, Prit Pal Singh, son Gurjant Singh, 6266/62685 hissa, gurjinder Kaur wife Ajaib Singh, son of Amarjit Singh 1/45 hissa,
978	23//21	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	Ajaib Singh son Amarjeet Singh 8/45 hissa, Baldev Kaur widow Amarjeet Singh 1/15 hissa, Baldev Kaur Mata Gurtej Singh 2/45 hissa, Jaswinder Kaur widow Gutej Singh 1/9 hissa, Avtar Singh son Gurtej Singh 216/1393 hissa, Baldev Kaur Mata Gurjant Singh 2/45 hissa, Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/9 Issa, Prit Pal Singh, son Gurjant Singh, 6266/62685 hissa, gurjinder Kaur wife Ajaib Singh, son of Amarjit Singh 1/45 hissa,
979	23//22	Private	Gair Mumkin, Irrigated(chahi)	0.4046	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
980	23//23	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Amrik Singh son Karnail Singh
981	23//9/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1037	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa

982	23//9/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1745	simarjit kaur wo Satnam singh so manjit singh 80/2683 Bhupinder singh so Teja singh 704/2683 Malook singh so Fakir singh 1205/2683 hissa mahinder singh son teja singh 694/2683 hissa
983	23//9/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	Malook singh so Fakeer singh
984	32//1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Ajaib Singh son Amarjeet Singh 8/45 hissa, Baldev Kaur widow Amarjeet Singh 1/15 hissa, Baldev Kaur Mata Gurtej Singh 2/45 hissa, Jaswinder Kaur widow Gutej Singh 1/9 hissa, Avtar Singh son Gurtej Singh 216/1393 hissa, Baldev Kaur Mata Gurjant Singh 2/45 hissa, Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/9 hissa, Prit Pal Singh, son Gurjant Singh, 6266/62685 hissa, gurjinder Kaur wife Ajaib Singh, son of Amarjit Singh 1/45 hissa,
985	32//10/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
986	32//12/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Ajaib singh so Sadhu singh 1/2 hissa Garwinder singh so harbans singh 1/2 hissa
987	32//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	Ajaib singh so Sadhu singh 1/2 hissa Garwinder singh so harbans singh 1/2 hissa
988	32//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	Gurwinder singh so harbans singh 18/182 hissa Pritam singh so Matu singh 58/1/2/182. hissa Jasvir singh -gurjit singh -sarbjit singh so Teja singh 69/182 hissa Sukhwinder Kaur wo Jarnail singh 86/182 hissa (NOTE- khawat hissa vadd check)

989	32//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1366	NA13/2/1 (0-8)- Gurwinder singh so harbans singh 18/182 hissa Pritam singh so Matu singh 58/1/2/182-hissa Jasvir singh -gurjit singh -sarbjit singh so Teja singh 69/182 hissa Sukhwinder Kaur wo Jarnail singh 86/182 hissa (NOTE- khewat hissa vadd check) 13/2/2 (0-18) - jasveer singh son teja singh 1/6 hissa gurjeet singh sarbjeet singh son teja singh 1/3 hissa gurvinder singh son harbans singh 1/2 hissa , 13/2/2 min (1-8)- teja singh son sadhu singh 11/28 hissa gurvinder singh son harbans singh 11/1/2/28 hissa gurcharan singh son darbara singh 5/1/2/28 hissa
990	32//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	Amrinder singh so Ajaib singh
991	32//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Pritam singh so Matu singh so sahib singh 54/108 hissa Amrinder singh so Ajaib singh 54/108
992	32//19/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	Pritam singh so Matu singh
993	32//19/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	Pritam singh so Matu singh so sahib singh 54/108 hissa Amrinder singh so Ajaib singh 54/108
994	32//2	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
995	32//22	Private	Irrigated (chahi)	0.22	22/1 (3-8) roshani devi etc. khewat no. 193/318-319-321 22/2 (0-19) preetam singh son matu singh 42/188/1/2 hissa roshani devi wife preeram singh 73/1/2/188/1/2 hissa sukhwinder kaur wife jarnail singh 73/188/1/2 hissa

996	32//23	Private	Gair Mumkin, Irrigated(chahi)	0.258	Teja singh so Sadhu singh 4657/15510 hissa Harbans singh so Sadhu singh 1067/3447 hissa Ajaib singh so Sadhu singh 15287861/53462970 hissa
					Amrinder singh so Ajaib singh 832/10341 hissa Gurwinder singh so harbans singh 82/3447 hissa
997	32//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
998	32//8	Private	Irrigated (chahi)	0.134	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
999	32//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3971	Baldev Kaur widow va Ajaib Singhso Amarjeet Singh 2/5 hissa, Baldev Kaur Mata 2/20 hissa va Harvinder Kaur widow Gurjant Singh 1/6 hissa, Preetpal Singh son Gurjant Singh son Amarjit Singh 1/20 hissa, Jaswinder Kaur widow 1/6 hissa va avtar Singh son of Gurtej Singh 1/20 hissa Gurjinder Kaur wife Ajaib Singh son Amarjit Singh 1/15 hissa
1000	35//12/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1239	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mohinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1001	35//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Amarjit singh so Kapoor

					singh 27/43 hissa Mohinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1002	35//13	Private	Irrigated (chahi)	0.392	Surjit Singh-gurdeep Singh son Amrik Singh
1003	35//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	rupender singh son ranjeet singh etc. khewat no. 208
1004	35//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	rupender singh ranjeet singh 42/336 hissa jujhar singh son ranjeet singh 42/336 hissa bhagwant kaur wife swarn singh 84/336 hissa satwant kaur wife mahinder singh 84/336 hissa kultaar singh son maghi singh 84/336 hissa
1005	35//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.349	Surjit Singh-gurdeep Singh son Amrik Singh
1006	35//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0556	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mahinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1007	35//19	Private	Irrigated (chahi)	0.091	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mahinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1008	35//2/1	Private	Gair Mumkin,Irrigated(chahi)	0.1517	Surjit Singh-gurdeep Singh son Amrik Singh
1009	35//2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Balwinder Kaur wife Nissan Singh
1010	35//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	Amarjit kaur do Mahinder Singh son Malan Singh
1011	35//23/1	Private	Irrigated (chahi)	0.3465	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mahinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1012	35//23/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mahinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1013	35//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mahinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1014	35//3/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mohinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa
1015	35//3/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2655	Surjit Singh-gurdeep Singh son Amrik Singh
1016	35//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Baljit Singh - Balkar Singh Jagtar Singh son Raghavir

					Singh
1017	35//8/2	Private	Irrigated (chahi)	0.349	Surjit Singh-gurdeep Singh son Amrik Singh
1018	35//9	Private	Irrigated (chahi)	0.172	Balwinder Kaur wife Nissan Singh
1019	43//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 4/15 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 7/30 hissa, Sulinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 7/30 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 4/15 hissa,
1020	43//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2529	Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 20/100 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 20/100 hissa, Surinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 20/100 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 20/100 hissa, Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 5/100 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 5/100 hissa, Sulinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 5/100 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 5/100 hissa,
1021	43//14/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa, Surinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa,
1022	43//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.091	Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa, Surinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa,
1023	43//17	Private	Irrigated (chahi)	0.2782	Gurjunt Singh-Harpreet Singh son Kultar Singh son

					Maghi Singh70/114 hissa, Baljinder Singh son Kulatar Singh son Maghi Singh 22/57 hissa
1024	43//18	Private	Irrigated (chahi)	0.2377	Gurjunt Singh-Harpreet Singh son Kultar Singh son Maghi Singh70/114 hissa, Baljinder Singh son Kulatar Singh son Maghi Singh 22/57 hissa
1025	43//23	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	Gurjunt Singh-Harpreet Singh son Kultar Singh son Maghi Singh70/114 hissa, Baljinder Singh son Kulatar Singh son Maghi Singh 22/57 hissa
1026	43//24	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	Gurjunt Singh-Harpreet Singh son Kultar Singh son Maghi Singh70/114 hissa, Baljinder Singh son Kulatar Singh son Maghi Singh 22/57 hissa
1027	43//3/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2352	Amarjit singh so Kapoor singh 27/43 hissa Mahinder kaur wo Amarjit singh 16/43 hissa (dar 87/93 hissa)Ram Gopal urf Gopal ram so Hari Chand 65/244 hissa, Bhim chand son Hari Chand 65/244 hissa, , Balveer Kaur wife Baljinder Singh 57/122 hissa (dar 6/93 hissa)
1028	43//3/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Mukhtar Kaur Widow Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Balwinder Singh Putra Bachchan Singh Putra Purun Singh 167/1014 hissa, casar Singh Putra Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Hardeep Singh Putra Bachhan Singh Putra Pooran Singh 35/169 hissa, Gurdeep Singh son Bachhan Singh son Puran Singh 35/169 hissa, Tarsheem Singh -, Jagjit Singh son Dalip Singh son Hazura Singh 10/2028 hissa ,
1029	43//3/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0556	Mukhtar Kaur Widow Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Balwinder Singh Putra Bachchan Singh Putra Purun Singh 167/1014

					hissa, easar Singh Putra Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Hardeep Singh Putra Bachhan Singh Putra Pooran Singh 35/169 hissa, Gurdeep Singh son Bachhan Singh son Puran Singh 35/169 hissa, Tarsheem Singh -, Jagjit Singh son Dalip Singh son Hazura Singh 10/2028 hissa ,
1030	43//4	Private	Irrigated (chahi)	0.086	Ram Gopal urf Gopal ram so Hari Chand 65/244 hissa, Bhim chand son Hari Chand 65/244 hissa, , Balveer Kaur wife Baljinder Singh 57/122 hissa
1031	43//7/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0329	Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa, Sulinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa,
1032	43//7/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1593	Rupinder Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa, Ranjodh Singh son Rupinder Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa, Sulinder Singh son Jujhar Singh son Ranjit Singh 1/4 hissa , Jujhar Singh son Ranjit Singh son Maghi Singh 1/4 hissa,
1033	43//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2529	Mukhtar Kaur Widow Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Balwinder Singh Putra Bachchan Singh Putra Puran Singh 167/1014 hissa, easar Singh Putra Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Hardeep Singh Putra Bachhan Singh Putra Pooran Singh 35/169 hissa, Gurdeep Singh son Bachhan Singh son son Puran Singh 35/169 portion, Tarsheem Singh -, Jagjit Singh son Dalip Singh son Hazura Singh 10/2028 hissa ,

1034	43/8/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Mukhtar Kaur Widow Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Balwinder Singh Putra Bachchan Singh Putra Purun Singh 167/1014 hissa, casar Singh Putra Bachhan Singh Putra Puran Singh 211/1014 hissa, Hardeep Singh Putra Bachhan Singh Putra Pooran Singh 35/169 hissa, Gurdeep Singh son Bachhan Singh son son Puran Singh 35/169 portion, Tarsheem Singh -, Jagjit Singh son Dalip Singh son Hazura Singh 10/2028 hissa ,
1035	46//13	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1036	46//14	Private	Irrigated (chahi)	0.3768	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1037	46//16/1 min	Private	Irrigated (chahi)	0.0354	16/1/2 ranjeet singh son varhiam singh 1/2 hissa sukhdev singh son nishan singh 1/3 hissa shamsher singh son nishan singh 1/12 hisa gurmeet singh son nishan singh 1/12 hissa
1038	46//16/2 min	Private	Irrigated (chahi)	0.1136	16/2/2 (2-5) Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034

					hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa (dar 41/45 hissa) khushi ram son noordin 4/45 hissa
1039	46//17/1 min	Private	Irrigated (chahi)	0.0124	17/1/1 (0-5) khushi ram son noordin
1040	46//17/2 min	Private	Irrigated (chahi)	0.1338	17/2/1/1 (1-0) khushi ram son noordin, 17/2/1/2 (1-13) Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1041	46//17/3 min	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	17/3/1 (0-5) punjab sarkar 17/3/2 (1-1) Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1042	46//24/1	Government	Gair Mumkin(Drain)	0.0025	punjab sarkar
1043	46//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.2074	Khushi Ram Putra noor din so isa
1044	46//25/1min	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Khushi Ram Putra noor din so isa
1045	46//25/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Ramneet kaur do Baljinder Singh 1/8 hissa Arshdeep singh so baljinder Singh 3/8 hissa
1046	46//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1163	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517

					hissa
1047	46//4	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1048	46//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1049	46//6/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1050	46//7	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1051	46//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	Sohan Singh son Gurdial Singh son Bhajan Singh 2194/7517 hissa, Sukhnam Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034 hissa, Yadvinder Singh son Sukhwinder Singh son Gurdial Singh 3723/15034

					hissa, Amarjit kaur wo sohan singh 1600/7517 hissa
1052	5//24	Private	Irrigated (chahi)	0.2681	24/1 (0-1) Nirmal Singh son Jarnail Singh son Jinder Singh 35/445 hissa, Jasveer Singh son Shurrat Singh son Jinder Singh 111/445 hissa, Balveer Singh son Sohan Singh son Isar Singh 50/1/2/445 hissa, , Fakir Singh son Sohan Singh 50/1/2/445 hissa, , Gurbachan Kaur wife Balbir Singh son Sohan Singh 36/445 hissa Harbhajan singh-Gurbachan Singh son Hardeep Singh b:b: 111/445 hissa Bag singhso sares singh 31/1/2/445 hissa Harjinder kaur wo jaswinder singh 19/445 hissa 24/2 (5-5) Balveer singh- Fakir Singh son Sohan Singh b:b: 2/3 hissa, Sadha Singh son Sohan Singh 16/183 hissa jasvir kaur wife Balkar singh 15/61 hissa
1053	52//1	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Ramneet kaur do Baljinder Singh 1/8 hissa Arshdeep singh so baljinder Singh 3/8 hissa
1054	52//10/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Ramneet kaur do Baljinder Singh 1/8 hissa Arshdeep singh so baljinder Singh 3/8 hissa
1055	52//10/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Ramneet kaur do Baljinder Singh 1/8 hissa Arshdeep singh so baljinder Singh 3/8 hissa
1056	52//11/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	Kuldeep Singh alias Pradeep Singh son Bahadar Singh 65/1/4/261 hissa, Randhir Singh son Bahadar Singh 65/1/2/261 hissa, Jagtar Singh son Satpal Singh 130/1/2/261 hissa
1057	53//15	Private	Irrigated (chahi)	0.1366	Kuldeep Singh alias Pradeep Singh son Bahadar Singh 65/1/4/261 hissa,

					Randhir Singh son Bahadar Singh 65/1/2/261 hissa, Jagtar Singh son Satpal Singh 130/1/2/261 hissa (dar 19/59 hissa) amrinder singh son gurdarshan singh 40/59 hissa
1058	53//5/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0658	Khushi Ram Putra noor din so isa
1059	53//5/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	Kuldeep Singh alias Pradeep Singh son Bahadar Singh 65/1/4/261 hissa, Randhir Singh son Bahadar Singh 65/1/2/261 hissa, Jagtar Singh son Satpal Singh 130/1/2/261 hissa
1060	53//5/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Rameet kaur do Baljinder Singh va Arshdeep singh 1/8 hissa,so baljinder Singh 3/8 hissa
1061	53//5/2/3	Private	Irrigated (chahi)	0.0455	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Ramneet kaur do Baljinder Singh 1/8 hissa Arshdeep singh so baljinder Singh 3/8 hissa
1062	53//6/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1644	Kulwinder Singh son Satnam Singh 1/2 hissa Rameet kaur do Baljinder Singh va Arshdeep singh 1/8 hissa,so baljinder Singh 3/8 hissa
1063	53//6/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1644	Kuldeep Singh alias Pradeep Singh son Bahadar Singh 65/1/4/261 hissa, Randhir Singh son Bahadar Singh 65/1/2/261 hissa, Jagtar Singh son Satpal Singh 130/1/2/261 hissa
1064	80	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Pahi)	0.0101	Nagar Panchayat
1065	88	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Khal)	0.0303	Nagar Panchayat
1066	89	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Pahi)	0.1664	Nagar Panchayat
1067	94min	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin (Pahi)	0.0582	Nagar Panchayat
1068	95	Common(Nagar Panchayat)	Gair Mumkin(Khal)	0.0101	Nagar Panchayat
Village: Teipur					
1069	10//1	Private	Irrigated (chahi)	0.2074	jangir siingh son arjan

					singh 1/2 hissa , bhupinder singh -jaswinder singh - hardeep singh son joginder singh son arjan singh B:B: 1/2 hisa,
1070	10//10	Private	Irrigated (chahi)	0.2352	jangir siingh son arjan singh 1/2 hissa , bhupinder singh -jaswinder singh - hardeep singh son joginder singh son arjan singh B:B: 1/2 hisa,
1071	10//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	11/2 -(0-10) , harjeet singh son jangir singh son harman singh 1/2 hisa, balwinder kaur wido va gurwinder singh son rajwinder kaur wife sukhjeet singh 1/2 hisa, 11/1 - (1-2) jangir siingh son arjan singh 1/2 hissa , bhupinder singh -jaswinder singh - hardeep singh son joginder singh son arjan singh B:B: 1/2 hisa,
1072	10//12	Private	Irrigated (chahi)	0.3844	(10//12/2) - 4-17 harjeet singh son jangeer singh 1/2 hisa, gurwinder singh son sukhjeet singh 1/2 hisa,(10//12/1) 2-15 jangir siingh son arjan singh 1/2 hissa , bhupinder singh -jaswinder singh - hardeep singh son joginder singh son arjan singh B:B: 1/2 hisa,
1073	10//13	Private	Irrigated (chahi)	0.1644	, 13/2 -(2-12) harjeet singh son jangeer singh 1/2 hisa, gurwinder singh son sukhjeet singh 1/2 hisa,13/1 (0 -13) - harjeet singh son jangeer singh 1/2 hisa, gurwinder singh son sukhjeet singh 1/2
1074	10//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	Harjit Singh son Jangir Singh 1/2 Hissa, Balwinder Kaur widow va gurwinder singh son sukhjeet singh 1/2 HISA
1075	10//18	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	Harjit Singh son Jangir Singh 1/2 Hissa, Balwinder Kaur widow va gurwinder singh son sukhjeet singh HISA
1076	10//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	harjeet singh son jangeer singh 1/2 hisa, gurwinder singh son sukhjeet singh 1/2 hisa,

1077	10//2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0278	Jangir Singh son Arjan Singh son Nihal Singh 1/2 Hisa, Bhupinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Jaswinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Hardeep Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa,
1078	10//2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Jangir Singh son Arjan Singh son Nihal Singh 1/2 Hisa, Bhupinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Jaswinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Hardeep Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa,
1079	10//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0303	jawahrat wife gurdalay singh son tara singh,
1080	10//23	Private	Irrigated (chahi)	0.3768	jawahrat wife gurdalay singh son tara singh,
1081	10//24	Private	Irrigated (chahi)	0.2428	jawahrat wife gurdalay singh son tara singh,
1082	10//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	Jangir Singh son Arjan Singh son Nihal Singh 1/2 Hisa, Bhupinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Jaswinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Hardeep Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa,
1083	10//9	Private	Irrigated (chahi)	0.3237	Jangir Singh son Arjan Singh son Nihal Singh 1/2 Hisa, Bhupinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Jaswinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Hardeep Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa,
1084	100	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.2175	Common(Mushtarka Malkan)
1085	111	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Saraswati Drain)	0.1366	Common(Mushtarka Malkan)
1086	18//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0835	Gurbachan Singh son Ujagar Singh son Keshar Singh
1087	18//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Harbhajan Singh son Ujagar singh son Keshar

					Singh 17/18 HISA, Kuldeep Singh- surjeet singh son Harbhajan Singh B:B: 1/18 hisa
1088	18//20	Private	Irrigated (chahi)	0.2655	Harbhajan Singh son Ujagar singh son Keshar Singh 17/18 HISA, Kuldeep Singh- surjeet singh son Harbhajan Singh B:B: 1/18 hisa
1089	18//21/1	Private	Irrigated (chahi)	0.3692	gurbachan singh son ujagar singh son keshar singh ,
1090	18//21/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	jeet kaur widow balwinder kaur douter gean singh 2/10 hisa, rajpal singh- sukhwinder singh jaskarn singh son karneil singh 1/10 hisa, charnjeet singh kewaljeet singh son puran singh 1/10 hisa, satnam singh son sukhchain singh 2/10 hisa, satpal singh -ram singh osn tarloachan singh 2/10 hisa, gurwinder singh son baljibnder singh 2/10 hisa, amar singh son jhanda singh 1/10 hisa, harjinder singh son deyal singh 1/30 hisa, lakhwinder singh son deyal singh 1/30 hisa, kulwinder singh son deyal singh 1/30 hisa,
1091	18//22	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Gurbachan Singh son Ujagar Singh son Keshar Singh
1092	189	Common(Mushtarka Malkan)	Irrigated (chahi)	0.0632	Nagar panchayat
1093	19//14/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0885	kulwinder singh - lakhwinder singh -harjinder singh son deyal singh B:B: hisa
1094	19//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0329	jagtar singh son sadhu singh 973/131223 hisa, karmjeet singh mukhtar singh 200/527,hisa, suwinder kaur douter sadhu singh ,80/1581 hisa, dalveer kaur wife kulwinder singh 19/249 hisa, simranjeet kaur wife lakjhwinder singh 19/249 hisa diljeet singh -kuldeep singh son bhagwan singh son sadhu singh 216/527 hisa,
1095	19//15	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	jagtar singh son sadhu

					singh 973/131223 hisa, karmjeet singh mukhtar singh 200/527,hisa, suwinder kaur douter sadhu singh ,80/1581 hisa, dalveer kaur wife kulwinder singh 19/249 hisa, simranjeet kaur wife lakjhinder singh 19/249 hisa diljeet singh -kuldeep singh son bhagwan singh son sadhu singh 216/527 hisa,
1096	19//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	jagtar singh son Sadhu Singh 5483/76415 hisa, suwinder kaur son sadhu singh 110/1581 hisa, karmjeet singh son mukteyar singh 14134/45849 hisa, dalveer kaur wife kulwinder singh101/2465 hisa,simranjeet kaur wife lakhwinder singh 101/2465 hisa, Marook Education and welfare society teipur teh- Patran 96/483 hissa Daljit Singh - kuldeep singh so Bhagwan singh so Sadhu singh 12550 /45849 hisa
1097	19//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	jagtar singh son Sadhu Singh 5483/76415 hisa, suwinder kaur son sadhu singh 110/1581 hisa, karmjeet singh son mukteyar singh 14134/45849 hisa, dalveer kaur wife kulwinder singh101/2465 hisa,simranjeet kaur wife lakhwinder singh 101/2465 hisa, Marook Education and welfare society teipur teh- Patran 96/483 hissa Daljit Singh - kuldeep singh so Bhagwan singh so Sadhu singh 12550 /45849 hisa
1098	19//25	Private	Irrigated (chahi)	0.091	jagtar singh son Sadhu Singh 5483/76415 hisa, suwinder kaur son sadhu singh 110/1581 hisa, karmjeet singh son mukteyar singh 14134/45849 hisa, dalveer kaur wife kulwinder singh101/2465 hisa,simranjeet kaur wife lakhwinder singh 101/2465

					hisa, Marook Education and welfare society teipur teh- Patran 96/483 hissa Daljit Singh - kuldeep singh so Bhagwan singh so Sadhu singh 12550 /45849 hisa
1099	19//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1669	Chachal Singh son Tara Singh
1100	19//4	Private	Irrigated (chahi)	0.3667	Chachal Singh son Tara Singh
1101	19//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0582	Chachal Singh son Tara Singh
1102	19//6	Private	Irrigated (chahi)	0.2934	kulwinder singh - lakhwinder singh -harjinder singh son deyal singh B:B: hisa
1103	19//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	kulwinder singh - lakhwinder singh -harjinder singh son deyal singh B:B: hisa
1104	19//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	kulwinder singh - lakhwinder singh -harjinder singh son deyal singh B:B: hisa
1105	190	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0354	Common(Mushtarka Malkan)
1106	196	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0329	Nagar panchayat
1107	197	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0961	Nagar panchayat
1108	198	Common(Mushtarka Malkan)	Irrigated(chahi)	0.0177	Nagar panchayat
1109	207	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0481	Common(Mushtarka Malkan)
1110	210	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.091	Common(Mushtarka Malkan)
1111	211	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.134	Common(Mushtarka Malkan)
1112	22//1	Private	Irrigated (chahi)	0.2883	Narinder singh - malkeet singh - sawinder singh son darsan singh B:B:
1113	22//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0809	Narinder singh - malkeet singh - sawinder singh son darsan singh B:B:
1114	22//12	Private	Irrigated (chahi)	0.2832	Deep singh - amreek singh -manjeet singh -jaswinder singh son peyara singh B:B:
1115	22//13	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	Surjit Singh son Pritam

					Singh son Asha Singh
1116	22//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Savinder Singh Putra Harnam Singh 1/2 Hissa, Balveer Singh Son Harnam Singh 1/2 Hissa
1117	22//17	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Surjit Singh son Pritam Singh son Asha Singh
1118	22//18	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Surjit Singh son Pritam Singh son Asha Singh
1119	22//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0835	Inder Singh son Asha Singh son Hukam Singh
1120	22//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3338	deep singh - amreek singh - manjeet singh- jaswinder singh son peyara singh B:B:
1121	22//23	Private	Irrigated (chahi)	0.2883	Surjit Singh son Pritam Singh son Asha Singh
1122	22//24	Private	Irrigated (chahi)	0.3313	Surjit Singh son Pritam Singh son Asha Singh
1123	22//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Surjit Singh son Pritam Singh son Asha Singh
1124	22//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	deep singh - amreek singh - manjeet singh- jaswinder singh son peyara singh B:B:
1125	22//8	Private	Irrigated (chahi)	0.1366	Deep singh - amreek singh -manjeet singh -jaswinder singh son peyara singh B:B:
1126	22//9	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Deep singh - amreek singh -manjeet singh -jaswinder singh son peyara singh B:B:
1127	234	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0253	Common(Mushtarka Malkan)
1128	235	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0253	Common(Mushtarka Malkan)
1129	236	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0202	Common(Mushtarka Malkan)
1130	237	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0354	Common(Mushtarka Malkan)
1131	241	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.1113	Common(Mushtarka Malkan)
1132	243	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin (Khal)	0.0076	Common(Mushtarka Malkan)
1133	30//10/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	sawinder singh son harnam singh 1/2 hisa, balveer singh son harnam singh 1/2 hisa,

1134	30//11	Private	Irrigated (chahi)	0.1214	Kulvir Singh son Ujjat Singh va: va:
1135	30//19	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	sarnjeet kaur widow va: harmeet singh son va: ramdeep kaur - kirndeeep kaur douthar balwinder singh B:B:470/998 hisa,kulwinder singh son balwant singh 470/998 sawinder singh - balveer singh son harnam singh 58/998 hisa ,
1136	30//20	Private	Irrigated (chahi)	0.3212	sarnjeet kaur widow va: harmeet singh son va: ramdeep kaur - kirndeeep kaur douthar balwinder singh B:B:470/998 hisa,kulwinder singh son balwant singh 470/998 sawinder singh - balveer singh son harnam singh 58/998 hisa ,
1137	30//21	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	sarnjeet kaur widow va: harmeet singh son va: ramdeep kaur - kirndeeep kaur douthar balwinder singh B:B:470/998 hisa,kulwinder singh son balwant singh 470/998 sawinder singh - balveer singh son harnam singh 58/998 hisa ,
1138	30//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0835	sarnjeet kaur widow va: harmeet singh son va: ramdeep kaur - kirndeeep kaur douthar balwinder singh B:B:470/998 hisa,kulwinder singh son balwant singh 470/998 sawinder singh - balveer singh son harnam singh 58/998 hisa ,
1139	31//14/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0936	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1140	31//15	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa,, Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar

					Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hissa
1141	31//16/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1163	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1142	31//16/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1239	ajit singh son tara singh
1143	31//25	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1144	31//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0759	Surjit Singh matebana Pritam Singh
1145	31//4/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Surjit Singh matebana Pritam Singh
1146	31//4/2	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	Surjit Singh matebana Pritam Singh
1147	31//5	Private	Irrigated (chahi)	0.1239	Surjit Singh matebana Pritam Singh
1148	31//6	Private	Irrigated (chahi)	0.3085	sarbjeet singh baldev singh kamljeet singh son amar singh 3/4 hisa, mandeep singh -jaskarn singh son rajinder singh 1/4 hisa,
1149	31//7	Private	Irrigated (chahi)	0.2934	sarbjeet singh baldev singh kamljeet singh son amar singh 3/4 hisa, mandeep singh -jaskarn singh son rajinder singh 1/4 hisa,
1150	35//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0784	mukhteyar singh son kpoor singh sulakhan singh
1151	35//1/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	mukhteyar singh son kpoor singh sulakhan singh
1152	35//1/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1442	sukhwinder soingh - rajpal singh - jaskarn singh - son karneil singh B:B
1153	35//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	Mukhtar Singh son Kapur Singh son Sulakhan Singh
1154	35//12	Private	Irrigated (chahi)	0.2782	dilbag singh - karneil singh son prem singh 2/3 hisa, jasveer kaur mother rajwinder singh son

					lakhwinder singh 1/5 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 1/6 hisa,
1155	35//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1593	harbhajan kaur wife jagdees singh 127/1/2/314 hisa, jasveer kaur widow 19/314 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 15/314 hisa, jaswinder singh son peyara singh 8/1/2/3/4 hisa, gurwinder singh son baljinder singh 30/314 hisa, prakash kaur douter prem singh 2/314 hisa dilbag singh karneil singh son prem singh B: 56/157 hisa,
1156	35//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.091	harbhajan kaur wife jagdees singh 127/1/2/314 hisa, jasveer kaur widow 19/314 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 15/314 hisa, jaswinder singh son peyara singh 8/1/2/3/4 hisa, gurwinder singh son baljinder singh 30/314 hisa, prakash kaur douter prem singh 2/314 hisa dilbag singh karneil singh son prem singh B: 56/157 hisa,
1157	35//17/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	sukhvinder singh - jagdees singh son rachhpal singh B:B:
1158	35//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2099	(18/1/1)- (1-0) , (18/1/2) - (3-0) , 18/1/3 (0-3) - sawinder singh son mahinder singh 80/249 hisa, hardeep singh son harpal singh 80/249 hisa, kasmee singh son mahinder singh 80/249 sukhvinder singh jagdeesh singh son rachhpal singh 3/83 hisa
1159	35//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1897	sukhwinder singh - rajpal singh - jaskarn singh - son karneil singh B:B
1160	35//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	sukhwinder singh - rajpal singh - jaskarn singh - son karneil singh B:B
1161	35//2	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	sukhwinder soingh - rajpal singh - jaskarn singh - son karneil singh B:B
1162	35//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	hardeep singh son harpal singh son mahinder singh

					1/3 hisa,sawinder singh - kasmear singh son mahinder singh B:B: 2/3hisa,
1163	35//23	Private	Irrigated (chahi)	0.3111	23/1 -(0-12) , 23/2/1 -(1-5) hardeep singh son harpal singh son mahinder singh 1/3 hisa,sawinder singh - kasmear singh son mahinder singh B:B: 2/3hisa 23/2/2 -(4-6) rachhpal singh son hewala singh
1164	35//24/1	Private	Irrigated (chahi)	0.172	rachhpal singh son hardev singh
1165	35//24/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Jagdish Singh - Sukhvir Singh son Rachpal Singh son Havela Singh B:B:
1166	35//3	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Karnail Singh son Prem Singh son Jhanda Singh 1/3 hisa, sukhraj singh son ranjeet singh 85/831 hisa,dilbag singh son prem singh 1/3 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 100/19944 hisa, jasveer kaur wife lakhwinder singh son prem singh 26/144 hisa,
1167	35//8/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Karnail Singh son Prem Singh son Jhanda Singh 1/3 hisa, sukhraj singh son ranjeet singh 85/831 hisa,dilbag singh son prem singh 1/3 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 100/19944 hisa, jasveer kaur wife lakhwinder singh son prem singh 26/144 hisa,
1168	35//8/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0986	mukhtar singh son Kapoor singh son Sulakhan Singh
1169	35//8/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	mukhtar singh son Kapoor singh son Sulakhan Singh
1170	35//9/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	mukhtar singh son Kapoor singh son Sulakhan Singh
1171	35//9/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1593	mukhtar singh son Kapoor singh son Sulakhan Singh
1172	41//10	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Harbhajan singh son Ujagar singh son Kesar singh 17/18 hisa,kuldeep singh - Surjeet singh son Harbhajan singh B:B: 1/18 hisa,
1173	41//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0683	Darshan singh so Bagga

					singh 35/2/3/22/39 hissa Balwinder singh soRawel singh 249/2239 hissa Kulwinder singh so Rawel singh 240/2239 hissa Narinder singh so gyan singh 417/1/4 /2239 hissa harjinder singh so gyan singh 362/1/4/2239 hissa Kewal singh -Sarbjit singh so kirpal singh B:B: 73/2239 hissa Jarnail singh -Sukhdev singh so Lachhman singh 692/2/3/2239 hissa Jaspal Kaur wo Sukhchain singh 80/2239 hissa Lovepreet singh -Arshdeep singh so Kulwinder singh 89/2239 hissa (dar20/27) Jarnail singh -Sukhdev singh so Lachhman singh 7/54 hissa Harinder singh -Narinder singh so Gyan singh 7/54 hissa
1174	41/20	Private	Irrigated (chahi)	0.263	Darshan singh so Bagga singh 35/2/3/22/39 hissa Balwinder singh soRawel singh 249/2239 hissa Kulwinder singh so Rawel singh 240/2239 hissa Narinder singh so gyan singh 417/1/4 /2239 hissa harjinder singh so gyan singh 362/1/4/2239 hissa Kewal singh -Sarbjit singh so kirpal singh B:B: 73/2239 hissa Jarnail singh -Sukhdev singh so Lachhman singh 692/2/3/2239 hissa Jaspal Kaur wo Sukhchain singh 80/2239 hissa Lovepreet singh -Arshdeep singh so Kulwinder singh 89/2239 hissa
1175	41/21	Private	Irrigated (chahi)	0.3439	Darshan singh so Bagga singh 35/2/3/22/39 hissa Balwinder singh soRawel singh 249/2239 hissa Kulwinder singh so Rawel singh 240/2239 hissa Narinder singh so gyan singh 417/1/4 /2239 hissa harjinder singh so gyan singh 362/1/4/2239 hissa Kewal singh -Sarbjit singh so kirpal singh B:B: 73/2239 hissa Jarnail singh -Sukhdev singh so

					Lachhman singh 692/2/3/2239 hissa Jaspal Kaur wo Sukhchain singh 80/2239 hissa Lovepreet singh -Arshdeep singh so Kulwinder singh 89/2239 hissa
1176	41//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0733	Darshan singh so Bagga singh 35/2/3/22/39 hissa Balwinder singh soRawel singh 249/2239 hissa Kulwinder singh so Rawel singh 240/2239 hissa Narinder singh so gyan singh 417/1/4 /2239 hissa harjinder singh so gyan singh 362/1/4/2239 hissa Kewal singh -Sarbjit singh so kirpal singh B:B: 73/2239 hissa Jarnail singh -Sukhdev singh so Lachhman singh 692/2/3/2239 hissa Jaspal Kaur wo Sukhchain singh 80/2239 hissa Lovepreet singh -Arshdeep singh so Kulwinder singh 89/2239 hissa
1177	42//14	Private	Irrigated (chahi)	0.0936	Savinder Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa, hardeep singh son Harpal Singh 129/790 Hisa, manjeet singh son bela singh 4/79 hissa Kashmir Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa,
1178	42//15/1	Private	Irrigated (chahi)	0.129	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1179	42//15/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	15/2/2 - (1-18)) - Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1180	42//16	Private	Irrigated (chahi)	0.3035	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur

					widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1181	42//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1182	42//25	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	Ajit Singh son Tara Singh 1150/2107 hisa, kulwant singh son tara singh 28/2107 hisa, ajit kaur widow 352/2107 hisa, sukhwinder singh son harbans singh 577/2107 hisa,
1183	42//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1163	hardeep singh son harpal singh son mahinder singh 1/3 hisa, sawinder singh - kasmeeer singh son mahinder singh B:B: 2/3hisa,
1184	42//4	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	Savinder Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa, hardeep singh son Harpal Singh 129/790 Hisa, manjeet singh son bela singh 4/79 hissa Kashmir Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa,
1185	42//5	Private	Irrigated (chahi)	0.1012	jaswinder kaur wife 1/6 hissa gurjeet singh son jasdev 1/2 hisa hardeep singh son puran singh 1/2 hissa
1186	42//6	Private	Irrigated (chahi)	0.2984	harbhajan singh son uजार singh
1187	42//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3212	Savinder Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa, hardeep singh son Harpal Singh 129/790 Hisa, manjeet singh son bela singh 4/79 hissa Kashmir Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa,
1188	42//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Savinder Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa,

					hardeep singh son Harpal Singh 129/790 Hisa, manjeet singh son bela singh 4/79 hissa Kashmir Singh son Mahendra Singh son Harnam Singh 1/3 Hisa,
1189	47//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Sarabjit Singh son Kewal Singh son Kirpal SinghB:B: 1146/2972 hisa, Hardis Kaur wife Keval Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Balwinder Kaur wife Sarabjit Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Sukhwinder Kaur wife Kirpal Singh 381/2972 His, Jagtar Singh son Sucha Singh 151/1486 His
1190	48//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1644	Sarabjit Singh son Kewal Singh son Kirpal SinghB:B: 1146/2972 hisa, Hardis Kaur wife Keval Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Balwinder Kaur wife Sarabjit Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Sukhwinder Kaur wife Kirpal Singh 381/2972 His, Jagtar Singh son Sucha Singh 151/1486 His
1191	48//1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	sarbjeet singh kewal singh son kirpal singh 7/221 hisa, harjinder singh son geyan singh 31/1/2/221 hisa, balwinder singh son rawel singh 37/ 221 hisa, jarneil singh lachmun singh 363/4/221 hisa,lovepreet singh arshdeep singh son kulwinder singh 37/221 hisa, nrinder singh son geyan singh 35/221 hisa, sukhdev singh son luchhmun singh 36/3/4/221 hisa, (dar 35/38 hissa) Darshan singh so Bagga singh 35/2/3/22/39 hissa Balwinder singh soRawel singh 249/2239 hissa Kulwinder singh so Rawel singh 240/2239 hissa Narinder singh so gyan singh 417/1/4 /2239 hissa harjinder singh so gyan singh 362/1/4/2239 hissa Kewal singh -Sarbjit singh so kirpal singh B:B:

					73/2239 hissa Jarnail singh -Sukhdev singh so Lachhman singh 692/2/3/2239 hissa Jaspal Kaur wo Sukhchain singh 80/2239 hissa Lovepreet singh -Arshdeep singh so Kulwinder singh 89/2239 hissa (dar 3/38 hissa)
1192	48//1/3	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	Darshan singh so Bagga singh 35/2/3/22/39 hissa Balwinder singh soRawel singh 249/2239 hissa Kulwinder singh so Rawel singh 240/2239 hissa Narinder singh so gyan singh 417/1/4 /2239 hissa harjinder singh so gyan singh 362/1/4/2239 hissa Kewal singh -Sarbjit singh so kirpal singh B:B: 73/2239 hissa Jarnail singh -Sukhdev singh so Lachhman singh 692/2/3/2239 hissa Jaspal Kaur wo Sukhchain singh 80/2239 hissa Lovepreet singh -Arshdeep singh so Kulwinder singh 89/2239 hissa
1193	48//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1315	Sarabjit Singh son Kewal Singh son Kirpal SinghB:B: 1146/2972 hisa, Hardis Kaur wife Keval Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Balwinder Kaur wife Sarabjit Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Sukhwinder Kaur wife Kirpal Singh 381/2972 His, Jagtar Singh son Sucha Singh 151/1486 His
1194	48//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	Sarabjit Singh son Kewal Singh son Kirpal SinghB:B: 1146/2972 hisa, Hardis Kaur wife Keval Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Balwinder Kaur wife Sarabjit Singh son Kirpal Singh 1143/5944 Hisa, Sukhwinder Kaur wife Kirpal Singh 381/2972 His, Jagtar Singh son Sucha Singh 151/1486 His
1195	48//12	Private	Irrigated (chahi)	0.3364	peyara singh son balwant singh son kesar singh

1196	48//13	Private	Irrigated (chahi)	0.2832001	peyara singh son balwant singh son kesar singh
1197	48//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0759	peyara singh son balwant singh son kesar singh
1198	48//18/1	Private	Irrigated (chahi)	0.2226	peyara singh son balwant singh son kesar singh
1199	48//18/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	sinder kaur widow 160/1171 hisa, joginder singh -balwinder singh son janeil singh B:B: 1011/1171 hisa
1200	48//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	sinder kaur widow 160/1171 hisa, joginder singh -balwinder singh son janeil singh B:B: 1011/1171 hisa
1201	48//2	Private	Irrigated (chahi)	0.2782	sarbjeet singh kewal singh son kirpal singh 7/221 hisa, harjinder singh son geyan singh 31/1/2/221 hisa, balwinder singh son rawel singh 37/ 221 hisa, jarneil singh lachmun singh 363/4/221 hisa, lovepreet singh arshdeep singh son kulwinder singh 37/221 hisa, nrinder singh son geyan singh 35/221 hisa, sukhdev singh son luchmun singh 36/3/4/221 hisa,
1202	48//22	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	sinder kaur widow 160/1171 hisa, joginder singh -balwinder singh son janeil singh B:B: 1011/1171 hisa
1203	48//23	Private	Irrigated (chahi)	0.3389	sinder kaur widow 160/1171 hisa, joginder singh -balwinder singh son janeil singh B:B: 1011/1171 hisa
1204	48//24	Private	Irrigated (chahi)	0.2731	harbans singh - piratapl singh manjeet singh son bela B:B:
1205	48//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0835	peyara singh son balwant singh son kesar singh
1206	48//9	Private	Irrigated (chahi)	0.4046	peyara singh son balwant singh son kesar singh
1207	54//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	harbans singh - piratapl singh manjeet singh son bela B:B:
1208	54//20	Private	Irrigated (chahi)	0.1062	20/1 - (0-1) ranjeet singh son va jasveer kaur wido lakhwinder singh b. b. 1/3

					hissa karnail singh dilbag singh son prem singh 2/3 hissa 20/2 - (2-1) karnail singh - dilbag singh son prem singh 4/9 hissa, jasveer kaur widow 4/9 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 1/9 hisa
1209	54/21	Private	Irrigated (chahi)	0.3642	ranjeet singh 1/9 hissa son va jasveer kaur wido lakhwinder singh 4/9 hissa karnail singh dilbag singh son prem singh 4/9 hissa
1210	54/22	Private	Irrigated (chahi)	0.0329	ranjeet singh son va jasveer kaur wido lakhwinder singh b. b. 1/3 hissa karnail singh dilbag singh son prem singh 2/3 hissa
1211	55/14	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1212	55/15	Private	Irrigated (chahi)	0.3996	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1213	55/16	Private	Irrigated (chahi)	0.0733	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1214	55/17/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1215	55/25/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0253	Gurmukh Singh jatinder singh son Jaswant Singh
1216	55/25/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1947	karnail singh - dilbag singh son prem singh 4/9 hissa, jasveer kaur widow 4/9 hisa, ranjeet singh son lakhwinder singh 1/9 hisa
1217	55/3	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	sinder kaur widow 160/1171 hisa, joginder singh -balwinder singh son janeil singh B:B: 1011/1171 hisa
1218	55/4	Private	Irrigated (chahi)	0.4021	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1219	55/5	Private	Irrigated (chahi)	0.0733	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3

1220	55//6/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1239	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1221	55//6/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1416	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1222	55//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3465	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1223	55//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	manjeet kaur widow kuldeep singh 1/3 hisa, harmanpreet singh son kuldeep singh 2/3
1224	62//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0177	Gurmukh Singh jatinder singh son Jaswant Singh
1225	63//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1568	Gurmukh Singh son Jaswant Singh son Keshar Singh 1/2 HIS, Jatinder Singh son Jaswant Singh son Keshar Singh 1/2 HIS
1226	63//1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1189	karneil singh son prem son singh son jhanda singh 1/3 hisa, dilbag singh son prem singh son jhanda singh 1/3 hisa, sukhranj singh son ranjeet singh 1/6 hisa, jasveer kaur mata rajwinder singh 1/6 hisa,
1227	63//10	Private	Irrigated (chahi)	0.1391	10/2 - (2-15) - Gurmukh Singh jatinder singh son Jaswant Singh
1228	63//11	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	Harjinder Kaur wife Baldev Singh son Tara Singh
1229	63//12/1	Private	Irrigated (chahi)	0.3237	baldev singh son tara singh son asha singh
1230	63//12/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0405	baldev singh son tara singh son asha singh
1231	63//13/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0961	baldev singh son tara singh son asha singh
1232	63//13/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	sukhwinder singh--rajpal singh-jaskarn singh son karneil singh B:B: 1/2 hisa, karmjeet singh son mukhteyar singh 1/2 hisa,
1233	63//18	Private	Irrigated (chahi)	0.2554	baldev singh son tara singh son asha singh
1234	63//19	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	baldev singh son tara singh son asha singh
1235	63//2	Private	Irrigated (chahi)	0.1821	karneil singh son prem son

					singh son jhanda singh 1/3 hisa, dilbag singh son prem singh son jhanda singh 1/3 hisa, sukhranj singh son ranjeet singh 1/6 hisa, jasveer kaur mata rajwinder singh 1/6 hisa,
1236	63/22/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0228	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa., Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1237	63/23	Private	Irrigated (chahi)	0.3743	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa., Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1238	63/24	Private	Irrigated (chahi)	0.0506	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa., Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1239	63/8	Private	Irrigated (chahi)	0.0051	sukhwinder singh--rajpal singh-jaskarn singh son karneil singh B:B: 1/2 hisa,karmjeet singh son mukhteyar singh 1/2 hisa,
1240	63/9/1	Private	Irrigated (chahi)	0.1113	karneil singh son prem son singh son jhanda singh 1/3 hisa, dilbag singh son prem singh son jhanda singh 1/3 hisa, sukhranj singh son ranjeet singh 1/6 hisa, jasveer kaur mata rajwinder singh 1/6 hisa,
1241	63/9/2	Private	Irrigated (chahi)	0.1492	Harjinder Kaur wife Baldev Singh son Tara Singh

1242	66//21/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0607	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 446/1040 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 891/1040 hissa hardish kaur wo Kewal singh 891/4160 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 297/2080 hissa
1243	67//14	Private	Irrigated (chahi)	0.1818	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa,, Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hisa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1244	67//15/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0531	Baljinder Singh son Bison Singh 148//1868 Hisa, Sukhchan Singh son Bison Singh 628/1868 Hisa, Gurbinder Singh son Baljinder Singh 200/1868 Hisa, Pramjit Singh son Sucha Singh 183/1868 Hisa, Sarabjit Singh -kewal singh son kirpal singh 80/1868 hisa , Satpal Singh son Tarlochan Singh 314/1/2/1868 Hisa, Ram Singh son Tarlochan Singh 314/1/2/1868 Hisa
1245	67//15/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0632	Balbir singhj so Charan singh so Narain singh 1/2 hissa Subampreet singh so lovepreet singh 1/2 hissa
1246	67//16	Private	Irrigated (chahi)	0.2984	Balbir singhj so Charan singh so Narain singh 1/2 hissa Subampreet singh so lovepreet singh 1/2 hissa
1247	67//17	Private	Irrigated (chahi)	0.0152	Balbir singhj so Charan singh so Narain singh 1/2 hissa Subampreet singh so lovepreet singh 1/2 hissa
1248	67//25	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	Arshpreet kaur do Lakhveer simgh so Charan singh 1/9 hissa Balbir singh so charan singh 1/3 hissa manjeet kaur wo va Subampreet singh so Lakhveer singh 2/9 hissa
1249	67//3	Private	Irrigated (chahi)	0.1871	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa,

					Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa,, Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1250	67//4	Private	Irrigated (chahi)	0.2048	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa,, Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1251	67//6	Private	Irrigated (chahi)	0.0076	Baljinder Singh son Bisan Singh 1/3 Hisa, Sukhchain Singh son Bison singh 1/3 Hisa, Satpal Singh , Ram Singh son Tarlochan Singh 1/3 Hissa
1252	67//7	Private	Irrigated (chahi)	0.3541	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa,, Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1253	67//8	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	Gharbachan Kaur wife Kanwaljit Singh son Amar Singh 20/137 Hisa, Mandeep Singh - Jaskaran Singh son Rajindra Singh 1/4 Hisa,, Baldev Singh son Amar Singh 468/3152 Hisa Sarabjit Singh son Amar Singh 1108/3152 Hissa, Kamaljeet Singh son Amar Singh son Mohan Singh 57/548 Hisa
1254	73//5/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	Arshpreet kaur do Lakhveer simgh so Charan singh 1/9 hissa Balbir singh so charan singh 1/3 hissa manjeet kaur wo Subampreet singh so Lakhveer singh 2/9 hissa

1255	74//1/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 446/1040 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 891/1040 hissa hardish kaur wo Kewal singh 891/4160 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 297/2080 hissa
1256	74//1/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0025	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 590/1376 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 1179/5504 hissa hardish kaur wo Kewal singh 1179/5504 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 393/2752 hissa
1257	74//1/3	Private	Irrigated (chahi)	0.2124	kewal singh-sarbjit singh so Kirpal singh 180/419 hissa hardish akur wo kewal singh 717/3352 hissa balwinder kaur wo sarbjit singh 717/3352 hissa sukhwinder kaur wo Kirpal singh 239/1676 hissa
1258	74//10	Private	Irrigated (chahi)	0.22	(74/10/2) (4-7) Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 65/456 hissa Kewal singh -sarbjit singh so kirpal singh 98/228 hissa Hardish akur wo kewal singh 65/304 hissa balwinder kaur wo sarbjit singh 65/304 hissa
1259	74//11/2/1	Private	Irrigated (chahi)	0.0101	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 590/1376 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 1179/5504 hissa hardish kaur wo Kewal singh 1179/5504 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 393/2752 hissa
1260	74//11/2/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0202	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 590/1376 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 1179/5504 hissa hardish kaur wo Kewal singh 1179/5504 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 393/2752 hissa
1261	74//12	Private	Irrigated (chahi)	0.1467	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 590/1376 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 1179/5504 hissa hardish kaur wo Kewal singh 1179/5504

					hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 393/2752 hissa
1262	74//19	Private	Irrigated (chahi)	0.2023	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 590/1376 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 1179/5504 hissa hardish kaur wo Kewal singh 1179/5504 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 393/2752 hissa
1263	74//9/2	Private	Irrigated (chahi)	0.0126	kewal Singh -Sarbjit singh so kirpal singh 590/1376 hissa Balwinder kaur wo sarbjit singh 1179/5504 hissa hardish kaur wo Kewal singh 1179/5504 hissa Sukhwinder kaur wo Kirpal singh 393/2752 hissa
1264	80	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Ghaggar)	0.4249	Common(Mushtarka Malkan)
1265	81	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Ghaggar)	0.1543	Common(Mushtarka Malkan)
1266	82	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.1214	Common(Mushtarka Malkan)
1267	86	Common(Mushtarka Malkan)	Gair Mumkin(Rasta)	0.0733	Common(Mushtarka Malkan)
1268	9//5	Private	Irrigated (chahi)	0.0481	Jangir Singh son Arjan Singh son Nihal Singh 1/2 Hisa, Bhupinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Jaswinder Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa, Hardeep Singh son Joginder Singh son Arjan Singh 1/6 Hisa
1269	98	Government(Punjab Govt.)	Gair Mumkin(Rajwaha)	0.22	Government(Punjab Govt.)
			TOTAL	206.9719597	

[F. No. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.